

**DUE DATE SLIP**  
**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**  
**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S<br>No. | DUE DATE | SIGNATURE |
|-------------------|----------|-----------|
|                   |          |           |

# हनुमान जीप

संपादन

नरेंद्र निर्मोही

एकमात्र वितरक

अभिषेक पब्लिकेशंज़

चण्डीगढ़-23

○ हस्तक्षेप

○ प्रथम संस्करण: 1979

○ मूल्य : 15 रुपये

प्रकाशनाधिकार : निर्भर सहकार मंडल

प्रकाशक :

निर्भर सहकार मंडल

3625, क्षेत्र 23-डी,  
चण्डीगढ़-160023

मुद्रक :

स्टर्लिंग प्रिंटर्ज

2-वे-शाप-कम-फ्लैट 6, सैक्टर 20-सी,  
चण्डीगढ़ ।

## अनुक्रमणिका

### ○ विचार पक्ष

|                          |                            |               |    |
|--------------------------|----------------------------|---------------|----|
| <input type="checkbox"/> | रचना : संदर्भ और अपेक्षाएँ | संपादकीय      | 5  |
| <input type="checkbox"/> | कहानी और प्राथमिकताएँ      | तरसेम गुजराल  | 25 |
| <input type="checkbox"/> | जनवादी लेखन की समस्याएँ    | जवरीमल्ल पारख | 35 |

### ○ रचनापक्ष

|                          |                 |                  |     |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | श्रयाचित        | स्वयं प्रकाश     | 47  |
| <input type="checkbox"/> | जहर ठहरा हुआ    | चित्रा मुद्गल    | 56  |
| <input type="checkbox"/> | खड़की           | बीर राजा         | 72  |
| <input type="checkbox"/> | रामजी दास       | विष्णु नागर      | 82  |
| <input type="checkbox"/> | टिक्के की वापसी | नरेंद्र वाजवा    | 85  |
| <input type="checkbox"/> | नतीजा           | नमिता सिंह       | 95  |
| <input type="checkbox"/> | कबड्डी          | नरेंद्र निर्मोही | 105 |

## નિર્દ્વાર સહકાર મંડળ

- |                   |                   |                     |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| ○ તરસેમ ગુજરાત    | ○ પ્રચણ્ડ         | ○ નરોંડ નિર્મોહી    |
| ○ સુરોંડ મનન      | ○ જય સિહ આર્ય     | ○ વૃજોંડ કુમાર      |
| ○ નરોંડ વાજવા     | ○ ગુરવચન સિહ      | ○ સુરોંડ મંથન       |
| ○ રાજોંડ મોહન ઘવન | ○ વિનોદ, તિવારી   | ○ અવતાર જૌડા        |
| ○ વૃજ મોહન સિહ    | ○ તેજા સિહ શેરગિલ | ○ સંગ્રામસિહ ઠાકુર  |
| ○ સુવાસ દોપક      | ○ દુનીચંદ વિષ્ટ   | ○ મહાવીર પ્રસાદ જૈન |

## रचना : संदर्भ और अपेक्षाएं

आज भारतीय जन-मानस प्रायः दो तरह के ढर्हे में जीवन-यापन कर रहा है।

एक तो जिसमें प्रेम, मृत्यु, अध्यात्म जैसी न हल हो सकने वाली पहेलियों को चित्तन, मनन के माध्यम से हल करने के चक्कर में वह लगातार उलझता गया है और यही उलझन उसमें हताशा, निराशा और झुंझलाहट पैदा करती है, जो उसे विरासत में मिली है। अतीत के साहित्य का अधिकांश हिस्सा नख-शिख वर्णन, नायक-नायिका भेद, परी कथाओं व स्तुतिगान से भरा पड़ा है चूंकि उस समय का साहित्यकार राजाश्रित था। अधिनायक युग में जहाँ राजा प्रजापिता माना गया हो, उसके विरुद्ध किसी भी प्रजाजन द्वारा कही सार्थक बात विशुद्ध अवहेलना के रूप में ली जाती रही हो वहाँ सामाजिक परिवर्तन की बात लगभग असंभव सी हो जाती है। मर्यादा के नाम पर सही-गलत को ढोते रहने के प्रवचनों के होते सामाजिक चेतना का कुंदित होना स्वाभाविक था। यथास्थिति बनाए रखने के लिए बहुत लाजिमी है कि व्यक्ति की क्षमताओं को ऐसे मुहाने में भोक्त दिया जाए जहाँ सरल करो सवाल की भाँति पूरी दिमागी कसरत के बाद उत्तर शून्य निकले। प्रेम, मृत्यु, अध्यात्म ही ऐसे सवाल थे जहाँ

साहित्यकार सत्यता, अनुभव व कल्पना के घोड़े दौड़ाकर एक ओर राजा को प्रसन्न करने तथा दूसरी तरफ जनता के हितचितक बने रहने का स्वांग भर सकते थे। ये जनता के हित की ही तो बात थी कि उनकी वहू-बेटी प्रेम पाश में फंस या राजा की इच्छा मात्र से राजमहल का शान बन सकती थी और उसकी कई पीढ़ियाँ तर जातीं। लेकिन वाहरी हमलों ने जब राजाओं की सत्ता को चुनौतियाँ देनी शुरू कीं तो बीर गाथाएं प्रस्तुत होने लगी। वही मृत्यु भाग्यशाली मानी गयी जो जन्मभूमि या प्रजापिता की रक्षा में हुई हो। इस उथल-पुथल में दो संस्कृतियों का समावेश तो हुआ किंतु सामाजिक संरचना लगभग वैसी ही रही। सारी वौद्धिकता अपने-अपने धर्म की प्रतिष्ठा में जुट गयी चूंकि धर्म ने ही राजा को सर्वेसर्वा नियुक्त किया था। सारा चित्तन अध्यत्म को समर्पित हुआ। यही अध्यात्म आज भी समाज के अधिकांश हिस्से को अपनी गुफाओं में लिए बैठा है। क्षमताओं का बहुत बड़ा हिस्सा विना ये समझे कि ये समस्याएं भी अन्ततः वैज्ञानिक आधार पर ही सुलझाई जा सकती हैं, निष्क्रिय होता जा रहा है।

दूसरी तरफ ऐसा माहील है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को निरंतर विकसित करता हुआ, एक वैज्ञानिक की तरह पूर्व अनुभवों से सीखता हुआ, नए युग के निर्माण की आकांक्षा में क्रियाशील है इसी आकांक्षा का मूल स्त्रोत तत्कालीन समाज के उपेक्षित साहित्य में खूबी ढूँढा जा सकता है। समय पाकर जब एकलध्य की गुरुदक्षिणा और गुरु की धृष्टता निचले वर्ग तक संप्रेषित होने लगी और शोषण प्रक्रिया और तीव्र हुई तो जाति प्रथा का चौखटा चरमराने लगा, जिसकी चरमरहट को सर्वप्रथम कबीर ने ही वाणी दी। उसकी खंडन मंडन की प्रवृत्ति को लेकर भले ही अनेक अंतर्विरोध नजर आएं, यह मानते में कोई संकोच नहीं कि वह अपने समय का युगदृष्टा था। जहां उसने अपनी सारी क्षमताएं सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करने में लगा दी वहीं तुलसी

दास ने पूरे समाज को 'राम चरित मानस' के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुसरण की ओर प्रेरित कर पुनः मनु द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था व अविनायकवाद की प्रतिष्ठा की। कदीर तुलसी का साहित्य सामाजिक दृष्टि का परिचायक है। हर क्रियाकलाप मनुष्य की चेतना को प्रभावित करता है अतः ये दो दुनियाएं या धाराएं एक ही व्यक्ति में भी विच्छान हो सकती हैं। साहित्य इन धाराओं में से किसे प्रश्रय दे—यही साहित्य की मूलभूत जड़रत या प्राथमिकता है।

कथा साहित्य ने हमें पुष्ट विचासत दी है चूंकि इसकी गुरुआत ही यथार्थ के सत्य तक पहुंचने से हुई थी। जब भी कथा विवा ने इस ओर से आंखें चुराने का प्रयत्न किया तभी उसे कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। यह आलोचना आलोचकों द्वारा कम सही कथाकारों द्वारा लिखिक हुई जिसकी कद्र की जानी चाहिए। इसे ही अंतिम सत्य मानकर शब्द सुनन अपित करना या इस या उस धारा की पैरवी में ही अपनी क्षमताओं का होम कर देना बेमानी होगा चूंकि लाज के समाज में आए गुणात्मक परिवर्तन को तब के साहित्य की संपूर्णता में नहीं आंका जा सकता। अपने प्रारंभिक दौर में कथा—साहित्य को कविता की तरह सीधे तौर पर या आमने-सामने होकर न तो 'वादों' में ही भटकना पड़ा और न ही पानी में आंग लगाने की जड़रत महसून हुई चूंकि प्रेमचंद, यशपाल, रेणु, अमर कांत, भीष्म साहनी, मेरेव प्रसाद गुप्त, मार्कडेय, शेखर जोशी, मुकितबोध, जान रंजन, इसराइल, घर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी जैसे जनेक समर्थ यथार्थवादी / यथार्थपरक रोमांस-वादी कथाकारों ने एक निश्चित दैचारिक लायाभ की ओर निरंतर अग्रसर रखा तो भी जांतरिक/व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति के नाम पर निष्क्रिय रोमांसवादी साहित्य भी विपुल मात्रा में रखा गया जिसे इस या उस आंदोलन के नाम पर प्रतिष्ठित करने के लिनेक प्रयत्न हुए और हो रहे हैं।

साहित्य यदि अपने युग की 'सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के सही मूल्यांकन के नाम पर कलात्मकता, शाश्वतता या अनुभव की प्रामाणिकता की दुहाई देता हुआ विशुद्ध मनोरंजक रोमांसवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे तो यह निश्चित है कि वह यथास्थिति बनाए रखने में ही अपनी इयत्ता मानता है। यह ठीक वैसी स्थिति है जैसे सिगरेट की डिविया पर तो हो वैधानिक चेतावनी—धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है—और साथ ही विज्ञापन हो—ताजगी व सफूति के लिए सिगरेट पीजिए। जिस तरह सुधड़ किजान के लिए ये जान लेना। बहुत जरूरी होता है कि कौन से खेत की मिट्टी का रंग काला, लाल, पीला है और उसमें कौन सी फसल अधिक झाड़ दे सकेगी और कि कौन सी खाद कितनी मात्रा में डाली जानी अपेक्षित है, उस खेत की भौगोलिक स्थिति क्या है और कितनी बार हल चलाना चाहिए, उसी तरह किसी भी सामाजिक परिवर्तन की भूमिका, जिसका वाहक साहित्य भी है, तय करते समय सामाजिक स्थितियों एवं सामाजिक प्रक्रिया को उसके सही परिप्रेक्ष्य में आंका जाना चाहिए।

समग्रता में भारतीय समाज आज भी पुराने संस्कारों की जकड़ में है, उसकी चेतना में यद्यपि कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है भी तो वह स्वाभाविक कम समयगत दबावों के तहत अधिक है। कोई भी व्यवस्था समाज को अपने अनुरूप ही ढाले रखने की भरसक कोशिश करती है। जब भी शोषण व उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठने लगती है तो वह जैसे तैसे तत्कालीन समाज को साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाकर उस आवाज से विमुख रखती है। आज की सामाजिक स्थिति अत्यधिक शोचनीय हो चुकी है, दमन और शोषण पहले से कहीं अधिक है। असुरक्षा, आतंक निरंतर बढ़ाव पर है, न्याय प्रक्रिया इतनी जटिल है कि जब तक व्यक्ति को न्याय मिलता है उसकी सारी शम्खायां चुक गयी होती हैं। राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वर्तमान राजनीतिक उठा-पटक ने जन सावारण में आक्रोश भरा है, उसके

विश्वास को छला है। व्यक्ति की आर्थिक क्षमता लगातार क्षीण हुई है रोजमर्रा की वस्तुएं तक उपलब्ध नहीं हो रही दूसरी ओर दाटा, विड़ला, डालमिया की पूँजी पिछले दस वर्षों दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती हुई अरबों तक पहुंची है।

सन् 66-67 में असंतोष की तीव्र लहर चली थी। हड्डाले, जलूस, जलसों की गहमागहमी में कई राजनीतिक, सामाजिक स्थाएं प्रकाश में आयीं। समाज के संतोष का पैमाना भर चुका था किंतु एक निश्चित आयाम न होने और राजनीतिक समझ के अभाव में यह लहर विद्रोह का रूप न धार सकी और दूध का उफान बन कर रह गई। यही दबा असंतोष सन् 73-74 में और भी प्रचंड रूप में सामने आया जिसका सही उपयोग तब भी न हो सका और व्यवस्था वैत्तशदद व अतक फैलाया और पूरे समाज को काले दौर से छिपना पड़ा।

आज भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में से गुजर रहा है जहरत उसके संस्कारों पर निरंतर चोट करते रहने और चेनना विकसित करते की है। वेलछी, आगरा, वेलाडीला, पंत नगर, मराठवाड़ा, संभल, अलीगढ़ में हुई हाल की घटनाएं इस बात का मुँह बोलता प्रमाण हैं कि जन-साधारण अपने शोषण व अधिकारों के प्रति निरंतर सचेत हो रहा है।

किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए जन समूह की चेतना के उस विदु तक ले आना ही साहित्य का अभीष्ट है जहां से वह यह समझ सके कि उनकी अपनी क्षमताएं क्या हैं और उनका इस्तेमाल किस रूप में किसके लिए हो रहा है। क्या उनकी क्षमता समूह के काम आ रही है या मात्र कुछ व्यक्तियों के निजी स्वार्थ की पूति कर रही है... और कि उसे मालूम हो कि राजनीतिक शनरंज की बाजी आखिर कैसे खेली जाती है। यानी उसे स्वस्थ दृष्टि देना है।

साहित्य का सूजक साहित्यकार है और सामाजिक प्राणी भी। समाज की आधारशिला विचार है और विचार के बलबूते पर ही वह अपनी बात कर सकता है। बात साहित्यकार की दृष्टि पर आ टिकती है। साहित्यकार का काम व्यक्ति की क्षमताओं के प्रति निरंतर सचेत करते रहता है। यहाँ उसकी दृष्टि सकारात्मक होगी और यदि वह व्यक्ति की मात्र सीमाओं का राग अलापते-अलापते उसे भटकन की गुफाओं तक ले जाता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसकी दृष्टि नकारात्मक है। सकारात्मक दृष्टि ही स्वस्थ दृष्टि है।

साहित्यकार की दृष्टि उत्तल लैंस (Convex Lens) की तरह होनी चाहिए जहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं से आई सारी सूर्य किरणें एक बिंदु में परिवर्तित हो जाती हैं। सापेक्ष दृष्टि ही समाज के प्रत्येक क्रिया-कलाप का लेखा जोखा प्रस्तुत करती उपर्युक्त परिवर्तन/परिवर्द्धन की मांग करती है। दृष्टि स्थूल नहीं होती, समय के यथार्थ के साथ साथ बदलती है। समय के यथार्थ से अभिप्राय तात्कालिक स्थितियों को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखना है। शहर के किसी तंग भीड़ भरे स्थान पर दो स्कूटरों की आपस में टक्कर हो गई है। इस पर अनेक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं मसलन (i) गलती इस या उस स्कूटर वाले की है; (ii) सरकार को स्कूटर बनाने ही बंद कर देने चाहिए, न स्कूटर हों और न एकसीडैंट हों; (iii) ग्रादमी धर्म कर्म से नाता तोड़ेगा तो असमय ही दुख कष्ट पायेगा; (iv) मूल गलती स्थान का तंग होना और भीड़ का अनियंत्रित होना है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति की दृष्टि यथार्थपरक स्थितिवादी है, उसने जो नज़र आया उसी से निष्कर्ष निकाला; दूसरे व्यक्ति की दृष्टि अवैज्ञानिक व यथार्थ से आंखें मूँदने की है; तीसरा कुएं का मेंढक है जो हर घटना को रुद्धिवादी ढंग से बनाये चौखटे में से देख रहा है; चौथे व्यक्ति की दृष्टि यथार्थ के भूल यानी यथार्थ के सत्य तक पहुंचने की है, उसने जो नज़र आया उसी से निष्कर्ष

न निकाल, यथार्थ का वह विदु पकड़ा जो इस घटना को जन्म देने में अत्यधिक उत्तरदायी है। यही दृष्टि यथार्थपरक है।

समाज का यथार्थ विल्कुल वैसा नहीं जैसा हमें दिखाई देता है। उसका यथार्थ बाह्य रूप से भले ही मनुष्य के बाहरी ढाँचे सा दिखाई दे कि जैसे मनुष्य का एक मुँह, दो कान, दो हाथ, दो पैर हैं ठीक वैसे ही समाज में चार जातियां, आठ धर्म, सोलह बोलियां, बत्तीस कुनवे हैं किंतु मनुष्य की चमड़ी के नीचे जैसे हाथों की बनावट में अनेक छोटी मोटी हड्डियों, शिराओं, धमनियों का सांझापन है और ये धमनियां, शिराएं हड्डियां आगे किन्हीं और हड्डियों से जुड़ी हुई हैं। पेट के भीतर कितना कुछ है, रेडियो सर्कट में विछ्ठी तारों, बल्व. ट्यूबों जैसा। यहां श्राकर व्यक्ति का मुँह खुला का खुला रह जाता है। उसमें जहां पूरी सरचना न समझ पाने की हड्डबड़ाहट है वहां अपनी समझ पर कोफ्त भी। सामाजिक यथार्थ भी मनुष्य के भीतरी ढाँचे मा है। इसे समझने के लिए पूरे विवेक, धैर्य व निष्ठा की अवश्यकता है।

मनुष्य के शरीर को मस्तिष्क ही पूरी तरह संचालित करता है, उस तक सभी क्रिया कलाप पहुंचते हैं, वहीं से उनकी प्रतिक्रिया निर्धारित हो विभिन्न अवयवों के माध्यम से प्रदर्शित होती है चूंकि अर्थ उत्पादन/उत्पादक संवंधों की मूल भित्ति है, इस पर जिसका नियंत्रण होगा वह उसे अपने हित में इस्तेमाल करेगा।

अतीत के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम पायेंगे कि शताव्दियों से राजाओं, वजीरों ने पूरे प्रजा को अपने शिकंजे में जकड़े रखा चूंकि अर्थ उनके कब्जे में था। दासों की खरीदो-फरोस्त होती रही। यदि नियंत्रण किन्हीं चंद हाथों तक सीमित

रहता है तो वाकी पूरे समाज के शम की शोषण प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी। ये चंद हाथ आपको रोमांचक हत्याकांड, सैक्स, परीकथाओं, आध्यात्मिक, मनोरंजक कहानियों का साहित्य देते रहेंगे ताकि आपको कभी ये सोचने का अवसर ही न मिले कि कमरतोड़ मेहनत के बाद भी हम फटेहाल, खस्ता हालत में जीने को विवश वयों हैं? समाज मुदारक संस्थाओं, परोपकारी संस्थानों के माध्यम से मानवीयता के किस्मों का राग अलापत्ते हुए विना कुछ किए घरे, आपके जीवन की बागड़ोर पकड़े रहेंगे और कठपुतली की माफिक नचाते रहेंगे।

आज जबकि समाज के संस्कार सामंती है, सोच प्रगतिकामी है किन्तु वैचारिक घृन्यता है। प्रत्यक्ष रूप में निरंतर हो रहा उद्योगीकरण पूँजीवाद को पुष्ट कर रहा है। समाज का अविकांश भाग नकारा होता चला जा रहा है। इस नकारेपन की खीझ ठीक उन नारी की भाँति है जो झगड़े तो जास से रही हो और सारा रोप अपने बच्चे को पीट-पीट कर प्रदणित कर रही हो, अन्ततः अपने पर ही उत्तरती है। तब क्या ऐसे सामाजिक परिवर्तन की दरकार नहीं होती जिसमें आदमी अपनी ज़िदगी जी सके और इस नकारेपन से निजात पाए। ऐसा परिवर्तन तो तभी संभव है जब सारा अर्थ पूरे समाज के नियंत्रण में रहे।

साहित्य के लिए पूरे समाज के हित ही सर्वोपरि है। वह किसी द्वारा किसी के भी शोषण का पक्षपाती नहीं हो सकता। मही मामाजिक परिवर्तन की दरकार को बाणी देने के लिए ज़रूरत शोषित समाज को उसके शोषण के प्रति सचेत करते रहने की है। शोषण विभिन्न स्तरों पर होता है। इसके अपने विभिन्न हथियार हैं। पूरे समाज में यह कहीं एक स्तर पर तो कहीं दूसरे स्तर पर व्याप्त है। कहीं स्पष्ट दृष्टिगोचर है तो कहीं अस्पष्ट रूप में। यही अस्पष्टता विषय वस्तु को भी बुँधलाती है।

साहित्यकार को विषय वस्तु चुनने की चुली छूट है, किसी तरह

का कोई प्रतिबन्ध नहीं । ऐसे घर में जहाँ किसी नौजवान की मृत्यु हुई हो, वहाँ शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के बजाए यदि हम होली या दीवाली के गीत गुनगुनाने लगे तो वहाँ खड़े लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी ? क्या ऐसा करना समय के प्रतिकूल नहीं होगा हालांकि हमें ऐसा करने की पूरी स्वतंत्रता है । स्थिति की नजाकत को समझते हुए हमें स्वयं पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा । इसी तरह समयगत दबावों/ सच्चाईयों को देखते हुए हमें केवल उन विषयों पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करना होगा जिनके माध्यम से सामाजिक चेतना विकसित होने की पूरी संभावना एं हैं किंतु इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं कि रचना में घर-परिवार ही गायब होने लगे । जैसा कि इधर के लेखन में हो रहा है ।

घर-परिवार ही वह सामाजिक इकाई है जिसकी जड़ों में आज भी सामंती संस्कार गहरे पैठे हुए हैं । जिनके निराकरण से ही स्वस्थ सामाजिक संरचना संभव हो सकती है । आज जिन स्थितियों में हम गुजर-वसर कर रहे हैं उसमें घर निरंतर टूटने की प्रक्रिया से गुजर रहा है । जरूरत घर-परिवारों को तोड़ने की नहीं बल्कि वहाँ वैचारिक बदलाव की है जो वहाँ जुड़े रहकर ही संभव है ।

देरों कहानियां ऐसी पढ़ने को मिलती हैं जहाँ नायक/ नायिका घर-परिवार से विद्रोह कर, उन्हें सदा-सदा के लिए छोड़ देते हैं चूंकि घर उनके लिए फालतू की वस्तु है, उनकी आस्थाएं टूटती हैं । क्या ऐसे पात्र वाद में इन्हीं टूटी आस्थाओं का रोना रोते-रोते खुद नहीं टूट जाते । व्यक्ति के लिए घर-परिवार आवश्यक है वह हवा में नहीं रह सकता ।

सामाजिक तंत्र, व्यवस्था ने घर-परिवार की क्या दुर्दशा की है ?

धर-परिवार किस विषय से दो-चार हो रहा है ? सामयिक संदर्भों में धर-परिवार उसका शोषण करता है तो वह इसके प्रति ही अधिक सचेत क्यों है ? पूरे शोषण व उसकी प्रक्रिया के प्रति क्यों नहीं ? धर-परिवार ही ऐसी जगह है जहां हमारे सारे प्रगतिशील विचार, धारणाएं खंडित होने लगती हैं चूंकि सामंती संस्कारों की जड़ें इन्हीं धरों में निहित हैं। अपने आपको बदल लेने के बाद पूरी पारिवारिक इकाई का बदलना अपेक्षित है। धर-परिवार के प्रति किया गया इस तरह का विद्रोह अपनी शक्ति को विभाजित करना है। वर्तमान जरूरत वैचारिक विद्रोह की है मात्र वह कहना ही काफी नहीं कि रामायण, गीता, भागवत् या कुरान आदमी को भग्यवादी व अकर्मण बनाता है बल्कि अपना मत तर्क सहित व्याख्या देता हुआ पुष्ट करे।

देश का अस्सी प्रतिशत भाग गावों में वस रहा है। चेतना का मूल स्त्रोत वहां की जनता हो सकती है। गावों में व्याप्त किया-शीलता को समेत उनके तमाम दुखों/तकलीफों/घड़कनों के उजागर करना है। यह समाज अभी तक उपेश्चित पड़ा है चूंकि साहित्य वहां संप्रेषित नहीं हो रहा और वहां की सारी क्षमताएं अन्धीन्हीं रह जाती हैं।

विषय वस्तु का चुनाव करते समय हमें जीवन को यथार्थपरक अर्थों में लेना चाहिए। केवल उस तथ्य को विषय बनाए जहां का उसे पूरा अनुभव विवरित के साथ हो। जिदगी के किसी भी क्षेत्र में पूरी पैठ के बाद ही अनुभूत सत्य को उद्घाटित करे। यदि हमें जलसे, जलूसों, हड्डतालों के मंतब्यों, उनके पीछे की संघर्ष शक्तियों का ज्ञान नहीं तो इन्हें विषय बनाने की कर्तव्य आवश्यकता नहीं।

जरूरत सर्वहारा के प्रति अतिरिक्त मोह की नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ को उसके सही रूप में सभभने की है। रोज़मर्रा की

दिक्कतों, टूटते-विखरते संवंधों, विघटित होते पुराने मूल्यों और नए मूल्यों को लेकर अनेक विषय हो सकते हैं। जीवन को उसकी पूरी समग्रता में समझने, आंकने और अभिव्यक्त करने के लिए वस्तुगत सत्य, सामाजिक सत्य व व्यक्तिगत सत्य को धनीभूत करने की नितांत आवश्यकता होती है। किसी एक के अभाव में रचना में शिथिलता आ जाना स्वाभाविक है चूंकि जीवन इन सभी सत्यों से परिचालित होता है।

साहित्य की सार्थकता उसके मौलिक होने में है। चेतना ही व्यक्ति के भीतर की मौलिकता को प्रस्फुट करती है। जीवन के प्रति गहरी आस्था व उत्सुकता के फलस्वरूप ही साहित्यकार जीवन के विभिन्न पहलुओं को नूतन दृष्टि से प्रस्तुत करता है। चेतना के क्रमिक विकास के लिए हमें जनता के इतिहास, सामाजिक, राजनीतिक पद्धतियों, उनकी लोककित्तियों, कहावतों से समुचित ज्ञान अर्जित करना चाहिए। प्रतिभा का सहज विकास तभी संभव है। यहां एक सहज प्रश्न उठता है कि चेतना कैसी हो? किस वर्ग से जुड़े? समाज के किस हिस्से के प्रति अधिक क्रियाशील हो? साहित्य में विशेषतः क्या साहित्य में उसकी क्या भूमिका हो?

यथार्थ व्यक्ति, समाज, व्यवस्था के आपसी तालमेल व खिचाव का प्रतिफलन है। यह अद्वे विकमित चेतना का ही परिणाम है कि वर्तमान कथा लेखन में गरीबी की कहानियों में समस्याएं अमूर्त तथा गरीबी का इंद्रजाल अधिक है। हाय रे इन्सान की मजबूरियां, वाह रे भाग्य, क्या इन्सान जानवर से भी गया गुजरा हो गया है? जैसे शब्दों की भरमार रहती है वहीं दूसरी ओर ऐसे-ऐसे क्रांतिकारी चरित्र प्रस्तुत किए जाते हैं कि उन पर यहीं करना हीं असंभव लगता है। पूरी रचना में कहीं कोई चेतना, द्वंद, सोच, कल्पना दृष्टिगोचर नहीं होती। जीवन के प्रति कोई जुड़ाव नहीं, कोई चिता उसे प्रभावित नहीं करती। पूरे

रचाव में वह कहीं क्रियाशील नहीं लेकिन अंतिम हिस्से में बंदूक से छूटी गोली सा सीधा अपने निशाने पर जा चोट करता है। किसी रचना में थोड़ी बहुत चेतना है भी तो वह दूध में अग्नि मखन सी नहीं बल्कि चेहरे पर उगे चेचक के दागों सी है। कारण चेतना का वर्ग से न जुड़ना है, चेतना पूरे वर्ग से जुड़कर ही विस्तार पाती है।

भिखारी जो कि पूँजीवादी समाज का मोहरा है पर जल्लरत से ज्यादा लिखा गया और जा रहा है चूंकि इससे पूँजीपति को ऐसे साहित्य के माध्यम से दया, सहानुभूति दर्शने का पूरा अवसर मिलता है। वह निर्धनता का चित्रण भी ऐसी तड़क भड़क से प्रस्तुत करता है कि व्यवित को लगे निर्धन होना भी एक बड़ा सुख है। वह चोर के बारे में कभी बात नहीं करता।

चोर के बारे में सोचने की अधिक जल्लरत है चूंकि वह एक क्रियाशील पात्र है, उसमें उपजा असंतोष ही उसे व्यवस्था से विद्रोह के प्रति प्रेरित तो करता है किंतु सही चेतना के अभाव में वह सही जमीन से जुड़ नहीं पाता। आवश्यकता दया या सहानुभूति प्रकट करने की नहीं बल्कि स्थितियों के प्रति अधिक जागरूक करने की है। उसकी चेतन जड़ता को झकझोरने की है।

कोरी भावुक रचनाओं से किसी भी व्यवस्था को कोई चिंता नहीं होती लेकिन वर्ग चेतना से लैस साहित्यिक रचनाओं की तेज धार के आगे जब प्रतिक्रियावादी साहित्य स्वर्ण को बौना भहसूस करता है तभी वह ऐसे २ सवाल उछालकर कि आप जिस वर्ग के लिए, जिस समाज के लिए, जिन लोगों के लिए लिख रहे हैं वे तो उसे समझते ही नहीं तब आपके लिखने की सार्थकता ही कहां रह जाती है, साहित्यकार को उसके सही कर्म से विमुख करने की साजिश करता है चूंकि वह जानता है कि जब शोषित समाज वर्ग

चेतना से लैस होता है तो वर्ग संघर्ष अवश्यंभावी है जिसमें वह अन्ततः हारेगा ही। इस साजिश की ओर पूँजीवादी तंत्र के हाथों में होती है।

धूमिल की कविता को लेकर 'धर्म युग' में छपी परिचर्चा इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस घटना के माध्यम से कि एक बार धूमिल की कविता एक रिक्षाचालक को सुनायी गयी तो उसने सुनने के बाद कहा कि यह कविता उसकी समझ में नहीं आयी यह निष्कर्ष निकालना कि साहित्य जिसके लिए लिखा जा रहा है, उसे ही समझ नहीं आ रहा तो इसकी उपयोगिता? यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कविता समझ न आने का कारण चेतना का अभाव है और इस अभाव का कारण उसका अनपढ़ होना है। आज जबकि नुकड़, नाटकों, जन-गीतों के माध्यम से उसकी चेतन जड़ता पर लगातार प्रहार कर जब हम उसे अनपढ़ता के अभिज्ञाप से मुक्त करेंगे तो उन्हें चेतना के निरंतर विकास की आवश्यकता भी अनुभव होगी। तब वह अपने साहित्य को ढूँढ़-ढूँढ़कर पढ़ेगा। रचनाकार मात्र तत्कालिक मांगों / स्थितियों के अनुरूप ही सूजन नहीं करता बल्कि आने वाली समस्या से भी पूरी तरह सजग रहता है। कोई भी समाज जब अपनी चेतन जड़ता से निजात की राह पर आगे बढ़ता है तो योड़ी ही देर बाद उसे साहित्य का मर्म भी समझ आने लगता है।

किसी भव्य भवन के निर्माण के लिए लोहा, ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट वह कच्चा माल है जिसका पर्याप्त मात्रा में होना अपेक्षित है। उसके पश्चात् आवश्यकता रहती है ऐसे शिल्पी की जो इन सभी चीजों का सही उपयोग करता हुआ अपने शिल्प व श्रम से भव्य भवन निर्मित करे।

साहित्यकार एक साथ दृष्टा व सृष्टा है। सूजन के लिए जरूरी

वस्तुओं के सही चुनाव के बाद कल्पना शक्ति ही उसकी निर्माण क्षमता का पहला पड़ाव है। कल्पना शक्ति जितनी प्रबल होगी सृजन में उतनी ही रोचकता व मौलिकता होगी कल्पना शक्ति सृजन के अनुकूल हो और वह परम सत्य लगे। परम सत्य ते अभिप्राय है कि वह सहज विश्वसनीय हो। विहारी के उस दोहे सी न हो कि विरहणी के प्रान् जब गाजोपर से ढूलङ्गते हुए उसके उरोजों पर आ गिरे तो भास्प बनकर हवा में विलीन हो गए यानी उरोजों में इतनी उष्णता थी। यह सहज कल्पना नहीं वल्कि अतिरेक है। दिना कल्पना के लिखा नहीं जा सकता चूंकि जीवन काल खंडों में विभाजित है, पल पल की अपर्याप्यता है उदाहरण के लिए एक पात्र एक वाक्य आज कहता है जो उसके अस्तित्व व मनः स्थिति को पूरा व्यक्त करता है, दूसरा वह तीन, आठ या दस दिन बाद कहता है तीसरा साल, दस साल बाद या जीवन भर ही न कहे तो क्या उसके जीवन को अभिव्यक्त ही न दी जाए? यहां उस तीसरे वाक्य की कल्पना कर लेना ही परम सत्य होगा।

रचना विधान में यद्यपि चरित्र-चित्रण विषय वस्तु से ही निर्धारित होता है तथापि कभी-कभी चरित्र भी विषय वस्तु को व्यापकता प्रदान करते हैं। रचना में चरित्र का हर हाव-भाव, जीवन स्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, स्वयं पर भी कटाक्ष कर लेने की क्षमता, उसकी विशिष्टताएँ (यहां विशिष्टताओं से अभिप्राय चरित्रगत खूबियां हैं) इतनी जीवंत व सार्थक हों कि पाठक को लगे कि ऐसे व्यक्ति से तो वह कई बार पहले भी साक्षात्कार कर चुका है, उसमें इतनी विशिष्टताएँ। विभिन्नताएँ हैं यह तो आज ही रचना के माध्यम से जाना जिसका दूसरा अर्थ है कि वह जीवन क्षेत्र के वह चरित्र चुने जो अपनी पूर्ण अर्थवता में हमारी चेतना को झिझोड़ने व विस्तार देने की क्षमता रखते हों, हम स्वयं को उसके साथ साथ चलते हुए पाएँ। यहां यह घ्यातव्य है कि सभी चरित्रों पात्रों के प्रति समान दिलचस्पी

नहीं हो सकती उसकी सहानुभूति, दिलचस्पी अपने केंद्रीय पात्र के प्रति होती है यदि हमारी सहानुभूति, दिलचस्पी भी उस पात्र के प्रति होती है तभी स्वनाकार की चरित्र-चित्रण क्षमता अभूतपूर्व मानी जाएगी। केन्द्र बिंदु जिसे लेकर उसने सारा ताना-वाना बुना है, इतना स्पष्ट हो कि सहज ही उस तक पहुंचा जा सके। यह पक्ष वर्तमान साहित्य में काफी उपेक्षित रहा है, जिसके फलस्वरूप कलात्मक पक्ष इतना शिथिल पड़ने लगा है कि अधिकांश रचनाएं तो विचारों का सरलीकृत रूप लएती हैं। घटनात्मकता पर अधिक बल दिया गया और घटनाएं भी रचनाओं में यूँ आती हैं कि वे सूजित कम बुनी हुई ज्यादा लगती हैं।

साहित्यिक कृति के कलात्मक रूप का महत्वदूर्ण तत्व रचना विन्यास है और इससे भी अधिक निर्णायिक है लेखक की भाषा। भाषा लेखक की निजी संपत्ति है जिसका क्रमिक विकास व विस्तार ही रचनात्मक मोर्चे पर की सफलता का मानदंड है। जिस लेखक के पास अपनी भाषा नहीं उसका लेखन दीर्घजीवी व स्वस्थ नहीं हो सकता। एक एक शब्द को दिमाग में विठाने के लिए उसे पूरे अनुभव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। शब्दों में इतनी शक्ति हो कि वे तभी मुटिठ्यां खोलने और खुली मुटिठ्यों को बंद कर सकने की क्षमता रखते हों। एक बात सौ तरीकों से तो हम कह लेते हैं किंतु उसी बात को कम से कम शब्दों व अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से कहने की दक्षता यदि रचनाकार में नहीं तो उसकी रचना में विचराव आयेगा और कभी-कभी ये विचराव रेशम में लगे पैंदंद सा पूरी रचना को विगाड़ देता है। भाषा के अर्जन के लिए उसे परंपरा से सीखते रहना है। उन लोगों से भी जिनको नेकर वह रचना करना चाहता है

श्रम संसार की क्रांति की आवस्यकता की चेतना के द्वार पर खड़े वे पात्र जिन्हें अभो कथा साहित्य में कोई स्थान नहीं मिला है

साहित्यकार को बचावर स्क्रिप्टोड रहे हैं। उन्हें हाँड-मौस ने प्रस्तुत करने के लिए नहीं भाषा की आवश्यकता है / रेट-टाइपे शब्दों में आज की समस्ता को नहीं समेटा जा सकता / विराचत ने निले छुछ स्वरूप नुहावरों । लोकक्रितभों । कहावतों में आज के जीवन को संचालित करने की पूरी क्षमता है, नक्तलन नाच जे जाने आगे आगे देखा, हाथ कांसन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आदि इनका उपयोग विविधता को दृष्टि से किया जा सकता है। साहित्य अपने पात्रों के अनुकूल भाषा क्रिक्षित करता है। भाषा चागर ने चागर भरने की क्षमता से ओत प्रोत्त होती है। उदाहरण के लिए बोरीन्स स्क्रिप्टोव की एक कहानी को लिया जा सकता है। जारखाही चुन में एक स्टीमर की रचनाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने एक पादरी के बारे में लिखा—वह जाड़े तोन हजार हजार पावर के तीन जिलडर बाले इंजन पर बनिव जल छिड़कने कप्तान के साथ नीचे गया। यहाँ लेखक की भाषा क्षमता अनुच्छेद रूप में विद्यमान है। उन्हें दो शब्दाविलयों (इंजीनियरिंग व धार्मिक) को एक जाध घुला निला कर इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि धार्मिक जगद्वावली स्वयंनेद इंजीनियरिंग शब्दावली अनुकूल घूटने देकरो नजर आती है। इसी बात को यदि वह धार्मिक भतातरो व दैनानिक उपलब्धियों का जिक्र करता हुआ प्रस्तुत करता तो रचना अनावश्यक रूप से विस्तार पा जाती जो पाठक को अधिक उलझाती और लेखक उपदेशक की नुद्रा में तानते आता।

भाषा के बाद गैली-शित्प रचना को विविध, प्रासंगिक, बनाने में सहायक होता है। यह पूरी इनारत का वह बाहरी हिन्दा है, जो अपनी आकर्षण अनुरोद्धारा इनारत को भीतर तक देखने की अद्व्यु इच्छा से भर सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिस तरह धीमी व उलझी चाल व्यक्ति के भीतर हो

रहे आत्मसंघर्ष को रेखांकित करती है वैसे ही शैली-शिल्प भी रचना की वह नव्य है जिससे हम रचना के भीतर छुपे मर्म को सहज रूप में समझ लेते हैं। ओढ़ी हुई और स्वाभाविक चाल के अंतर को जिस तेजी से हम भाँपते हैं ठीक वैसे रचना के अनुरूप शैली-शिल्प और शैली-शिल्प के अनुरूप रचना में देखा जा सकता है। रचना के अनुरूप शैली-शिल्प ही पूरी कृति को बोधगम्य बनाता है। शैली-शिल्प के अनुरूप रचना तो 'आन डिमांड वैक ड्राफ्ट' है, जो एक सीमा तक ही 'ओवर ड्राफ्ट' हो सकता है अंततः उसे 'डिस आनर' ही होना पड़ता है। शैली-शिल्प ही रचना को अन्य रचनाओं से अलगाता है। जिस साहित्यकार के पास अपना शैली-शिल्प नहीं है उसका साहित्य भरपूर जिदगी नहीं जीता बल्कि मृत्यु शय्या पर पड़े रोगी सा आक्सीजन लेनेकर जीता है जिसके मरने की आशंका हर क्षण बनी रहती है। तीन व्यक्ति एक टेविल पर बैठे काफी पी रहे हैं, एक उदास, दूसरा खुश तथा तीसरा गंभीर है, वहां तीन मानसिकताएं हैं, तीन विचारधाराएं हैं, तीन अभिव्यक्तियां हैं। इनको रचनाकार उनके अनुरूप ही रचना में एक साथ कम से कम शब्दों व अधिक व्यापक व आर्कषक रूप से अपने शैली शिल्प, भाषा के बूते पर ही करेगा। वह दो वाक्यों में भी इन्हें पूरी तरह अभिव्यक्त कर सकता है और तीन पृष्ठों में भी। दो वाक्यों में पूरी अभिव्यक्ति ही लेखक की शैली शिल्प की पराकाष्ठा को व्यंजित करती है और तीन पृष्ठों में अभिव्यक्त बात बार बार इन्हीं मानसिकताओं को दोहराती रहेगी और पाठक उन अनुभव करेगा।

अनुभव की प्रामाणिकता की आड़ में गलत को सही सिद्ध करने की जो होड़ सी लगी है उसे जान लेना भी लाजिमी है। अनुभव क्रिया की व्यावहारिकता में प्रतिक्रिया का प्रतिफलन हैं और जीवन विभिन्न क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का कार्यस्थल है। अतः हम जितना क्रियाओं वर बल देंगे उत्तनी ही अधिक प्रतिक्रियाएं

होगी । उनके आपसी मेल या खिंचाव से निकला परिणाम ही अनुभव होगा । यहाँ क्रियाओं पर वल देने को अर्थ है कि वह जीवन के विविध क्षेत्रों की भीतरी धड़कनों को कंरीब से देखे । वह जितनी सुझमता से उन्हें महसूस करेगा । संवेदना उतनी ही तुर्श व परिष्कृत होगी । जीने मरने को लोग वेवसी से स्वीकार करते हैं, रचनाकार उसकी इस वेवसी की तह तक जाने की कोशिश करतां हुआ इन अनुभवों को आत्मसात करता है । इन आत्मसात क्रिये अनुभवों को वह प्रामाणिकता की सान पर खूब रगड़ता है जिससे अनुभव समूहगत या समाजगत होने की प्रक्रिया से गुजरने लगते हैं ।

अनुभव प्रामाणिक कैसे हो ? जिस तरह लैक्टोमीटर हूध को चुद्धता की प्रामाणिकता का मानदंड है । ठीक वैसे ही अनुभव की प्रामाणिकता उसके व्यापक होने तथा समूहगत या समाजगत होने पर निर्भर है । अनुभव कैसे होता है ? पहले जब भी लोग देखते तो पते कि जमीन असमान एक जगह मिले हुए हैं । बच्चे जिज्ञासावश जब पूछते होंगे कि जमीन असमान कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं ? तो उनका एक ही उत्तर होता या कि हम तो जब से पैदा हुए हैं यहो देखते आए हैं, यही उनका अनुभव है । किसी व्यक्ति की जिज्ञासा जब शांत नहीं हुई होगी तो उसने सदियों के अनुभव को प्रामाणिकता की कसौटी पर कसने के लिए कई प्रयोग किए होंगे । वह मीलों मील चलता रहा होगा और जमीन आसमान की दूरी कहीं कम नहीं हुई तो पहली बार उसने कहा होगा—नहीं, आपका अनुभव सही नहीं । इस सही नहीं ने ही बाद में प्रमाणित किया कि क्षितिज हमारी दृष्टि सीमा है । यहीं आकर अनुभव व्यापक हुआ, यही व्यापकता उसकी प्रामाणिकता है ।

हमारे अनुभव यदि समाज या समूह से परिचालित नहीं या उस

वर्ग से नहीं जुड़ते जिन्हें हम इन अनुभवों के माध्यम से जीवन समझ के प्रति प्रेरित कर रहे हैं तो वे अनुभव प्रामाणिक नहीं बल्कि नितांत निजी होंगे। अनुभव जितने सीमित होंगे जीवन विकास उतना ही एकांगी होगा। यौन संवंधों को लेकर लेखकों के पास न जाने कितने प्रामाणिक अनुभव होते हैं जिसकी अभिव्यक्ति करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। यहीं प्रवृत्त अनुभव की व्यापकता का है। क्या हम चौबीस घंटे ही यौन तृप्ति में रहते हैं? क्या हमारा जीवन इससे आगे है ही नहीं? क्या हम रोजी-रोटी के बारे में निश्चित बैठे रहते हैं, काम रहीं करते? क्या हम बस में सफर नहीं करते? क्या कदम कदम पर हमें अपने अस्तित्व के लिए सघर्ष नहीं करना पड़ता? इन क्षेत्रों के अनुभव प्रामाणिक नहीं होते? होते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति क्यों नहीं? अनुभवों की व्यापकता में जाने का जोखिम तो हमें हर हाल में उठाना है ही ताकि पूरा समाज सही मायने में अभिव्यक्त हो सके।

सही रचनाधर्मिता से ओत प्रोत हाल ही में प्रकाशित कुछ कहानियों का जिक्र करना इस दृष्टि से समीचीन होगा कि साहित्य के सही मान दंड रचनाओं में वस्त्रवी मिल रहे हैं। हलवाहा (शेखर जोशी) हल लिए मजूर (अमर कांत) माटो मिली (रमेश उपाध्याय) मछलियां (असगर वजाहत) घोड़ी (वीर राजा) मौत की छलांग (रमेश वत्तरा) उठो, लच्छमी नारायण (सुरेंद्र मनन), और फर्क (कथा संग्रह-इसरायल), आदमी नामा (कथा-संग्रह-काशीनाथ सिंह) साथ के लोग (कथा संग्रहशेखर जोशी) की कुछ कहानियां।

□ नरेंद्र निर्मोही

## कहानी और प्राथमिकताएं

आज जवकि कविता की संप्रेपणीयता और प्रभाव की व्यापकता दिन बदिन क्षीण और फीकी पड़ती जा रही है, कहानी की संप्रेपणीयता और प्रभाव की व्यापकता अपनी अगली हड्डों को पार करती हुई लगातार एक जोरदार विधा होने के सार्थक दावे का गौरव संभालती चली जा रही है। यहां तक कि आज कहानी के संपूर्ण साहित्य की केंद्रीय विधा होने पर कोई संदेह की छाया नहीं है, इसलिए आज कहानी की प्राथमिकताओं पर विचार करना जरूरी है।

प्राथमिकताओं को तय करने की मांग आज सौंदर्य-दर्शन से जुड़ी हुई है जिसके तहत समकालीन लेखन में जिदगी के अभिप्राय, मूल्य एवं अर्थ की मौजूदगी के बारे में नये सिरे से सोचा जाने लगा है ताकि 'अनुभूति की प्रामाणिकता' 'भोगा हुआ यथार्थ' 'क्षण क्षण की अर्थवत्ता' तथा 'सौंदर्य की असीमता तथा अलौकिकता' की मोहक लगने वाली खोखल प्रतिघनियों से से परे जाकर वस्तुगत तथ्यों से जुड़कर अपवादजनक धारणाओं का वेवाक चीर-फाढ़ किया जा सके और जांच पड़ताल के उस विचारविदु तक पहुंचा जा सके जहां यह जायजा लेना अनिवार्य हो जाये कि कहानीकार खुद व खुद महज खास क्रिस्म के जुमलों की तराश अथवा भाषा रचाव की संगतराजी में तो मुश्किला नहीं है। कहाँ ऐसा तो नहीं है कि अपनी व्यापक पृष्ठभूमि से कटकर उसने रोजमर्रा की घटनाओं को अपनी तलस्पर्शी छष्टि से देखने की वजाय कोई शुरु मुर्गिया दृष्टिकोण तो नहीं अपना लिया है।

यह बात अपने आप में बिल्कुल साफ है कि प्राथमिकताओं का सवाल उन लोगों के लिए है जो कहानी के प्रति पूरा ईमानदाराना रवैया रखते हुये कहानी

की भूमिका को सामाजिक परिवर्तन की भूमिका का एक हिस्सा मान कर चलते हैं और पूँजीवादी शोपण के विस्तृत और रंगीनजाल को काट कर फेंकना चाहते हैं। न्याय की भावना से प्रेरित होकर श्रमजीवी वर्ग के लिए उनकी खुशियां हासिल करने के पक्षधर हैं। वेइंसाफी और भष्ट तंत्र की आकटापत्र सी जकड़न में ग्रस्त लोगों में सिर उठा कर चलने की उमंग उद्दीप्त करना चाहते हैं। प्राथमिकताओं का सवाल उस वर्ग के लिए न तो कोई कीमत ही रखता है न ही तरजीह दिये जाने वाली सोच का कोई सार्वक हिस्सा बन सकता है, जिनकी समूची दयानतदारी लेखन के खास स्टाईल और रंगीन तथा खूबसूरत लगने वाले पन्नों के लिए आवारा कुत्ते की मौत मर गई है, जिसे सुविधावादी जीवन पर दूर दराज तक व्याप्त साजिश अत्यधिक प्रचार एवं प्रसार देती है और जनवादी रक्षान को अपने तरीके से भ्रमित करने के लिए अपनी तरफ से मार्कर्सवादी व्याख्या करके प्रस्तुत करती है। ऐसे लोगों के लिए प्राथमिकताओं का सवाल कोई ग्रहम सवाल नहीं रह जाता क्योंकि बबौल उनके लेखन की असली पहचान तटस्थता है और अगर किसी कलाकार को इस दिशा में भीलपत्थर गाड़ने हैं तो उन्हें चाहिए कि तटस्थ रह कर सरस्वती के चरणों पर अपनी कल्पना की तूलिका से रंगे हुये पुष्प चढ़ाते रहें, तभी वे ऐसे साहित्य की रचना में सफल हो पायेंगे जिसका नाम शेष दुनिया तक नक्षत्रों की तरह दृज्जवल रहेगा। अपने लेखन को टिकाऊ बनाने के लिए वे अपनी रचनाओं में भाग्यवादी एवं नियतिवादी दृष्टिकोण का प्रचार एवं प्रसार करते हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं कि तटस्थ रहने वाले लोग बगुलों की तरह तट पर खड़े रहते हैं। हूबने का जोखिम उठाये बगैर इस कामना में आँख मूँदे रहते हैं कि दिन सदा एक से नहीं रहते। कोई नहीं जानता कब किसी की किस्मत का सितारा चमक जाये। लहरों का क्या भरोसा। कोई दिन तो ऐसा होगा ही जब अचानक कोई अनमोल मोती उनके पंजों में होगा। उन्हें तट पर खड़े रहकर यह आस बराबर लगी रहती है—

रहिमन चुप हँ है बैठिये देख दिनन के फेर  
जब नीके दिन आविहें बनत लगि न देर

यही जनवादी कहानीकार के लिए प्राथमिकता अपने ग्राम तय हो जाती है, एक तो उसे अभिव्यक्ति के सभी खतरों को उठाना है तथा उसके लिए कहानी

तथा उसके साथ चरित्रों की पड़ताल एक शोध का विषय है। चीजों को जिदगी की व्यापकता और याथर्थवादी परिप्रेक्ष्य में देखना है और लगातार कोशिश करनी है कि अनुभव की व्यापक गहराई में उतरा जाये और मामूली आदमी को उसी के ढाँचे के रूबरू खड़ा करके उसे लगातार संघर्ष द्वारा जिदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया जाये। इस के लिए कहानी के प्रचलित फार्म में ही काम करने भर का मोह एकदम त्याग देना होगा और निजी मन के तहखाने में पाले गये तयशुदा निष्कर्षों को त्याग कर चरित्र को जिदगी की तल्ख सच्चाईयों के साथ विना किसी पूर्वाग्रह के साक्षात्कर करवाये और कहानी जीवनानुभवों का गहराई से बेबाक और सीधा रिश्ता कायम करे। दूसरे यह तय करना है कि कहीं जाने या अंजाने में उसके लेखन के रवैये की छाती में मांगपूति के व्यावसायिक तथा आकर्षक वर्मे ने छेद तो नहीं कर दिया है। व्यावसायिक पत्रिका में छप जाना और बात है तथा उनके पन्नों के लिए लिखना और महज इसरार पर लिखना साहित्य के सही सलामत चेहरे परं चेचेके के दाग उगाना है।

वे लोग जो कहानी लेखन को एक मंहगी हावी मानते हैं, उनके लिए प्राथमिकताओं का सवाल महज इजारेदार घरानों की बड़ी पत्रिकाओं में, जैसे भी हो मांग के अनुरूप लिख कर छपना होता है क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसी पत्रिकाओं की मार्फत मामूली कहानीकार भी श्रीवरनार्ट चर्चित कहानीकार हो जाता है। एक बक्त में चर्चित होना उनके लिए इतना जरूरी हो जाता है कि उसके लिए कभी वे विस्तर के उत्तेजक प्रसगों को धटिया लेखन की मनोवृत्ति की तरह चटखारे लेकर पेश करते हैं और कभी व्यक्ति वैचित्र्यवाद के मोह में पड़कर ऐसे विचित्र पात्रों को गढ़ते हैं जो वास्तविक संसार में नजर नहीं आते। कभी उनसे सामना होने पर आप ऐसे पात्रों के बारे में सवाल करें तो वे मसीहाई अंदाज में कहेंगे कि आपका अनुभव अभी सीमित है या यह कि वे विषय चुनाव की आजादी के हकदार हैं।

विषय चुनाव की आजादी के वे बाकई हकदार हैं लेकिन देखना यह है कि विषय चुनाव की स्वतंत्रता के बाद वे अपनी कहानी के माध्यम से क्या दे पाये हैं। समयगत सच्चाईयों में हमारी अहम समस्यायें क्या हैं, उनके क्या

हल हैं, उनके कितने रूप है, कितने रंग हैं उनके खिलाफ कौन सा अस्त्र या शस्त्र कव और किन स्थितियों में ज्यादा कारगर होगा।

अगर वास्तव में उनके अनुभव विस्तृत होते तो काम प्रसंगों में सिर्फ संभोग व्यौरों की इतनी आमदरपत न होती कि कामशास्त्र की फुटपाथ पर विकने वाली नकली और वाहियात कितावों के सामने बौनी होती। कहीं डाक्टर नर्स को मर्चरी में ले जा जाकर लाशों के बीच उससे संभोग करता है (लाशें : कामता नाथ) तो कहीं कोई पात्र इस काम के लिए पांच मिनट भी नहीं सिर्फ तीन मिनट की गुजारिश करता है (तीन मिनटः रघुवीर सहाय) कहीं कहीं आगे की मंजिलें सर करने के लिए लेस्वयनिज्म है (मछली मरी हुईः राजकमल चौधरी) तो कहीं भैंस के साथ डाक्टर का संभोग है (सफेद मेमने: मणिमधुकर) इस तरह के चित्र बीक एंड (निर्मल वर्मा) भरत मुनि के वाद (मणिमधुकर) कहानियों में भी मिलते हैं। शायद ज्यादा बोल्ड होने का श्रेय हासिल करने के लिए ही नारी लेखिकाओं ने समय समय पर नये शिखर तलाश किये हैं (कितनी कैदें : मृदुलागर्ग, यारों के यार : कृष्णा सोबती)।

दरअसल यह सब विजातीय मनःस्थितियों और मनोदशाओं का फेर है। यह कैसे स्वीकार कर लिया जाये कि आदमी के लिए सिर्फ सैक्स ही इतनी बड़ी कीमत बन कर रह गया है कि उसकी नीली धुंध के गिलाफ के परे कुछ भी नहीं। अनुभव का विस्तृत होना क्या उन आयामों के साथ कोई तालमेल ही नहीं रखता है जहां एक पतला पतंग सा आदमी जिसने कल रोटी खाई थी लेकिन आज का कोई ठिकाना नहीं मगर हाथ में झंडा लिये हुए है और चिल्ला रहा है 'इन्कलाब जीनावान' 'इन्निरा गानी भाड़ में जाओ' दफ्तरों में सैकड़ों वालू नौकरी के जोखिम को ताक पर रख कर, सैकड़ों अस्तित्व संवंधी मुंह बाये सुरसा जैसे सवालों के बाबजूद धमकियों के प्रति विल्कुल बेपरवाह होकर हड़ताल करते हैं, लाठियां खाते हैं, जेल जाते हैं।

ईमानदारी और सच्चाई कहानीकार की सब से बड़ी प्राथमिकता है। सुविधाओं की तहजीब के बाहर रह कर इसके विषाक्त असर से रचनाधर्मिता को बचा कर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका सामना रचनाकार को आज के लगातार क्रूर होते माहौल और तेजी से बदलते हुये मूल्यों में कदम कदम पर करना पड़ता है। दरअसल सुविधाओं का सम्मोहन मध्य वर्गीय लेखक

के लिए इतना बड़ा खतरा है कि उसकी प्रगतिशीलता को अनायास ही कुंद कर सकता है। वास्तविकता यह है कि सही लेखन का रास्ता इतने वियावान जंगलों से होकर जाता है कि भटकने के संकड़ों अवसर मौजूद हैं। इस रास्ते में मंडी की व्यापारिक मुस्काने हैं, फेनेवल संसार के चकाचौंब भरे बाजारों की गहमा गहमी है और है सम्मान प्राप्त करने के लिए पेचदार सीढ़ियों की दिलकशी का आलम। रास्ते का चुनाव और तय करने के लिए हर अंजाम का संघर्षपूर्ण रवैया कहानीकार का अपना विषय है, यहीं उसके लेखन की ईमानदारी निश्चित होती है। कौन कितनी वेवाकी से इस प्राधमिकता को निभा रहा है यह आत्मसंलेपण तथा आत्मनंश्लेपण के बाद गलत वृनियादों के गुरुत्वाकर्पण के बीच लगातार हस्तक्षेप करते रहने से तय होने लगता है। इस तरह कहानी ही नहीं समूचे लेखन की सबसे बड़ी और पहली प्राधमिकता ईमानदारी है जिसके अभाव में लेखक लेखक की जमीन से खालिज होकर भाँड, मदारियों, तमाशाईयों की तमाम विशेषताओं से गौरवान्वित हो उठता है। ईमानदारी से च्युत लेखन नपुसंकृता की चाईयों में जा गिरता है जहां किसी भी प्रकार का कोई 'सांडे का तेल' काम नहीं करता।

शायद कथाशिल्पियों को आज यह चिंता बहुत बुरी तरह से परेशान कर रही हो कि विधागत रूप में कहानी की बकलोसूरत कितनी बन अधवा कितनी विगड़ रही है। आम तौर पर यह देखने में आया है कि जब भी किसी विधा पर परिस्थितिगत परिवर्तन का दबाव बहुत आक्रामक होकर पड़ता है तब उसकी परंपरागत फार्म उसे पूरी तरह से बदाशित कर पाने में असमर्थ और असहाय दीखने लगता है। रचनाकार 'फार्म' को अधिक तीखे अनुभव वहन कर सकने लायक बनाने के लिए भी जहोजहद करता है। यह जहोजहद रचना प्रक्रिया के साथ छुली मिली होती है और जितनी संतुलित हो उतनी अधिक असरदार रहती है। असंतुलन की स्थिति में भुकाव का यक्तरफा हो जाना स्वाभाविक है। शिल्प के प्रति अधिक भुकाव रचना को अनुभव के पैमाने पर खरोंच जरूर देगा। दूसरी तरफ अवसर यह भी देखने में आया है कि अगर यह भुकाव जिंदगी की आग में तपे हुये अनुभव के प्रति ज्यादा रहा हो और पूरी ईमानदारी से रहा हो तो शिल्प अपने आप ही अपनी रेखायें भास्वर कर जाता है। विधा के विघटन का खतरा अनुभव संसार की व्यापकता और गरिमा के आगे कुछ भी नहीं है। यहां यह मान लेना भूल होगी कि रचना के घरातल

पर अनुशासनहीनता को तरजीह दी जा रही है। दरअसल रचना को जीवन के अनुरूप बनाने की कोशिश में किसी संदेह की गुंजायश नहीं रहनी चाहिए। जीवन प्रक्रिया का निरंतर वढ़ता हुआ तनाव, वेराव और विस्तराव की चुनौती के सामने शिल्पगत आग्रह के तकाजे अपने आप ढीले पड़ते चले जाते हैं और यह तकाज़ा ज्यादा जोर मारता है। कहानीकार अपने परिवेश की चुनौती को पूरी शिद्धत से स्वीकार करे और दिखा दे कि जीवन बाहर जितना सत्य और प्रामाणिक है उतना ही उसकी कहानी में भी ज़बूद है उससे जरा भी कम नहीं। कम है तो अभी उसे खरा बनाने की कोशिश बरकरार है वहृत ज्यादा है तो जाहिर है कहानीकार उड़ने लगा है।

आज कहानी आंदोलनों पर नज़र ढाली जाये तो वहृत अधिक उत्तमाहास्पद पहलू नज़र नहीं आते। एक जमाने में प्रेमचंद ने कहानी को जवरदस्त भूमिका दी थी, उसे मनोरंजन से विल्कुल बरतरफ कर दिया था और प्राथमिकताओं का जो बीज उन्होंने 'कफन', 'शतरंज के खिलाड़ी' के जरिए रोपा था, वह पाँवा वहृत देर तक नहीं खिला। कहीं छिटपुट कोई शाख फूटी भी (दोपहर का भोजनः अमरकांत, चीफ की दावतः भीष्म साहनी) तो पता ही नहीं चला। ज्यादातर उखाड़ पछाड़, उठा पटक, आंदोलनों, नेताओं और गुटों पर ही केंद्रित रहा है।

नई कहानी में सबसे ज्यादा जोर नयेपन पर दिया गया जिसमें एकांत, अजनवीपन, ऊव, अकेलेपन, मृत्युवोध, मोहभंग, संवादहीनता के रेखों को सहलाया, पिरोया और उलझाया सुलझाया है। इसमें संदेह नहीं कि नई कहानी के कहानीकारों ने उस समय की कहानी को 'नख से शिख तक दुर्लक्ष', 'मंजी हुई सुनियोजित' फार्मलावद्वता से छुटकारा दिलाया है और कहानी संसार की सीमाओं को, पाठकों को करणार्द करने तथा मायावी और रोमेटिक आयामों से अलग करने की भरसक कोशिश की है (कोई एक कहानीकार अपवाद भी हो सकता है) इस के साथ ही समीक्षा पद्धति के परंपरागत अराजक मानदंडों को तोड़ने की लगातार कोशिश की है। परन्तु इस महादेश के लिए लगातार पिसते हुये वर्ग में जीवन रस उड़ेलने तथा संघर्ष के माध्यम से अपनी हैसियत को बनाने की प्रेरणा पर नहीं के वरावर लिखा गया है। इस तरह से उन दो चार पत्तों पर भी लगातार कोहरा गिरता रहा है (दूसरी सुवह सूरज पच्छिम से निकला था : कमलेश्वर, अतीत में कुछ : गंगा प्रसाद विमल और इसी तरह की ढेरों कहानियां) बीच में एक दो और पत्ते फूट भी गये तो क्या

अकहानी आंदोलन से सीधा अभिप्राय है कि कहानी संभावना अब शेष नहीं रही। पारिवारिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विघटन पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा। यौन संदर्भों का लिजलिजा प्रयोग इन कहानियों में इस कद्र हुआ है कि लगा इसके अतिरिक्त अब जिदगी में कुछ भी शेष नहीं है। कहानी आंदोलन के बैनर के साथ आई कहानियों का स्वरूप विविध-आयामी हो ही नहीं सका। देखा जाये तो अकहानी आंदोलन मूल्यहीनता के तेज असर में समय के मध्यवर्गीय समाज की फ़िलमिलाती सच्चाईयों का शिल्पगत रूप है जिसमें उस समय का विसंगतिवोध, भयावहता और कामुक संवंधों की भरमार है, जहां जिदगी की प्रतिकूलताओं के विरुद्ध जदोजहद की भूमिका या तो विल्कुल नदारद है या इतनी महीन है कि उसका कोई स्पष्ट रूप दिखाई नहीं देता। यानी फिर कोहरा —(लाशें: कामता नाथ, मौजेः सुरेन्द्र वर्मा)।

आंदोलनों की कड़ी में सचेतन कहानी एक योजनावद्ध आंदोलन है। आंदोलनों में कई बार अजीवोगरीव मनोस्थितियाँ काम करती हैं। अगर इस मुद्दे पर ध्यान रखा जाये तो साफ जाहिर होता कि जो लोग नई कहानी में वांछित अथवा उनके अनुसार मुनासिब जगह नहीं पा सके थे उन लोगों का प्रतिकार सचेतन में हुआ है। यों इस आंदोलन के पक्षधर तो यही सोचते रहे हैं कि सचेतन साहित्य विद्रोह का, कुछ कर गुजरने का, अपने अस्तित्व की सार्थकता प्रदर्शित करने का साहित्य है। परंतु एक तो चिंतन की दिशा अस्पष्ट थी दूसरे आंदोलन को स्थापित करने की कोशिश इतनी ज्यादा थी कि साधन बहुत कुछ हो गया और साध्य कुछ भी नहीं। गर्ज यह कि कोहरा जहां अलग किया जाना चाहिए था वहां कोहरा ही था और अलग किये जाने के नाम पर कुछ भी नहीं।

पिछले दस वर्षों में रोजमर्रा जरूरत की सभी चीजों की कीमतें राकेट की तरह छूटती रही हैं और जनसाधारण के बूते से बाहर होती चली गई हैं। उसकी चादर लगातार इतनी छोटी होती चली गई कि उस के पांच तो क्या बजूद का बहुत बड़ा हिस्सा नंगा रह जाता है। चादर को कभी अपने मुँह सिर पर लपेटा रहा है तो टांगे सर्द रातों में ठिठुरती रही हैं। टांगे ढांपता रहा है तो

वाकी का वजूद सर्दियों की वर्ष्णिया हवायें सहने को मजबूर होता रहा है। इसी जोड़ तोड़ में चादर कई जगहों से फट गई है और मुरम्मत की हद से परे चली गई है। चादर में थिगलियां लगाने की कोशिश बराबर होती गई लेकिन उसकी उपयोगिता बढ़ने की वजाय लगातार सीमित होती चली गई है।

आस पास की हवा में आजादी के गीतों के टुकड़े उसके कानों से जब भी टकराये हैं तो उसने धूप में जलती हुई वारिश में भीगती हुई तथा सर्द हवाओं में फड़फड़ाती हुई चादर को देखा है।

अब मौसम की मार से गीली चादर को फिर से अपने ऊपर ले सकने के लिए और सुरक्षित होने के लिए सुखाना चाहा है तो वह रुष्ट मौसम के दूसरे हथियार हवा की मेहरबानी से उड़ गई है। वह उसके पीछे भागा है तो फिरल कर खाई में जा पड़ा है। बनावटी मुस्कराहटों और मुखौटों द्वारा फैंकी हुई योजनावद्ध राजनीतिक रस्सी के सहरे बाहर निकलना चाहा है तो पाया है कि वह रस्सी नहीं थी सांप था, फुंकारता हुआ।

‘गरीबी हटाओ’ ‘संपूर्ण क्रान्ति’ ‘नसवन्दी’ ‘नशावन्दी’ जैसे वीस पच्चीस सूत्रीय पंचशीलपरक नारों के उपहासास्पद विरोधाभासों ने नारों की अस्तित्व को इस दर्जा जंग लगा दिया है कि अब नारों को सन्देहशील नजरों से देखना गैरवाजिव नहीं लगता। पिछले वर्षों में नारों की भव्यता ने कमजोर पाचन शक्ति के कारण अक्सर खोखलेपन की उल्टी की है। जन सामान्य की लगभग नंगी देह पर इस हैजे के छीटे पड़े हैं।

ऐसे कहानीकार जिन्होंने जन साधारण की समस्याओं की आग अपनी त्वचा पर महसूस की है और उस तंग चादर के बाहर ठिकुरते हुये अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के कमजोर बूते को पूरे शिद्धत से महसूस किया है और जीवन के हर सुख के क्षण को अभावों के लकवे से भरा हुआ पाया है, विना किसी नारे या परचम के अपनी ईमानदाराना सोच के तहत रचनाधर्मिता को सार्थक दिशा दी है। उनकी कहानियों की मूलचेतना पूँजीवादी व्यवस्था के कारण लगातार बढ़ती रहने वाली कूरता, पाश्चिकता, अमानवीयता, घृणित विरोधाभासों और भ्रष्टाचारों के विरुद्ध रहती है। उनकी बेवाक चितनशीलता समकालीन तंत्र के ‘आकटापस’ पर पूरे जोर से आक्रमण करती है।

मेहनतकश जनता के संघर्ष में उनका जिम्मेदाराना रवैया सामाजिक जीवन के अनेक विडंबनाग्रस्त पहलुओं का साक्षात्कार करवाता है। इतना ही नहीं, अपने जीवन की तंग चादर के पीछे भागते हुये लोगों को संगठित हो कर खाई पाटने और नये सिरे से चादर बनाने के लिए घनीभूत जड़ता को काट कर उन लोगों से चादर हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेमचंद को इसीलिए लेखक सच्चाई की मशाल लेकर आगे चलने वाला जान पड़ता है। ‘आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी कहने के लिए उन्हें किसी कथा आंदोलन, उच्छाङ्ग-पछाङ्ग, धर-पटक, खींच-खिंचाई अथवा लटकेवाजी की कर्त्तई जरूरत नहीं होती। इस तरह संशय की गुंजाइश यह भी रह जाती है कि इस तरह के कथा आंदोलन किसी तरह के नेतृत्व प्रवर्तन, मठ बनाने और एक सर्वथा अलग तथा ‘नूतन क्षितिज उद्भासित’ करने का श्रेय प्राप्त करने के लिए छेड़े जाते हैं।

पिछले दिनों आम आदमी की खास अंदाज में कुछ विडंबनाओं का उपयोग शब्दोंसूरत से ठीक ठाक लगने वाले कहाँगी आंदोलन में पूरे लेखकीय लेकिन गैर जिम्मेदाराना दायित्व के साथ किया गया। यह कहानी आंदोलन था—सामांतर कहानी आंदोलन। इस आंदोलन में शुक्र किया गया था कि कहानी वैयक्तिक तथा क्षणवादी टाईप के नितात रूपवादी लेखन, जिसकी आधार शिला कुंठित सैक्स, नकार, अनास्था, अनर्गल या अश्लील जैसे शब्दों पर है, से अलग हट गई है। यहाँ से अलग हटना सामांतर में हिमालय विजयी नजरों से देखा गया है। मूलतः सामांतर कहानी संचार जिस अनुभव खंड से हमें साक्षात्कार करवाता है, वह इस प्रकार का अनुभव है कि ज्यादातर लोगों की जिदगी बेहद घटिया, बेहद और गलीज है और बाकी लोग जो कुछ पढ़ लिख गये हैं और कुछ सहूलियतें बनिस्वतन ज्यादा पा गये हैं इसलिए यह बात कुछ संतोषजनक है और थाली के बैगनों के लुढ़कने का मौका अच्छा है। सामांतर कहानी आंदोलन ने अपनी खोखल प्रतिध्वनियों के कारण एक प्रकार की जड़ता को जन्म दिया है और सामान्यजन की चादर-रहित देह पर वर्फनी हवाओं में जल छिड़क कर तर्पण का ढोंग किया है।

सक्रिय कहानी का एक उद्देश्य रचना की मुकित भी है। इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि रचना को भी वंधक मजदूरों और जरखरीद गुलाम औरतों की की तरह पूँजीवादी और सामंतवाद की अत्याचार और आदमखोर संरक्षित

के स्वार्थों की चक्की में पिसना पड़ा है। जिस प्रकार आदमी और समूचे जन समाज की मुक्ति आदमी की निजी और सामूहिक कोशिश द्वारा ही संभव है, उसी प्रकार रचना और समूचे साहित्य की मुक्ति संगठित सक्रियता द्वारा ही संभव है। यहाँ साहित्य की मुक्ति जाहिर है कि वर्तमान तंत्र के शिकंजे और प्रभाव से चाही गई है। यदि साहित्य रचाव की भूमिका ईमानदाराना यत्न का प्रतिफल है तो रचना अपने स्वाभाविक रूप से मुक्त ही होगी। दूसरी तरह से देखा जाये तो रचना मुक्त कब होती है? जब यह चित्तन का सीधा परिणाम है तो इसको व्यक्ति के चित्तन से किस तरह असंपूर्कत किया जा सकता है। व्यक्ति का चित्तन यदि वामपंथी है तो रचना वामपंथी होगी ही। इस पर कोई अन्य फार्मूला लागू ही नहीं होता। प्राथमिकताओं को तय करना अपने परिवेश से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इसी दिशवर्त की कड़ाकेदार सर्दी में लाखों किसानों का किसान रैली के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस किसान रैली के बारे में मीकापरस्त पत्रिकाओं के पन्नों पर भी छपा या कि वहाँ के भाषणों में किसान समस्या एक प्रतिशत और निन्यानवे प्रतिशत चौथरी जी की प्रशंसा थी।

पिछले दिनों प्राथमिकताओं के सवाल को मदेनजर रखते हुये कुछ कहानियां सामने आई भी हैं (देवी सिंह कौन : रमेश उपाध्याय, डंडा: असगर वजाहत, खोखल: पंकज वष्ट, ठाकुर संवाद: सतीश जमाली, वृढ़े रिक्षाचालक का चित्र: सुभाप पंत, सुरक्षित पुरुष: रमेश वत्तरा, उठो लछमीनारायण: सुरेन्द्र मनन)

असल में प्राथमिकताओं का एक निश्चित फैम खींचा ही नहीं जा सकता। जिस तरह चोरों के विज्ञान के तरक्की करते जाने के अनुपात से तालों का विज्ञान तरक्की करता है उसी तरह तंत्र की लंबी और विराट साजिशों के अनुरूप प्राथमिकताओं का रास्ता अपने आप स्पष्ट होता चला जाता है। आज कहानीकार को जिन विकट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस विस्तृत अध्यकार से जूझना पड़ रहा है, उससे अपने ईमानदाराना रखें और विवेक के बूते पर तंत्र के मोहक आश्वासनों, पद लोनुपता की खुमारी, नये से नये खड़े किये जाने वाले भ्रम के रिश्ते, धर्म के व्यापक अफीमी संस्करण जो वास्तविक तथ्य रोटी के लिए लड़ने की बजाय धर्म के तथाकथित असूलों पर दंगा करवाते फिरते हैं, से निरंतर जूझ कर अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करनी हैं।

साहित्यिक प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में

## जनवादी लेखन की समस्यायें

२

आपातकाल की समाप्ति के बाद हिंदी में जनवादी आंदोलन को एक नई शक्ति प्राप्त हुई है। गैर जनवादी लेखन में ठहराव की स्थिति और जनवादी लेखन में सक्रिय गतिशीलता इस बात का प्रमाण है कि हिंदी में सगठित प्रगतिशील आंदोलन की तीव्रता के ठोस संकेत मिलने लगे हैं। लगातार होते हुए ये लेखक शिविर अपनी सीमाओं के बावजूद सार्थक संभावनाओं को भी रेखांकित कर रहे हैं। जनवादी साहित्य आंदोलन के दौरान साहित्य की समस्याओं पर विचार करना इन शिविरों की प्राथमिक आवश्यकता है।

अभी हाल ही में “दिनमान” में सर्वेक्षणरदयाल सक्सेना ने इस बात पर बल दिया कि समकालीन साहित्य को ‘जनवादी’ साहित्य की अपेक्षा जन साहित्य कहना ज्यादा उचित है। उनके शब्दों में-‘जन साहित्य’ ज्यादा सार्थक शब्द है, वह बिना ‘वादी’ हुए भी लिखा जा सकता है। वादी होना एक आग्रह में वंधना है और दुराग्रही होना है। जनवादी कहना उस दुराग्रह के लिए रास्ता खोलना ही नहीं, उसका स्वागत करना है। यहां सबाल आग्रह और दुराग्रह का नहीं है, न ही किसी विशिष्ट राजनीतिक पार्टी का। जन साहित्य और जनवादी साहित्य का अंतर व्यष्टिहीन और व्यष्टि संपन्न साहित्य का है। गुलशन नन्दा के उपन्यास जिन्हें प्रेमचंद से कई गुना ज्यादा पढ़ा जाता है। जनसाहित्य हैं, जनवादी साहित्य नहीं। जनवादी साहित्य वह साहित्य है जिसमें जनता के मनोभावों की सही अभिव्यक्ति हो, जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं और संघर्षों को प्रस्तुत किया गया हो, जिसकी मूल प्रेरणा जनता का सामूहिक हित हो। बाद शब्द से इतना विदकने का कारण वह अकवितावादी और अस्तित्ववादी मनोवृत्ति है जो विचार मात्र को कविता का विरोधी मानती है। जनवाद का

अर्थ माक्सिंवाद नहीं है। जनवाद साहित्यिक स्तर पर वह मोर्चा है जो पूँजीवाद, साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरुद्ध है किंतु जिसके हित केवल सर्वहारा के हित नहीं हैं अपितु सर्वहारा सहित समस्त मध्यवर्ग के हित संरक्षित हैं। क्यों कि वर्तमान व्यवस्था के शोषण का शिकार सर्वहारा वर्ग ही नहीं है अपितु मध्यवर्ग भी है। किंतु मध्यवर्ग की मानसिक बुनावट ऐसी है कि उसकी आकांक्षाएं उच्चवर्ग के समकक्ष होती हैं तो परिस्थितियां निम्नवर्ग के समकक्ष। परिणामतः मध्यवर्ग इन दोनों वर्गों के बीच झूलता रहता है। जनवादी साहित्य का यह भी कार्य है कि वह मध्यवर्ग की वास्तविकता को 'एक्सपोज' करे, उसे सर्वहारा के नजदीक लाये, वह अपने हितों को सर्वहारा के साथ जोड़कर दें।

सर्वेश्वरदयाल सक्सेना लिखते हैं कि 'जनसाहित्य कोई भी लिख सकता है, जिसका जुड़ाव जन से हो, जो जनता की आशा, आकांक्षा, उसके संघर्ष और शोषण को पहचानता हो, उसे महसूस करता हो और उसके वैज्ञानिक आधार को समझता हो। सवाल यह है कि जिस 'वैज्ञानिक आधार' की वात स्वयं सर्वेश्वरदयाल सक्सेना करते हैं, वह क्या है। क्या वह 'विचार' नहीं है, क्या वह 'वाद' नहीं है। किसी भी साहित्य का वैज्ञानिक आधार वैज्ञानिक विष्ट ही हो सकती है। हमारा आग्रह इसी वैज्ञानिक विष्ट पर है जिसके बिना जनवादी साहित्य नहीं लिखा जा सकता। मैं समझता हूँ कि केवल 'जन' शब्द से उस वैज्ञानिक आधार का संकेत नहीं मिलता जो रचनात्मक साहित्य के लिए अनिवार्य है, जन केवल समूह का द्योतक है, जनवाद उस जन के लिए संघर्ष करने वाली विष्ट का भी द्योतक है। जनवाद कहते ही साहित्य में गुणात्मक अंतर आ जाता है।

समकालीन हिन्दी लेखन को हम तीन वर्गों में बाँट सकते हैं। प्रथम-पूँजीवादी, साम्राज्यवादी एवं सामंतवादी व्यवस्था का पक्षधर और यथास्थितिवादी या शाश्वत विद्रोही, द्वितीय-वर्तमान व्यवस्था का विरोधी किंतु परिवर्तन की दिशा की अप्पट्टा या उदार बुर्जुआई प्रजातन्त्र का पक्षधर। तृतीय-वर्तमान व्यवस्था का विरोधी एवं समाजवादी व्यवस्था का पक्षधर। सभी स्तरों पर भारत में आज भी मूलतः संघर्ष प्रथम वर्ग से ही है अतः जनवादी साहित्य के मंच से दूसरे और तीसरे वर्ग को एकजुट होना चाहिए। पहले प्रकार का साहित्य निश्चय ही प्रतिक्रियावादी साहित्य है और जनवादी साहित्य का ऐसे

साहित्य से विरोध है। जनवादी लेखकों को पहले प्रकार के साहित्य को साहित्यिक स्तर पर प्रभावहीन बनाना चाहिए। सामान्यतः व्यवस्था पहले प्रकार के साहित्य के प्रचार-प्रसार में सहायक होती है, दूसरे प्रकार के साहित्य का अपने ढंग से इस्तेमाल करती है एवं तीसरे प्रकार के साहित्य में वाधक होती है। पूंजीवादी-सामंतवादी व्यवस्था अपने को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए आम जनता तक ऐसा ही साहित्य पहुंचने देती हैं जो उसकी व्यवस्था का विरोधी न हो। जनवादी साहित्य को जनता तक पहुंचने से रोकने का कार्य व्यवस्था प्रत्यक्षतः नहीं करती। ऊपर से देखने पर लगेगा कि भारत में हर तरह के साहित्य को प्रचारित-प्रसारित करने की छूट है किंतु, हकीकत इसके विपरीत है। जनवादी साहित्य का प्रकाशन ही पर्याप्त नहीं है, देखना यह है कि वह साहित्य कितने लोगों तक पहुंच रहा है। जिस देश में आजादी के बतीस वर्ष बाद भी साक्षर लोगों का प्रतिशत मात्र तीस है, वहाँ साहित्य के प्रभाव की सीमा को आंका जा सकता है। इसलिए हमारे साहित्य की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि यह उन निरक्षरों तक भी पहुंचे जिनके लिए साक्षरता अब भी दूर का सपना है। निरक्षरों तक जनवादी साहित्य पहुंचाने के साधन हैं—साहित्य के लोकरूप। जैसे, लोकनाट्य, लोकगीत, छोटी छोटी लोक कथाएँ आदि। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्तर प्रतिशत निरक्षरता ग्रामीण अंचलों से जुड़ी है जिन्हें जाग्रत और शिक्षित किए विना हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते।

जनवादी साहित्य की दूसरी समस्या है अग्र किंतु वायवी क्रांतिकारी होना। केवल क्रांति का आहवान करने से या राजनीतिक परिवर्तन को लेकर कविता करने से हमारा मकसद पूरा नहीं होता। साहित्य का लक्ष्य एक नये तरह का समाज निर्मित करना है, नये तरह का मानव बनाना है, नयी चेतना से युक्त नया मानव! हमारा हर साहित्यिक कदम इसी दिशा में होना चाहिए। यह कार्य सरल नहीं है। सैकड़ों वर्षों की मानसिक जड़ता को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। हमारी पहली अनिवार्यता अपनी उस मानसिकता को बदलना है जिसकी जड़ों में भाग्यवाद, अकर्मण्यता एवं धर्मभीरुता कूट-कूट कर भरी है। यह वैज्ञानिक वृष्टि के विकास के विना समव नहीं है जिसका कोई प्रयास किसी स्तर पर नहीं हो रहा है - साहित्यिक स्तर पर भी नहीं। वैज्ञानिक वृष्टि की परीक्षा लेखन की विज्व-वृष्टि से होती है और विश्व-वृष्टि

की परीक्षा संपूर्ण जीवन के संदर्भ में होती है। अतः हमें साहित्य रचना का विषय संपूर्ण जीवन को बनाना चाहिए। कथित क्रांतिकारी साहित्य कविमंचीय प्रभाव ही उत्पन्न कर पाता है। कविता में गोलियां चलती हैं, कहानियों में दंगल होते हैं और उपन्यासों में सीधे-सीधे कांति हो जाती है किंतु हमारी जिदगी बादस्तूर बैसी ही चलती है। कहीं कुछ नहीं बदलता। फिर भी कहा जाता है कि हम यथार्थवादी साहित्य लिख रहे हैं। यह कैसा यथार्थवादी साहित्य है जो जीवन में कोई हलचल न मचाता हो। हमें विचार करना होगा कि यथार्थ का मतलब क्या है? क्या यथार्थ वह है जो हम जीते हैं या वह जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं। मुक्तिवोध ने कथा-साहित्य के संदर्भ में विचार करते हुए लिखा है कि—यह नहीं कि आज का कथा-साहित्य अयथार्थवादी है अथवा यथार्थ विरोधी है, बल्कि यह है कि लेखक यथार्थ के नाम पर अनुभूत यथार्थ (अपने जीवन के वास्तविक यथार्थ) से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ से बहानियां और उपन्यास गढ़ना चाहता है। मैं यह नहीं कहता चाहता कि हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह कहता चाहता हूँ कि उसमें मानवीय अंतरात्मा, मानवीय विवेक चेतना की हलचल मचाने वाली पीड़ा नहीं है, क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है और समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, उससे हम समझौता करें (एक साहित्यिक की डायरी)

अगर हम पिछले दशक की जनवादी रचनाओं की ओर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि कई जनवादी रचनाकारों ने अनुभूत यथार्थ की अभिव्यक्ति नहीं की है। उनकी रचनाओं में जो अभिव्यक्ति हुआ है वह या तो विचारधारा का सरलीकृत रूप है या अन्य रचनाओं का अनुकरण या अखबारी खबरों की देन। प्रायः एक सुविधावादी तरीका अपना लिया गया है कि जो जीवन हम जीतें-भोगते हैं, उसकी अभिव्यक्ति न करें। अभिव्यक्ति होती है ऐसे यथार्थ की जो अनुभूत नहीं है, जिसे जिया नहीं गया है। हमारे साहित्य का लक्ष्य साहित्य का विकास करना ही नहीं है सामाजिक परिवर्तन में भाग लेना भी है, परिवर्तन को दिशा देना और उसे तीव्रता प्रदान करना भी है। हमें जीवन की अभिव्यक्ति भी करनी है, उस जीवन की जिसमें हमारी वैचारिक प्रगतिशीलता की वास्तविक परीक्षा होती है। आगर साहित्य जीवन पर कोई असर नहीं डाल सकता तो उसकी रचना निरर्थक है। जीवन साहित्य का कच्चा माल

तो है ही वह उसकी आलोचना का प्रतिमान भी है। जीवन-दृष्टि ही काव्य-दृष्टि का निर्माण करती है और काव्य-दृष्टि जीवन-दृष्टि में निरंतर परिवर्तन करती है। साहित्य में परिवर्तन जीवन में परिवर्तन की भूमिका भी है और परिणाम भी। इसलिए हमें यह विचार करना होगा कि हमारा जीवन-न्रनुभव कैसा है और कितना व्यापक है, हमारी जीवन-दृष्टि कितनी सम्पन्न है। सामान्यतः लेखक मध्यवर्ग से आते हैं। वैचारिक दृष्टि से प्रगतिशील होने के बावजूद जरूरी नहीं कि लेखक का जीवन भी उतना ही प्रगतिशील हो। उसके व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सीमाएं, अपनी जीवन-दृष्टि को जीवन पर लागू कर उसका विश्लेषण करने की क्षमता का अभाव तथा पारिवारिक और सामाजिक संस्कारों की प्रवलता के कारण, जनवादी लेखकों की रचनाएं भी अंतर्विरोधों का शिकार हो जाती हैं। अपनी वैचारिक प्रतिव्रद्धता के कारण लेखक साहित्य में सर्वहारा के जीवन को साहित्य का विषय तो बना देता है, स्थूल रूप में उसके संघर्ष को अभिव्यक्त भी कर देता है, लेकिन उनके जीवन की वास्तविक पहचान के अभाव में उनके अंतर्विरोध, उनकी शक्ति और सीमाएं चित्रित नहीं हो पाते। कई रचनाओं में तो लेखकों का सर्वहारा के प्रति भक्तिभाव ज्यादा टपकता है। इससे तो बेहतर यह है कि लेखक अपने ही वर्ग को साहित्य रचना का आधार बनाए। वास्तविकता यह है कि अब भी हिंदी में सांमंती एवं पूंजीवादी संस्कारों के विरुद्ध एकजुट लड़ाई निर्णायिक स्तर पर नहीं पहुंच पाई है।

जीवन का यथार्थ बहुत विस्तृत होता है और उसका आधार होता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन की भूमिका घर से बननी चुरु होती है। अगर व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो घर के बाहर के सारे परिवर्तन खोखले प्रमाणित होते हैं। मुकिनवोध के शब्दों में—आज भी घर सामंती रुढ़ियों के गढ़ हैं जिनके विरुद्ध संघर्ष करना भी जनवादी साहित्य के लिए अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन के कार्य को समाज सुधारक संस्थाओं के भरोसे छोड़ दिया गया है जिनके चिन्तन का आधार वस्तुतः धार्मिक सुधारवाद है। मूलत ये संस्थाएं व्यक्ति में सांमंती संस्कारों को और प्रबल करती हैं। इसी का परिणाम है कि अभी पिछले दशक में ऐसी संस्थाओं और धर्म गुरुओं का विशेष बोलबाला रहा जो इन संस्कारों को प्रश्न और संरक्षण दे सके। जनवादी साहित्य में ऐसे विषयों को ले कर लिखने की

कोशिश नहीं की जाती। केवल उन विषयों को उठाया गया जो क्रांतिकारी और प्रगतिशील भी लगे और लेखक तथा पाठक के निजी जीवन में किसी तरह की हलचल पैदा न हो। समाज आप पर गुराये नहीं, व्यवस्था आप से विमुख रहे। आप छप जायें। सौ-हजार पाठक पढ़ के वाह वाही करें। एक दो मिन्न आलोचना लिख दें। साहित्यकार का साहित्यिक कर्म समाप्त हुआ।

यथार्थ की अभिव्यक्ति के संदर्भ में ही आलोचनात्मक और समाजवादी यथार्थवाद का सवाल उठाया गया है। आज हिंदी में आलोचनात्मक यथार्थवाद की आवश्यकता है या समाजवादी यथार्थवाद की। जनवादी लेखकों में इस पर मतभेद हैं। मैं समझता हूँ आज हिंदी में आलोचनात्मक यथार्थवाद की उतनी ही आवश्यकता है जितनी समाजवादी यथार्थवाद की, मक्सिम गोर्की ने रूसी क्रांति के बाद साहित्य के संदर्भ में विचार करते हुए समाजवादी यथार्थवाद की अभिव्यक्ति पर बल दिया था वयोंकि वहां पर एक नये प्रकार के समाजवादी समाज का निर्माण हो रहा था इसलिए गोर्की ने समाजवादी यथार्थवाद की अभिव्यक्ति पर बल देकर अपने समय की साहित्यिक आवश्यकता को रेखांकित किया था किंतु हमारे देश की प्राथमिकताएँ भिन्न हैं। यहां समाजवादी क्रांति का दौर नहीं है अपितु जनवादी क्रांति का दौर है। अभी भी आम भारतीय मानस सामंती संस्कारों से ग्रस्त है। व्यवस्था का स्वरूप जहाँ उदार बुर्जुआई प्रजारौत्रिक है वहाँ प्रकृति सामंती, पूँजीवादी और साम्राज्यवादी है। जून 1975 के पूर्व उभरे जन असंतोष के परिणाम स्वरूप व्यवस्था फासिस्ट चरित्र भी अपना चुकी है। ऐसे में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों मोर्चों पर जनवाद को मजबूत करना अनिवार्य है। अगर जनवादी लेखक अपने क्षेत्र को संकीर्ण करते हैं और केवल समाजवादी यथार्थवादी साहित्य को ही जनवादी साहित्य स्वीकार करते हैं तो यह दूरगामी दृष्टि से समीचीन नहीं होगा। अतः आज उन सब साहित्यकारों को जो अपने साहित्य में आलोचनात्मक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति देते हैं उन्हें एक ही मत पर लाना चाहिए।

इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि समाजवादी यथार्थवाद की अभिव्यक्ति हो ही नहीं या भारतीय संदर्भ में समाजवादी यथार्थवाद की अभिव्यक्ति का समय नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गोर्की ने क्रांति के बाद के रूसी साहित्य के संदर्भ में किया था किन्तु आज 'आलोचनात्मक यथार्थवाद' एवं 'समाजवादी यथार्थवाद' दोनों की अभिव्यक्ति जरूरी है।

जहां आलोचनात्मक यथार्थवादी अपने साहित्य में समाजिक यथार्थ की आलोचनात्मक अभिव्यक्ति करता है वहां समाजवादी यथार्थवादी अपने साहित्य में वस्तुगत यथार्थ का उसके क्रांतिकारी विकास की अनुरूपता में समाजवादी दृष्टि के आधार पर चित्रण करता है। समाज में व्याप्त वर्ग संघर्ष तथा वर्गीय असंगतियों का गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण तथा उद्घाटन करता है। लूकाच तो यहां तक कहते हैं कि आलोचनात्मक यथार्थवाद की आवश्यकता सफल समाजवादी क्रांति के बाद भी रहती है क्योंकि क्रांति के साथ ही पूँजीवादी तथा सामंतवादी संस्कार पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाते। इन संस्कारों के विरुद्ध संघर्ष चलता रहना चाहिए।-

हिंदी में यथार्थवाद के नाम पर सदैव यथार्थवाद की ही अभिव्यक्ति नहीं हुई है बल्कि यथार्थवाद के नाम पर नव्य-स्वचंद्रतावाद, प्रकृतवाद मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद आदि की भी अभिव्यक्ति हुई है। जनवादी साहित्य की प्रवल लहर के कारण कई लेखकों के लिए यह लहर भी एक फैशन की तरह है। उनके लिए जनवाद कोई आंदोलन नहीं है, साहित्यिक प्रतिष्ठा हासिल करने का एक जरिया है। इसलिए वे भिन्न-भिन्न प्रकार की रचनाएं भिन्न-भिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं। अगर भाषा पर थोड़ा अधिकार है तो एक-दो पाठों में रचनाएं प्रभावशाली भी लगती हैं किंतु गहन और सूक्ष्म विश्लेषण से रचनाओं का थोथापन साफ उजागर हो जाता है। इस प्रकार के छद्म जनवादी रचनाओं को वास्तविक जनवादी रचनाओं से अलग करना भी आवश्यक है।

रचना की सार्थकता का निर्णय इस बात से होता है कि रचनाकर का यथार्थ के प्रति कैसा रवैया है। वह यथार्थ को किस रूप में ग्रहण करता है। यथार्थ को यथावत् ग्रहण नहीं किया जा सकता न ही यथावत् प्रस्तुत किया जा सकता है। जहां ऐसा हुआ है वहां रचनाएं प्रकृतवादी हो गयी हैं। प्रकृतवादी रचनाओं में आलोचनात्मक दृष्टि का तो अभाव होता ही है लेखक की विश्व-दृष्टि का भी अभाव होता है। फलस्वरूप रचनाएं महज अखबारी खबरों सा प्रभाव छोड़ती हैं। दूसरी ओर अगर रचनाकार अपने वैचाग्निक आदर्श के अनुरूप यथार्थ की उपेक्षा कर केवल काल्पनिक यथार्थ की रचना करता है तो रचना वायदी आदर्शवादी हो जाती है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी लेखक यथार्थ को वस्तुगत सत्य से काटकर केवल आत्मगत रूप में ही देखता है परिणामतः यहां यथार्थ का एक पक्ष ही उभरता है। जनवादी लेखन के लिए

यह जरूरी है कि रचनाकार अभिव्यक्त यथार्थ को वस्तुगत सत्य से जोड़े, साथ ही रचना में अभिव्यक्त होने वाले वस्तुगत सत्य में निहित वर्गीय असंगतियों, संबंधों और संघर्षों को भी अभिव्यक्त करे। लेखक को वस्तुगत सत्य से इस दृष्टि से तटस्थ भी होना चाहिए कि वह अपने मन पर पड़ने वाले प्रभावों से संचालित न हो। लेखकीय दृष्टि या विचारधारा का उपयोग यथार्थ के दृंगात्मक विश्लेषण में होता है। जैसा कि मुक्तिबोध ने भी संकेत किया है कि यथार्थ के इस विश्लेषण में लेखक अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को ही विचार समझ लेता है। परिणामतः रचनाओं में केवल मानसिक प्रतिक्रियाएं ही अभिव्यक्त होती हैं वस्तुगत सत्य पीछे छूट जाता है। धूमिल की कविताओं की मूल दुर्बलता यही है। इन मानसिक प्रतिक्रियाओं के कारण रचना अंतविरोधों का शिकार हो जाती है। कहीं तो मानसिक प्रतिक्रिया लेखक की वैचारिक दृष्टि से होती है तो कहीं परंपरागत संस्कारों से। अगर लेखक की वैचारिक दृष्टि भी अंतविरोधों की शिकार है तो रचना में एक साथ कई विचारों का मिश्रण नज़र आएगा।

यथार्थ की अभिव्यक्ति में लेखक विचारधारा का एक और ढंग से डस्तेमाल करता है। वह अपनी विचारधारा के अनुरूप घटनाओं को संयोजित करता है। अगर लेखकीय तर्क से वस्तुगत सत्य भिन्न दिशा में जाता नज़र आता है तो रचनाकर उसे जबरन अपनी दिशा में मोड़ लेता है। इससे रचना में कथित विचारधारा तो अभिव्यक्त हो जाती है किंतु रचनम् में दरारें पैदा हो जाती हैं। दूसरा तरीका यह भी अपनाया जाता है कि लेखक अपनी विचारधारा को सूत्रबद्ध कर उसी के अनुकूल रचना का निर्माण करता है। यहां रचनाओं से वस्तुगत सत्य अभिव्यक्त नहीं अपितु विचारधारा के सूत्र अभिव्यक्त होते हैं। पूरी रचना विचारधारा को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त करती है। ऐसी रचनाओं को जब लेखक एक साथ वस्तुगत सत्य और विचारधारा का वाहक बनाना चाहता है तो कदम-कदम पर रचना की सांस उखड़ती नज़र आती है और अंत तक जाते-जाते रचना पूरी तरह दम तोड़ देती है।

**वस्तुतः** वस्तुगत सत्य बहुत जटिल होता है उसे सरलीकृत करके प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मुक्तिबोध की रचनाओं की जटिलता का मूल कारण यही है। वे वस्तुगत सत्य की जटिलता को खंडित नहीं करते। अपनी रचनाओं में उसकी जटिलता को बरकरार रखते हुए उसे अपनी वैचारिक दृष्टि से

विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण की इस प्रक्रिया में वे अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं करते, वरावर उससे बचते हैं। जहाँ उन्हें वैचारिक निर्णय देना होता है, वहाँ प्रतिक्रिया विचारधारा से निःसृत प्रतिक्रिया होती है। जैसे 'अंदेरे में' कविता में—

कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूँ  
वर्तमान समाज चल नहीं सकता,  
पूँजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता।

(मुक्तिवोध-बांद का मुँह टेड़ा है।)

वस्तुगत जटिलता का दृष्टात्मक विश्लेषण न कर पाने के कारण रचनाकार आवश्यक और अनावश्यक विवरणों में भेद नहीं कर पाता। कई बार अनावश्यक विवरणों की प्रचुरता के कारण रचना में शिथिलता पैदा हो जाती है।

रचना में वस्तुगत सत्य की अभिव्यक्ति कितनी प्रभावकारी हुई है। इसका ज्ञान पात्रों के जीवंत व्यक्तित्व से होता है। 'गोदान' इसका ठोस प्रमाण है। वस्तुगत सत्य की सही अभिव्यक्ति से जहाँ एक और होरी और धनिया जैसे जीवंत एवं अविस्मरणीय पात्रों की वृष्टि होती है वहाँ वस्तुगत सत्य के प्रति लेखक के पूर्वग्रह के कारण मेहन्ता एवं मालती का चरित्र कमज़ोर पड़ जाता है। चरित्र-निर्माण में वस्तुगत सत्य निर्णायक भूमिका निभाता है। कई जनवादी लेखक अपनी रचनाओं में ऐसे पात्रों की वृष्टि करते हैं जो उसके विवारों एवं आदर्शों का बाहक तो हो जाता है, उसमें अदम्य शक्ति सी भर दी जाती है किंतु जीवन में ऐसे सक्रिय नायकों के दर्शन नहीं होते। अतः उनका सारा साहस, सारी शक्ति एवं सारे आदर्श धोये नजर आते हैं। यशपाल, नागर्जुन जैसे प्रगतिशील लेखक ही नहीं आज सभी जनवादी लेखकों में भी यह प्रवृत्ति विद्यमान है। अगर पात्र को अपनी वर्गचेतना की सीमा में ही वर्गायि चेतना में आने वाले परिवर्तनों असंगतियों एवं संघर्षों को वस्तुगत सत्य के परिप्रेक्ष में चित्रित नहीं किया जाता तो पात्र कितना ही क्रांतिकारी क्यों न हो वह कृत्रिम लगने लगता है। काशीनाय, सिंह का 'मुखीर घोपाल' ऐसा ही पात्र है।

'सक्रिय नायक' की वृष्टि का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे अदम्य विशिष्ट

और अद्वितीय पात्र की इटि की जाए जो दिव्यता का आभास दे । सक्रिय नायक वर्गीय पात्र होता है जिसमें अपने वर्ग की चेतना का पूरा प्रक्षेपण होता है । उसकी विशिष्टता यह होती है कि वह अपने वर्ग को गति प्रदान करता है । वह अपने वर्ग की सीमाओं को तोड़ता है, उसकी चेतना का विकास करता है । उसकी सक्रियता उसके व्यक्तित्व का अनिवार्य अंग होती है जो सदैव ऊर्ध्वमुखी होती है ।

जनवादी लेखन की समस्या केवल वस्तु की समस्या नहीं है । रूप और संप्रेषण की समस्या भी है । साहित्य के क्षेत्र में रूप और वस्तु का विवाद नया नहीं है । जनवादी रचनाकारों में वस्तुवादी इष्टिकोण के कारण वस्तु के प्रति विशेष आग्रह दिखाई देता है एवं रूप के प्रति उपेक्षा दिखाई देती है । रूप के प्रति सजगता के अभाव में रचनाएं संप्रेषण की इष्टि से कमजोर हो जाती हैं । वैसे तो किसी रूपहीन वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती और न ही वस्तुहीन रूप की । किंतु साहित्य के संदर्भ में इसका मतलब है कि वस्तु के सर्वथा अनुकूल रूप का निर्माण । वस्तु के अनुकूल रूप का निर्माण भाषा से होता है । भाषा सामाजिक वस्तु है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा व्यक्त होने वाले प्रत्येक भाव और विचार कितने ही व्यक्तिगत क्यों न हो भाषा का रूप धारण करते ही वे एक सीमा तक अपनी व्यक्तिप्रकृता खो देते हैं । यह सत्य है कि हरेक लेखक भाषा का निजी ढंग से प्रयोग करता है लेकिन संप्रेषण की सीमा के अंतर्गत ही । यहां भाषा का तात्पर्य व्याकरणिक भाषा से ही नहीं साहित्यिक भाषा से भी है । लय, गति, छंद, मात्रा, अलंकार, विंच, प्रतीक, फैटेसी, मिथक आदि की भाषा ।

साहित्य में जब वस्तु और रूप में असंतुलन होता है तब संप्रेणीयता में कठिनाई आती है । मान लीजिए कोई लेखक नई विषय वस्तु को किसी पुराने फार्म में ही प्रस्तुत करता है तो उन पाठकों के सामने संप्रेषणीयता की कठिनाई पैदा हो जायेगी जो उस विशिष्ट फार्म में विशिष्ट विषय वस्तु को पढ़ने के ही आदी हैं और इस नई विषय वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पायेंगे और उसे 'रचना' के रूप में अस्वीकार कर देंगे । दूसरी कठिनाई यह आएगी कि लेखक उस पुराने फार्म में अपने नये भावबोध को उस शक्ति के साथ संप्रेषित नहीं कर पाएगा क्योंकि नई विषय वस्तु एक नये रूप की भी मांग करती है । अगर कोई लेखक अपने नये भावबोध को पुराने फार्म में प्रस्तुत

करता है तो उसका रचनात्मक प्रयोग भी हो सकता है। नया भावबोध एवं पुराना फार्म रचना को व्यंग्यात्मक बना देता है। रूप और वस्तु का यह विरोध मानवीय नियति की विडंवना के प्रतीक रूप में भी प्रस्तुत हो सकता है और कथ्य को व्यंग्यात्मक धार देने के लिए भी कभी-कभी किसी रचना में कथ्य और रूप दोनों ही प्राचीन होते हैं लेकिन भावबोध नवीन होता है। इस प्रकार की रचनाएँ भी संप्रेषण में अत्यंत सफल होती हैं। जैसे पंचतन्त्र की कहानियों के आधार पर लिखी गई कहानियां। लेकिन यहां भी द्वंद्व (प्राचीन कथ्य और नवीन भावबोध) से उत्पन्न व्यंग्य ही है।

संप्रेषणीयता की समस्या नये भावबोध एवं नये रूप में भी आती है। यहां कठिनाई पाठकों का साहित्य की नवीन परम्परा से अपरिचय के कारण पैदा होती है। जब साहित्य के विकास और पाठक की मानसिकता के बीच अंतराल स्थापित हो जाता है तो नवीन साहित्य को पाठक वर्ग सहजता से स्वीकार नहीं करता। साहित्य के विकास के दौरान ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब साहित्य समाज के विकास से अधिक तीव्र गति से विकसित होता है। परिणामतः साहित्य और समाज में खाई बढ़ने लगती है। वर्तमान हिंदी साहित्य और भारतीय समाज की स्थिति ऐसी ही है। साहित्य में लेखक जिन नवीन मूल्यों को स्थापित कर रहा है वह हमारे समाज में कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसी स्थिति में यदि साहित्य पाठकों के मानस में स्थापित मूल्यों से सीधे-सीधे नहीं जुड़ता या टकराता तो ऐसे साहित्य का कोई अर्थ उस समाज के लिए नहीं रह जाता। इसलिए जनवादी साहित्य के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक विकास और साहित्य विकास में अंतःसंबंध दृटना नहीं चाहिए।

हिंदी साहित्य की परंपरा का विकास उसकी जातीय परंपरा के संदर्भ में ही हो सकता है। रचना एक और जीवन से जुड़ी होती है तो दूसरी और वह अपनी साहित्यिक परंपरा का विकास भी करती है। साहित्य की परंपरा का विकास साहित्य की परंपरा को जाने विना नहीं हो सकता। जब तक हमारे वहस के विषय समकालीन साहित्य तक ही सीमित रहेंगे तब तक हम अपनी साहित्यिक परंपरा का साध्यक विकास नहीं कर पायेंगे। जनवादी आंदोलन से जुड़ी लघु पत्रिकाओं को देखने से ज्ञात हो जाएगा कि सामान्यतः प्राचीन मध्ययुगीन साहित्य के संबंध में कोई नवीन दृष्टि का लेख नहीं होता।

जनवादी साहित्य की समीक्षा का गंभीर प्रयास नहीं किया जाता। पिछले लंबे अरसे से मार्क्सवादी साहित्यिक इतिहास की आवश्यकता महसूस किए जाने के बावजूद इस ओर कोई गंभीर कार्य नहीं हुआ है। परिणाम यह हो रहा है कि नये जनवादी लेखक अपनी परंपरा से विलकूल कटे हुए महसूस करते हैं। यह बात रचना और आलोचना दोनों के लिए चितनीय है।

(ग्वालियर में आयोजित जनवादी लेखक शिविर में पठित आलेख)



## अयाचित्

मैं दफ्तर में बैठा था। चपरासी ने आकर कहा कोई मेमसाव आपसे मिलने आयी है। इस शहर में मुझ कुंवारे से मिलने कोई महिला भी आ सकती है, यह बात मानने लायक थी ही नहीं। मैं खुद बाहर गया। सचमुच वे खड़ी थीं। सादा सफेद साड़ी, अधकचरे बाल और थका हुआ चेहरा। मैंने नमस्ते की। वे एकटक देखती रहीं और उनकी आँखों से टप टप आँसू टपकने लगे। मैं चकित था और परेशान भी। वह दफ्तर था और वे आखिर क्यों रो रही थीं? मैं उन्हें विल्कुल नहीं पहचान रहा था। मैंने उन्हें भीतर चलने को कहा। वे रुधे गले से बोलीं-नहीं पहचाना न? मैं कुसुम हूँ।

मेरे दिमाग से धुंध बादलों की तरह हटने लगी। मैं उन्हें भीतर ले गया। फिर चाय। वे रुमाल से आँखें और नाक पोंछती रहीं।

करीब पच्चीस साल पहले मैं अपने पापा की साइकिल पर बैठकर शहर के दूसरे सिरे पर रह रहे एक सज्जन के घर जाया करता था। कभी-कभी। उनकी एक अठारह साल की लड़की थी। वह मुझ से बहुत प्यार करती थी। थोड़ी ही देर में वह मुझे नहला देती, पाउडर लगती, बाल बनाती, काजल लगाती और कई बार चूम लेती। यह उसका शौक लगता था। मैं इस दरम्यान उसका दिया केक चुगलता रहता या तैयार होने पर मिलने वाले केक की प्रतीक्षा करता रहता। मेरी दिलचस्पी केक में थी। उसकी लाड में। केक नहीं होता तो मैं भी नहीं होता और लाड के लिए मौका भी नहीं।

एक दिन हमारे घर देर रात तक जोर जोर से बातें हुईं। पापा उस लड़की के पिता और बाबा। पापा और सब लोग एक दो दिन तनाव में रहे। फिर मुझे कभी वहां नहीं ले जाया गया।

वह लड़की अपने एक प्रेमी के साथ भाग गई थी। कहा गया कि वहं खो गयी और उसका कुछ अता-पता नहीं चला। प्रेमी कोई नीची जात का आदमी था।

वे सज्जन पापा के मित्र थे। उन्हें हम ताऊजी कहते थे। और वह खोयी हुई लड़की—कुसुम थी—यहीं जो मेरे सामने बैठी हुई है।

पच्चीस-छब्बीस साल बाद आप किसी से मिलें तो क्या बात करेंगे? मैं इस बीच एक जवान आदमी हो चुका था और वे अधेड़। उनके मन में मेरे लिए प्यार की धाराएं फूट रही होंगी लेकिन मेरे लिए लगभग अजनकी हो गई थीं। मैं उनके लिए अपने मन में कोई कोमलता नहीं ढूँढ पा रहा था। मुझे यह भी लग रहा था कि मैं उम्र में इनसे इतना छोटा हूँ कि उनके इतने बड़े जीवन संघर्ष के बारे में क्या पूछूँ? और क्या ये बता पायेंगी?

लेकिन उन्हें भी भावुक नहीं होना था। चाय पीने के बाद वे सहज हो गयी और हममें ठोस सूचनाओं का आदान-प्रदान होने लगा।

पता चला वे यहीं पास के गांव में अध्यापिका हैं। उनके पति भी उसी स्कूल में अध्यापक हैं। वे कई वर्षों से मेरा पता लगाने की कोशिश कर रही थीं। अभी हाल ही में उन्हें पता चला कि मैं यहां हूँ—और वे आ गयीं।

अब मुझे पता चला कि उनका अचानक दोवारा आना मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा था? क्यों नहीं मेरा दिल उनके स्वागत में खुल कर बिछ गया। क्योंकि वे एक विजेता की तरह नहीं एक सुधरे हुए अपराधी की तरह आयी थीं। चौथाई सदी पहले जिस लड़की ने घर से भागकर किसी 'नीच जात' के प्रेमी से शादी कर लेने का शानदार कारनामा किया हो, उसके चेहरे पर पुराने जांबाजों सी गौरवपूर्ण चमक...शहीदों-सी साहसपूर्ण विजय गमकती रहनी चाहिए। यहां क्षमा याचना करती सी दरिद्रता थी। पश्चाताप कर चुकने के बाद का हताश इमशानी सीधापन। मेरे मन में जो कुछ कोमल था, वह खंडित होने लगा। क्या जिंदगी इतनी क्रूर है?

वे अपने घर परिवार के बारे में बताने लगीं, मैं वेमन से सुनता रहा और सुनने से ज्यादा उनके सिर में लहरा रहे चांदी के तार गिनता रहा। पता चला उनके पांच बच्चे हैं। तीन लड़कियां और दो लड़के। एक लड़की की पिछले साल शादी हो गयी। बड़ा लड़का नवीं में पढ़ता है। इससे बड़ा एक

और था। लेकिन पिछ्ले साल एक एक्सीडेंट में मर गया। वे मरे हुए वच्चे की बातें याद करके रोने लगीं। उसे मैंने कभी नहीं देखा था।

शायद मेरी अपेक्षाएँ ही गलत थीं। मैं किसी और तरह की भाँ समझता था, समझना चाहता था उन्हें। दरअसल उनका एक दम आसत औरतपन ही मुझे खटक रहा था। जिनके जीवन में इतनी बड़ी क्रांति घटित हो चुकी हो, उनका दिल...दिमाग...आखिर क्या अंतर है इनमें और गायों की तरह दान-देहेज के साथ कहीं बांध दी गयी औरतों में? मैंने सोचा मैं जल्दवाजी कर रहा हूं। मेरी झुमानियत को चाहिए उनके तजरबे को तमीज से देखे।

मैं उनके पिताजी के बारे में पूछने लगा। वे पी. डब्ल्यू डी. में स्टोरकीपर थे। बड़े रगीन मिजाज और अयाश तबीयत आदमी। गवन किया। फंस गये। नौकरी गयी। जेल हुई। अब वृद्धावस्था अपने इकलौते बेटे के पास गुजार रहे हैं। मेरे मन में एक धुंधली सी तस्वीर आयी। जर्मन ट्रूबीड के शानदार सूट में एक अधगजे, लवे रौबदार आदमी की। उसके चेहरे पर मैंने कुछ सफेद दाढ़ी-मूँछ चिपकायी। कमर कुछ झुका दी। चश्मा लगा दिया। सूट को खंजूला कर दिया। फिर भी मज़ा नहीं आया। मैंने सोचा मारो गोली। होगे कोई पिता। इनके।

और पच्चीस साल बाद का यह नाटकीय पुनर्मिलन इस नाटकीय बात पर समाप्त हुआ कि आठ रोज बाद उनकी लड़की की शादी है—और देख, मैं कार्ड तो तेरे लिए लायी नहीं, पता ही नहीं था तू मिल भी जाएगा—पर तू आना जरूर।

इतना ही भर वे कहतीं तो मैं शायद एक औपचारिक 'जरूर' कह कर सारी बात भूल जाता, लेकिन वे फिर रोने लगीं और रोते-रोते उन्होंने बताया कि उनके यहाँ कभी कोई नहीं आता। बड़ी लड़की की शादी के बक्त वे अपने भाई के घर गयी थीं—कभी न लौटने की कसम तोड़कर—और शादी में आने की दावत कबूलना तो दूर, पिता ने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया था। और भाई...चुपचाप देखता रहा था।

पिता—जो मैं जानता हूं अपनी सारी पैत्रिक संपत्ति रंडीवाजी में होम देने के बाद, अपनी नौकरी और इज्जत-आवरू तवायफों और रखौलों पर निछावर कर देने के बाद, शराब और वीमानियों में गर्क हो जाने के बाद अपनी इकलौती लड़की पर चरित्रहीनता का लांछन लगाता है—कि उसने घर से भाग कर शादी

कर ली...और भाई....वह कैसा बीमार भाई है ? कौसी नपुंसक आत्मा है उसकी ? क्या उसे कभी जवान नहीं होने दिया गया ?...जबकि अब शायद उस वच्चे की भी कनपटियां सफेद हो चुकी होंगी । क्या वह भी कभी पप्प...पप्प...अम्म...अम्म....से आगे कुछ बोलना सीखेगा ?

मैंने कहा—और खुद से भी कहा—कि मैं जरूर आऊंगा ।

और मैं सचमुच गया ।

वहन लिपट कर रोने लगीं । वच्चे—और बड़े बड़े वच्चे जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता था, मामाजी, मामाजी, कहते लट्टम गये । उनके पति...अब जबकि उनकी दूसरी लड़की की शादी हो रही थी, इस उम्र में भी पता नहीं कैसे उस संकोच में कमसिन हो गये जो दूल्हे को पहली बार अपनी 'उन' के भाई यानी साले से मिलकर होता होगा । मैं उम्र में उन से बहुत छोटा था, सालोंचित हंसी-मजाक नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे बहुत जल्द वहां एक अपरिचित से एक रिश्तेदार में, बल्कि उसी परिवार के एक सदस्य में तबदील हो जाना था । मैं कोशिश करने लगा । हालांकि इस कलाकारी में एकदम कच्चा हूं ।

वहां वह अत्यपरिचित वहन भी मुझे बहुत ज्यादा अपनी वहन लग रही थी । मुझे लगा अब मैं इससे कुछ निःसंकोच होकर बात कर सकता हूं, दूसरों के बारे में पूछ सकता हूं । उधर मेरे निए चाय की तैयारी चल रही थी इवर मैं वहन को एक कमरे में ले गया । किंतु वहां वह लड़की बैठी थी जो अभी कुछ देर बाद दुल्हन बन जाएगी, वह सकपकाकर उठी और उसने मुझे नमस्ते किया । मैं उस लड़की को क्या देता ? कौन सी दुआ ? कौन सा प्यार ? कौन सी चुहल ? वह बाहर चली गयी । मैंने वहन से कहा—देखो, मैं तो कुछ समझता नहीं, और ऐसे ही चला आया हूं, तुम मुझे बता दो कि मुझे क्या-क्या करना है ?

वहन ने गदगद होते हुए कहा—तू आ गया यही क्या कम है ? कौन आता है मेरे घर ? और रोने लगीं ।

मैंने कहा—उसे छोड़ो, पर लोग तो सोचेंगे ही न कि तुम्हारा भाई आया है तो क्या-क्या लाया होगा ! क्या-क्या होता है ?

कुछ सोचकर उन्होंने कहा—कुछ नहीं, तेरी तरफ से साड़ी मैंने बना ली है । उस पर एक नारियल । नारियल मैं रख दूँगी, तू एक रुपया रख देना ।

वस, और कुछ नहीं करना है ।

मैंने पूछा—तुम संकोच तो नहीं कर रही हो ?

उन्होंने कहा—कैसा संकोच ?

मैंने कहा—कुछ नहीं । और बाहर निकल आया ।

उनके दोनों लड़के अब मेरा लाड कर रहे थे । एक चाय पिला रहा था । एक ने दूसरे को चीखकर हुक्म दिया—मामा जी के लिए पान ला । दूसरे ने एक से डाटकर कहा—मामाजी को पहले सिगरेट पिलाओ । दूसरे ने एक से कहा—साले, मामाजी सिगरेट नहीं पीते । दूसरे ने एक से कहा—पीते हैं मुझे मालूम है । है न मामाजी ? नहीं न मामाजी ? है न मामाजी ? मैं मुस्कुराकर चुप मार गया ।

अब उसके पति की बारी थी । चाय पीकर मैं उनके साथ बाहर आ गया । मैंने कहा । जबाई साहब नहीं दिखाई दिये । वे बोले—उनकी तरफ भी उन्हीं दिनों एक शादी पढ़ गयी । नहीं आ पाये । नहीं आ पाये जैसे एक शिकवे की तरह बोला गया हो । अब मैंने गौर किया कि वहन की तरफ से तो खैर किसी का नहीं आना तय था लेकिन इनकी तरफ से भी कोई नहीं आया है । दरअसल वहां एकमात्र मेहमान मैं ही था (गौर मुझे मेजबानी करनी थी) वाकी जो लोग थे वे वहन जा या मास्साव कहने वाले थे—गौर वे भी ज्यादा नहीं थे । माहौल कुछ यूंथा कि जैसे शादी आज नहीं परसों हो ।

—बारात कितनी बजे आनेवाली है ? मैंने पूछा ।

—छह बजे का टाइम दिया है । उन्होंने कहा ।

मैंने घड़ी देखी । चार बजे चुके थे । और वहां कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही थी । मुझे ताज्जुब हुआ । चिंता भी । मैंने पूछा—रिसेप्शन कहां होगा ? क्या प्लानिंग है आपकी ?

बोले—यहां—कवटिर के सामने जो वास्केटबाल कोर्ट था उसकी तरफ इशारा करते हुए—मफाई करवा देंगे और छिड़काव करवा देंगे । कुसियां लग जायेंगी । और...वहां...दूसरी तरफ क्लासरूमों के आगे एक बरांडा दिखाते हुए—खाना हो जाएगा । मैंने देखा वहां भट्टो बनी हुई है । चार-पाँच आदमी काम कर रहे हैं । सफेद कपड़े से ढंगी पानी की तीन-चार टंकियां...एक बड़ी परात में तुङ्गी का पहाड़ ।

मैंने पूछा—खाने से पहले कुछ नहीं होगा ?

बोले—क्या ठीक होगा ?

मैंने पूछा—आपने क्या इंतजाम किया है ?

बोले—जैसा वे चाहेंगे कर देंगे । चाय या कोल्ड्रॉक ।

मैंने पूछा—वारात में कितने आदमी हैं ?

बोले—पचास का कहा है । पर साठ-सत्तर भी हो सकते हैं ।

मैं उनकी मूढ़ता पर हैरान था । अभी वे कितने निश्चित भाव से डोल रहे हैं ।

मैंने कहा—सात बजे तक अंधेरा हो जाएगा । रोशनी का क्या इंतजाम है ?

बोले—फ्लार्टर के आगे एक लट्टू टंगवा देते हैं ।

मैंने कहा—विजली चली गयी तो ?

बोले—गैसबत्ती तो मुश्किल है लेकिन...अरे...<sup>5</sup> सुन तो...

छोटे—लड़के को आवाज दी ।

मैं उखड़ गया । निकल गया । बाहर...गांव में भटकने लगा ।

आखिर इन लोगों ने मुझे क्यों बुलाया ? मैंने झुँझलाते हुए अपने आँखें पूछा । किस चीज़ के लिए तरस रहे हैं ये लोग ? किस सड़े समाज के लिए ? कौन से रिश्ते-नातों के लिए ? जिमने इन्हें लात मारकर निकाल दिया... और जिसे ये मुंह चिढ़ा आये थे, अब उसीके सामने इतने घिघिया क्यों रहे हैं ? और....क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली है ? मैं उन दिनों की कल्पना करने लगा जब इन दोनों ने भागकर शादी कर ली होगी और एक कमरे में अपनी गृहस्थी शुरू की होगी । क्या देखा था वहन ने इनमें ? क्या सचमुच कोई क्रांति घटित हुई होगी इन लोगों के जीवन में ? या दूसरे ही दिन से इन्होंने पछताना शुरू कर दिया होगा ? क्या इसी सामाजिक स्वीकृति की सनद के लिए मुझे ढूँढ़कर नहीं बुलाया गया ? क्या उस लड़की ने अपने मां-बाप की इस तड़प को वाहियात नहीं समझा होगा—जिसकी शादी हो रही है ? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वच्चे पूछते हों—मां, अपने कोई रिश्तेदार नहीं हैं क्या ? हैं तो अपने यहां आते क्यों नहीं ? अपन लोग कभी उनके यहां क्यों नहीं जाते ? हमें कोई चिठी क्यों नहीं लिखता ?

वहां मैं बुजुर्ग हो गया । लड़की का मामा । सब कुछ मुझे ही करना था !

सब कुछ मैंने ही किया । मेरे पास चार-पांच बच्चे थे वस । बारात वाले मुझे बुलाकर कुछ रस्मों के बारे में पूछते । मैं शादी - व्याह की रस्मों के बारे में बहुत कम जानता हूं । अंधे आत्मविश्वास से एक को हाँ एक को ना करता गया । लिहाज़ा कई ऐसी रस्में करता दीं जो होनी ही नहीं थीं, और कई ऐसी खा गया जिनकी वहन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी । खा गया तो खा गया । विवाह का भत्तलव तो गपड़ शपड़ है । क्या फर्क पड़ता है ? कवीलों की प्रथाएं हैं जो दोहरा रहे हैं खामखां । मैं सर्वेसर्वा हो गया तो क्यों न थोड़ी खिलज्जा उड़ाता ?

लेकिन वह लड़की जिसकी शादी होने वाली थी—और जिसका मैं नाम तक नहीं जानता था—अब एक रस्म थी कि उसे मैं गोदी में उठाकर ढूलहे के चारों तरफ कुछ चक्कर लगाऊंगा । पता नहीं कितने । मैंने इससे पहले कभी किसी जवान लड़की को गोद में नहीं उठाया था । मैं जरा मुश्किल में पड़ गया । मैं सोचने लगा कि यह क्या सोचेंगी ?

खड़े-खड़े मुझे ख्याल हुआ कि लड़की रो रही है । आसपास हम दोनों के सिवा कोई नहीं है । मैंने पूछा—ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है ? कोई जवाब नहीं । मैंने पूछा—तुमने लड़के को पसंद किया है ? कोई जवाब नहीं । देखा है ? कोई जवाब नहीं । तुम्हारी राय ली गयी है ? कोई जवाब नहीं । तुम किसी—घूँघट उलटकर कातर घटिट से उस लड़की ने मुझे देखा—मामाजी...मेरे सामने तो वे मौके भी नहीं हैं जो मम्मी के सामने थे । इस बात का महत्व ही क्या है कि लड़का मुझे दिलाकर मुझ से 'हाँ' कहलवा ली गयी या नहीं । पर मैं पूछती हूं अभी शादी करना ही क्यों जरूरी है ? अभी मैंने सिर्फ़ दसवां पास की है । क्या पापा मुझे कालेज नहीं भेज सकते थे ? मैं ग्रेजुएट होना चाहती हूं । दीचर बनना चाहती हूं । क्यों मुझे अभी से वहां गोवर शापने और बच्चे पैदा करने और उनके पोतड़े थोने और घूँघट मे घुट्टे रहने भेजा जाना जरूरी था ? क्यों ये लोग इस बात से डरते हैं कि मैं पढ़ गयी तो किसी के साथ भाग जाऊंगी ? क्यों ये असने इतिहास की छायाओं ने हमें बचाना चाहते हैं ? हम तो उस पर शर्मिदा नहीं । ये लोग क्यों-हैं ?

मेरे पास उस लड़की के सवालों का कोई जवाब नहीं था । यदि होता भी तो कोई खुग करने वाला जवाब नहीं होता । पर सवाल मुझ से पूछा हो कहाँ गया था ? यह तो मेरे दिमान्न ने एक फितूर खड़ा कर दिया था पल दो अर्याचित

पल के लिए। मेरा दिमाग ही खराब है। वरना वाकी लोग भी तो थे, तमाशे में मगन, रस्मों को चूसते हुए।

वहन पचास जगह पचास जनों को बता चुकी थीं मेरा भाई आया है। उनके पति हाथ-पांव फुलाये धूम रहे थे या झगड़े मोल ले रहे थे। और मैं? आवभगत और वारात वालों की—चाहे उनमें कुछ चुगद ही थे—मक्खन वाजी में लगा था और बात-बात पर हैं-हैं कर रहा था। सारा स्वाभिमान और सारी प्रगतिशीलता और सारी क्रांतिकारिता मैंने पता नहीं कहां धुसेड़कर छुपा ली थी। वहन के लिए और लड़की के लिए हर पल मेरा ढेरों खून जल रहा था। वह भी क्यों नहीं भाग गयी? पर मियां...जब तुम्हारी वहन भागेगी...उफ! हमारे विचार कहां हैं और आदर्श कहां और आचरण कहां और हम कहां??

वहन चकरधिनी बनी हुई थी और उनके पति एक-एक रस्म के लिए छोटी से छोटी रस्म के लिए पंडितों पर जोर डाल रहे थे और दक्षिणानुसियत के अवतार बने जा रहे थे। मुझे कोफ्त होने लगी कि क्यों आ गया?

प्यास लगी तो किससे मांगता? दोनों बच्चे जो मामाजी को लाड कर रहे थे, इस बक्त न जाने कहां थे। धूस गया और एक कोने में से एक जूठा गिलास उठाया और एक भगोने में डुबाया और बगैर देखे पी गया और अंधेरे वस्केटवाल कोर्ट में आकर चार कुर्सी मिलाकर पसर गया। बदन दुख रहा था। सारे लोग फेरों के लिए अंदर आंगन में चले गये थे। बच्चे इवर-उघर लुढ़क गये थे। सिगरेट सुलगा ली।

वह लड़की फिर आ गयी। दुल्हन की लकदक में। शायद पंडितों ने अभी उसे नहीं बुलाया। प्रारंभिक पूजा-पाठ में भी कितना समय लगा रहे हैं। इस हिंसाव से सुवह के चार बजेंगे। लड़की आकर मेरे एकदम पास खड़ी हो गयी। इस बार न पहले जैसे तेवर थे न धूंघट। एकदम परिणिता लग रही थी।

अच्छा मामाजी, मान लो मैं घर से भाग भी जाती, या किसी लड़के को चाहने भी लगती, और भाग कर उससे शादी भी कर लेती तो वह इस शादी से किस तरह श्रलग होती? क्यों आप उस तरह की शादियों को इतना अच्छा समझते हैं? क्या बुरा किया पापा ने? जब मरना ही है तो वहीं क्यों न मरो जहां चार जने कंधा देने वाले तो मिल जाएं!...वोलो न मामाजी!

—मेरे पास तुम्हारे सबालों के जवाब नहीं हैं। क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। न मुझ में इतनी हिम्मत है कि कहूं भाग कर मेरे पास आ जाओ, आकर रहो,

कालेज जाइन करो, जो बनना चाहती हो वनो, मैं हर संभव सहायता करूँगा । पर मैं तुम्हारी जगह होता तो असुरक्षा के डर से इस तरह कांपने नहीं लगता, यह तय है ।

वह हंसी । खिलखिलाकर हंसी । जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो । और लहरा कर चली गयी ।

बड़ा वच्चा मुझे भिखोड़ कर जगा रहा था । चाय लाया था । मेरे लिए । होटल से ।

मरो । सब मरो मेरी बला से । मैं ढीझ गया ।

सुवह विदा हुई । सब रोये । वह लड़की मुझसे भी लिपटकर रोयी । बतौर रस्म । और फिर भाइयों से लिपटकर रोने लगी । उसके दूल्हे ने मेरे पांव छुए । मैं उसका ममिया ससुर था । मैंने खारह रूपये दिये । उसने ले लिये ।

इसे कहते हैं साला पतन । सुरक्षा का ख्याल दिमाग की सारी बुलंदियां दबोच लेता है । चाहे अपनी सुरक्षा का ख्याल हो चाहे दूसरों की । लगा जो सोचकर आया था....कि समाज द्वारा प्रत्तिवित वागियों को ये एहसास कराने जा रहा हूँ कि समाज वह ही नहीं है जो उनको जीवनभर आवंकित करता रहा है वल्कि समाज हम भी हैं जो उन्हें सही समझते हैं...उस एहसास की यहां किसी को ज़रूरत ही नहीं है ।

थोड़ी देर बाद मेरी भी विदा हो गयी । अगले दिन ड्यूटी जाइन करनी थी ।

मुझे अधूरे काम याद आने लगे । यहां न आता तो वे पूरे हो जाते ।

□ चित्रा मुद्गल

## ज़हर ठहरा हुआ

दूसरी लांधने ही जा रहा था कि यकायक ठिक गया ।

किसी के उवकाने के तीखेन्तीखे स्वर करेरे-करेरे से खिच रहे थे । लगा भीतर मथती उमथाहट कलेजे ममेत बाहर आ जाना चाहती है लेकिन जुबां तक आते ही पनियाती-पनियाती पलट पड़ती है । कौन हो सकता है ? अनी ? अनी ही होगी, सुवह कालेज के लिए तैयार हो रहा था तभी उसने भूमिका बांधी थी—लो अब भुगतो । आठ-दस दिन ऊपर हो रहे हैं । वह चींका था और सशंकित दृष्टि अनी पर टिक गयी थी ।

—यकीन करो ।

—मगर कैसे हो सकता है । कहीं तारीख तो गड़वड़ नहीं कर रही ?

—गड़वड़ कौसी स्पष्ट तो है । चौदह को होली जली थी...पंद्रह को रंग चला । उसी रात की तो वात है...याद करो । भन्नाये ये, साली होली वेकार गयी...और पंद्रह से पंद्रह महीना हो गया । आज अठार्डैस है । मुझे तो हर बार चार पांच दिन पहले ही.....

—हम तो पूरी सावधानी बरतते हैं । परेशान होते हुए उसने कहा ।

—फालतू वात मत करो । एक बार की याद है.....सब्र था...कितना मना किया पर माने ? तब तो अपने आप को बड़ा जानकार समझते हो । कुछ नहीं होगा ये दिन बड़े सेफ होते हैं...अब.....

—अरे नहीं । सब ठीक होगा । उसे आश्वस्त करने के बहाने स्वयं चित्रा मुक्त होना चाहा ।

—सोच लेना । कोई बात है ही तो देरी करना उचित नहीं होगा न ।

कालेज से लौट कर बात करता हूं, कहते हुए वह तत्परता से नीचे उतर गया।

आवाज नहान से आ रही थी। लंबूतरा आंगन सीमेंटेड है। जेठ की दोपहर में फर्श इतनी तपती है कि बिना खड़ाऊं के कोई पांव नहीं रख सकता वहां। सदियों में धाम के सरकते टुकड़ों में, खटोले भी सरकते रहते हैं। रौनकों से लदे-फदे खमसारों की छाया से गुजरता वह नहान की तरफ बढ़ा। घुमड़ता स्वर स्पष्ट होने लगा। तवियत वेहद विगड़ी हुई है और घर कितना चियाया पड़ा है। ठंडा कोना ढूँढकर सब सो-सा रहे होंगे। आवाज कान में पड़ी भी होगी तो उन्हें क्या मतलब? किसी को किसी की फिकर नहीं। अम्मां को तो बहुओं से वैसे भी लगाव नहीं दिखता। बस रात दिन आजी की सेवा सुश्रुषा में व्यस्त रहती हैं। जब से उनका हगना-मूतना खटिया पर चल रहा है, वे अन्य झंझटों से भी निलिप्त हो गयी हैं।

नहान के भीतर झांका अनी को पुकारने ही लगा था कि अम्मां को देख स्वर गले में घुटक गया। माथे पर बल पड़ गये। आँखें गहरी और छोटी हो गयीं। उनकी डिगहाई धोती का पल्जा पीठ पर लटका हुआ, नहान के ऊबड़-खाबड़ फर्श पर सिमटे जमे पानी में लिथड़ रहा था। घूँघट में छिपे रहने वाले खिचड़ी वाल अंगुल रिवन बंधी चुटिया में गर्दन के नीचे झुकने और फिर उठने की प्रक्रिया में उठ-बैठ रहे थे। वे थुह.....थुह.....थुह कर थूक रही थीं?

वह पलटा। शिराओं में यक-वयक पिघला हुआ लावा वहने लगा। दूसरा ख्याल पुख्ता ही नहीं हुआ कि हो सकता है गर्मी खा गयी हों या खाने पीने में कुछ गड़वड़ हो गयी हो। हैंजा भी तो बुरी तरह फैल रहा है इस इलाके में।

अपने कमरे तक पहुँचते-पहुँचते पैरों की घमक बजनी हो उठी। शरीर को लगभग घसीटता हुआ ही लाया। पदचाप अम्मां तक पहुँची जरूर होगी। मुड़कर देखा भी हो शायद। उनका ढाई साल पुराना रूप याद हो आया..... शन्नो का अस्तित्व समेटे उनका पेट डवल रोटी सा फूल गया था। वे चलती हुई नहीं लुढ़कती हुई महसूस होती? ठसके कद ने उनकी बेड़ीलियत में रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। उन पर जब जब निगाह पड़ती, वह शर्म सकोच से सिकुड़ने लगता। सामने पड़ जातीं तो पूरी कोशिश होती कि

व्यस्तभाव प्रदर्शित करता हुआ कंनी काट ले। वे रोक लेतीं और कुछ कहने को होतीं तो हूँ-हाँ करने में भी अजीब दिक्कत महसूस करता। दृष्टि कभी अलगनी पर फैले कपड़ों पर जा टिकती या खमसारों के पलास्टर भरे खंभों से जा लिपटती। अम्मां की समझ में आने लगा था। उसने समझा जो दिया था। चुप्पा तो वह है नहीं और न कभी रहा है।

तन्हावाह मिलते ही घर के हिस्से की किश्त उसने पहली बार अनी के हाथों भिजायी थी। अम्मां ने पैसे उठा कर फेंक दिये थे। अनी ने अपने हाथ पैर जोड़कर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी कि उन्होंने दिये, मैंने आपको लाकर दे दिये। मैं बीच में कहाँ आती हूँ। ऊपर बैठे हैं चल कर बात कर लीजिए। न लेने हों तो उन्हें ही लौटा दीजिए। अम्मा ने घर सिर पर उठा लिया। चीख-चीख कर रोने लगीं। अनी रुधांसी दौड़ती सी कमरे में छुसी थी और धम्म से पलंग पर गिरते ही फूट-फूट कर रोने लगी। वह मनाने के लिए आगे बढ़ा तो हाथ झटकते हुए बोली—छूने की कोशिश की तो अटारी से नीचे कूद जाऊंगी.....माँ बेटे के नाटक से मुझे क्या सरोकार.....जो कुछ कहना सुनना है खुद हिम्मत करो। मेरी फजीहत क्यों करवाते हो? आगे से मुझे बीच में धकेला तो मुझ से बुरी.....।

कमरे का दरवाजा भिड़ा हुआ था। उसने देखा अनी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं। उसने बोभिलता झटकी और अतिरिक्त सहजता ओढ़ ली। पुरानी मानसिकता में वह कर्तव्य नहीं लौटना चाहता। मुमकिन है अम्मां के प्रति उसकी अशका वे सिर पैर की हो। भयंकर लू के दिन हैं.....नहीं...है वही .....अम्मां को और कुछ हो नहीं सकता। हैजा भले ही सारे घर को हो जाए उन्हें फिर भी नहीं छू पायेगा।

अनी कोहनी आंखों पर रखे चित्त सो रही थी। दाहिनी बांह शन्नो को बगल में लपेटे हुए थी। मेंढकी सी चिपटी शन्नो के शमीज का घेरा गर्दन को ढ़के हुए था और धुंधराले वालों के बेतरतीब छल्ले टेब्ल फैन की हवा से फरफरा रहे थे। गंहरे कंथव्य रंग की भालर वाली कच्छी कमर से कुछ ज्यादा ही खिची हुई उसके गोल मटोल बजूद को मामूलियत से सरावोर कर रही थी।

‘वड़ी भाभी उसे अक्सर छेड़ती है—कुछ भी कहो, यह पेट पोंछन गयी भल तुम पे है लाला। पुतलियों का भूरा रंग तक नहीं छोड़ा.....तभी मन हुआ

कि शन्तों की आँखें देखे । अम्मां से बोलचाल नहीं है । शन्तों से भी नहीं । इच्छा ही नहीं होती । कभी इच्छा होती भी है कि उसकी रिवन बंधी नन्हीं नन्हीं चुटियां पकड़ चेहरे को झकझोर दूँ...गालों पर चुटकी भर दूँ.....रवितम कानों को जी भर कर चूम लूँ.....मगर तभी शन्तों चून्य हो जाती है । अम्मां का डबल रोटी सा फूला पेट उभर आता है, जो शन्तों को छूने से रोक लेता है । वह अजीब सी धूणा भाव में जकड़ा जाता है । लगता है कभी आवेशवश हाथ बढ़ ही गये तो उंगलियों में देह की सुगंब नहीं एक जहरीली लिसलिसाहट चिपट जाएगी जो धीरे-धीरे उसकी पूरी देह को फकोलों से भर देगी ।

बांटो वह शीशे के सामने खड़ा अपनी आँखों को निहारता रहा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हो सकता है शन्तों की पुतलियों का रंग भूरा हो पर उसकी पुतलियां हरगिज भूरी नहीं । भाभी की इष्टि कमजोर नहीं तो 'कलर बलाइनेंस' शर्तिया है । शन्तों से वह कोई साम्यता नहीं चाहता । चाहना तो दूर संभावना तक सहन नहीं होती । और भाभी हैं कि एकदम उससे जोड़ देती है ।

छः भाई वहनों में वह सबसे छोटा है (अब नहीं रहा । शन्तों ने उसे इस एकाधिकार से बंचित कर दिया है) । उसे अच्छी तरह याद है । आठेक साल का रहा होगा । काकी को पुप्पा हुई थी । बचपन की घुन्नु । सौर के के मुहारे खड़े-खड़े वह उस गोल-मटोल गुड़िया को लगातार तीन चार दिन तक देखता रहा था और गोद में खिलाने के लिए बैचैन होता रहा । सबने उसे मना कर रखा था कि वह न तो भीतर धूसे और न ही बच्चे को छुए । कितु एक दोपहर जब सभी अपने-अपने ठौर पड़े नुस्ता रहे थे और घुन्नु को बगल में लिटाये काकी भी झपकी ले रही थी, वह सौर में धूस गया । घुन्नु को गोद में उठाया और भागकर ढुँघत्ती में जा छिपा । घुन्नु न रोती तो वह देर तक उसकी चुम्मियां लेता रहता । उसके छोटे छोटे रुई के फाहों से नर्म गुलावी पैरों को सहलाता रहता ।

बड़ी बुआ ने बेरहमी से घुन्नु को उसकी गोद से छीन लिया था । एक हाथ से कान उमेठे रहीं और दूसरा उसकी गालों पर तड़ातड़ चटकाती रहीं । अम्मां ने आगे बढ़कर उसे बुआ से छुड़ा लिया था । बड़ी देर तक वह उससे लिपटा रोता रहा । समझ में कर्तई नहीं आया कि एक बच्चा सामने लेटा हो और उसे

छुआ नहीं जा सकता, खेलाया नहीं जा सकता। यह कौन सा नियम है कि वहां जाया भी नहीं जा सकता।

—काकी बच्चा कहां से लायीं? उसने अम्मां से पूछा था।

—वाजार से खरीदकर। अम्मां का जवाब था।

—तो तुम भी एक घुन्नु खरीद दो। मुझे चाहिए। मैं काकी की घुन्नु को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा।

—ठीक है ला दूँगी। जरा पैसे जोड़ लूँ। खूब लगते हैं। अम्मां ने समझाया था। मगर कुछ ही दिनों बाद वह अपना आग्रह भूल गया था। घुन्नु सौर से बाहर आ गई और उसे न छूने की सारी वर्जनाएं टूट गयीं।

वर्षोंपरांत जब नितांत अपनी घुन्नु की चाहत का बाल सुलभ हठ यथार्थ में अंकुरित होने लगा तो इस उम्र में छोटी वहन पाने की कल्पना किसी क्रूर श्राप की धिनीनी त्रासदी सी कालिख पोतने लगी। सबसे बड़ी जिज्जी चार बच्चों की मां है। जो अपनी बड़ी बेटी के हाथ चार साल पहले पीले कर चुकी हैं। उससे छोटे उमेश की शादी उसी साल हुई जिस साल उसका तिलक चढ़ा। बड़े और मंभले भैया के बच्चे भी कालेज जाने लगे हैं। गीता और सुषमा क्रमशः एक और दो बच्चों की मांएं हैं। उसकी शादी का चौथा साल है। बच्चे नहीं हुए तो सिर्फ इसी वजह से कि उसने और अनी ने नहीं चाहे।

शादी की पहली रात को ही तय कर डाला कि जब तक 'थीसिस' पूरी कर 'सवमिट' नहीं कर डालता और प्राध्यापक नहीं बन जाता। वह बच्चे के विषय में कर्तव्य नहीं सोचेगा। भूले-भटके गड़गड़ हो ही गयी तो 'क्यूरिटिंग' करवा देगा।

—आगे नहीं हुए तो? अनी ने संशय प्रकट किया था।

—अनाथालय से ले आयेंगे। उसने सहज उत्तर दिया था। तब अनी मैट्रिक पास थी। शादी के पहले साल ही उसे 'फर्स्ट ईयर' परीक्षा में प्राइवेट कैंडीडेट के रूप में विठवाया। पढ़ाने में उसकी भरसक सहायता की। और नतीजन सारी घरेलू उलझनों के बावजूद भी वह पास हो गयी। फिर वह खुद ही उत्साह से भर गयी। कस्वई सपनों के दायरों में सहासागर का विस्तार सरहदें तोड़ने लगा। इंटर भी हो गया। बी० ए० की तैयारी हो रही है।

अम्मां हैं। न कुछ सोचना चाहती हैं न कुछ समझना। वह दूसरों की भावनाओं की कद्र करना तो जानती ही नहीं। कारण हठवादिता भी हो

सकता है। उनकी बेशर्मी के कई जीवंत क्षण उसे भूलते ही नहीं। सामने जवान बेटा खटिया पर बैठा हो तो.....नाऊन काकी को मना कर सकती थीं। आजी को इशारा कर सकती थीं या फिर बजाय वहां बैठे-बैठे मुस्कराने के उठ कर जा सकती थीं। मगर वे.....।

तब सर्दियों के दिन थे। गुनगुना धाम था। खटिया पर टांगे लटकाये वह 'थीसिस' से संवंधित संदर्भ पुस्तक पढ़ रहा था। नाऊन काकी की हुलसाहट ने तन्मयता भंग की।

—अई दुल्हन। तुम्हुकु कुछ है का? नाऊन काकी का हाथ अनी की साड़ी के 'प्लीटस्' के उभार पर था। अनी ने झेंप कर उसका हाथ झटका था और भीतर भाग गई थी।

चाय खत्म नहीं हुई थी। वह वहां से हटने की सोचने लगा। नजरों को जबरदस्ती कित्ताब में अटकाये रखा वह एकाएक उठ भी तो नहीं पा रहा था। तभी नाऊन काकी का जुमला जड़ कर गया—बधाई ही जिया, सास-बहुरिया का 'जापा' ऐकै सौर म निपटि जाई। फिर उसकी ओर कटाक्ष कर हंसी—हम तो तुमसे 'नेंगे' लायलोन की दुई साड़ी लेवै छोदू! ऐक मेहरिया कै, एक महतारी कै।

—छिनार! वहि से नेग-नेगार कै बात काहे करति है? दे-ले वारी अवै तो हम जिदा बैठी हूँ। आजी की पोपली हिनहिनाती आवाज़ से उत्साह छल-छलाया पढ़ रहा था—नाती-पनाती साथे होई तो तोहिका बनारसी पहिराय देवै.....मुतला, छोदू के बहुरिया के सच्ची कुछो है क्या?.....जवाव अम्मां ने दिया। पटरे पर बैठीं ब्रिया कद्दूक्स कर रही थीं—'नाऊन काकी कै बातें... कुछ नहीं है वहिकै। और हंसने लगी थी—एक नेगे गा.....'

—कौन महींना है, दुलहिन?

—तीसर। जवाव आजी ने दिया—छोदू कै पीठ भरी.....पूरी है...., खं, खं, खं, खं,...खासने लगी थी।

—उत्तर बैसाख तक जायी...कै दुलहिन? आजी ने घरघराते गले से प्रश्न किया और अम्मां की तरफ सही है न, वाले अंदाज से देखा।

वह बैठा न रह सका था। अम्मां ने उसके लिये फिर चाय चढ़ा रक्खी थी। सुबह आंगन में धूप सेंकना और लगातार चार-पांच कप चाय पीना ही छुट्टी का शुगल होता है।

अम्मां ने पीछे से आवाज लगायी थी। जवाव उसने नाऊन काकी को जहर ठहरा हुआ

दिया —‘ऊपर भिजवा दो काकी’ तभी लगा था, अम्मां किसी ऐसी औरत में तबदील हो चुकी हैं जिसे उसने आज से पूर्व कभी नहीं देखा.....अम्मां का चेहरा बदल गया। आवाज बदल गयी...चाल-ढाल वह नहीं रही.....कितनी बदसूरत और खौफनाक हो उठीं वे।

किताब उठा कर घर दी थी उसने। पैरों पर रजाई डाल विस्तर पर लेटे-लेटे छत को घूरता हुआ सोचता रहा। इस उम्र में क्या शौक चर्चिया है उन्हें? वे छः भाई वहन हैं.....वच्चों के बच्चे हो रहे हैं.....और उनके भी। बूढ़ी-बढ़ऊ शर्म हया धोंट कर पी गये हैं?.....

उसी रात उसने अनी से कहा था तुम अम्मा को समझाती क्यों नहीं ?  
—क्या समझाऊं ?

—यही कि.....। वह कह नहीं पा रहा था। अम्मां के लिये इस संदर्भ में किसी भी तरह की बातचीत उसे असमंजसता में डाल रही थी।

—यानी ?

—आजी बता रही थी कि तीसरा महीना है.....सब के सामने बात जायेगी तो.....वेहतर है कि वे ‘क्यूरिटिंग’ करवा लें। बस एक दिन का तो काम है.....खर्चा भी ज्यादा नहीं लगेगा। मैं दे दूँगा.....तकलीफ भी नहीं होगी.....किसी को भनक भी नहीं लगेगी....., वह सारी बात, सारी घुमड़न एक ही सांस में कह गया। फिर खुद पर अचंभा भी हुआ। यही सब कहने के लिए वह पूरा दिन सोचता रहा और अनी से कहने की हिम्मत बटोरता रहा था।

—मेरी शामत आयी है क्या ?

—क्या मतलब ? अनी के जवाब की तटस्थिता ने उसे भड़का दिया।

—भड़कने की जरूरत नहीं है। जो भिखक तुम्हारे आड़े आ रही है, वही मुझे भी पस्त कर रही है। बड़ी जिज्जी से उनकी पटती भी ज्यादा है उन्हें समझा दो। अकेली वही कहने की हिम्मत कर सकती हैं.....

—यह भी ठीक है। सुझाव दुरुस्त लगा था।

घर पहुंचा तो अनी ने फौरन कमरे में पहुंचने का इशारा किया था और उसके आते ही किवाड़ भिड़ा, उसने एक सांस में ‘सारी घटना ज्यों की त्यों सुना डाली थी।

—गनीमत है, तुम सामने नहीं थे। वरना.....अम्मां ने रो-चीख कर घर उठा लिया.....अरे वहि दहिजार कै हिम्मत कैसी परी रे.....वेटवा-वेटार तौ भगवान का परसाद होती है नहीं तो मनई तरसि जात है.....देवी-देवता मनावत है.....कथा भागवत सूनत है.....टोना-टटका करत है। तौनेझ पै नहीं नसीब होति है.....आँ फिन अबै तौ जिया बैठी है छांह घरे.....हमार तीज-त्यौहार करे वाली.....नेग-न्यौछावर घरे वाली....पैदा करि रहैन है तौ का इन लट् लुमड़न कै भरोसे ? जिनका अपनी भेहरियन कै चूतड़ चाटै से फुरसत नहीं मिलति .....?.....

—वड़ी जिज्जी की जो दुर्गति की अम्मां ने.....तौवा। अभी तक वे अपने कमरे की कुँड़ी चढ़ाये भूखी-प्यासी भीतर बंद हैं.....और यह भी कहा—तुम्हें रहना है तो रहो नहीं तो अपनी मायी (अनी को) को लेकर कहीं अलग ठौर ठिकाना कर लो !.....

—भाड़ में जायें। वह भुनाया —और दो चार पैदा कर ले। बूढ़ी तो उनकी बहुयें हो रही हैं। उन पे तो बुड़ापे ज्ञा सुरमा सज रहा है।

अलग होने की धौंस का स्याल आया.....

चुरू में अनी को इस घर में तमाम दिक्कतें महसूस होती रही 'नहान' में दरवाजे नहीं थे। 'टट्टी' के लिये तड़के लोटा ले खेतों में जाना होता। वह लड़ती। यूँ खुले में नहाना और वह भी वह का, कैसे हो सकता है ? वह दरवाजे की आड़ देने के लिये खुले हिस्से में भारी भरकम खटिया खड़ी कर देती और उस पर चादर या धोती पसार देती। सारे घर को खबर हो जाती कि इताहावाद वाली नहा रही है.....

रोज दर रोज अनी तुनकती—मुझ से नहीं होता कि लोटा लटकाती खेतों में जाऊँ। एक टट्टी भी नहीं बन सकती क्या ? वह उसे औरों के 'एडजस्टमेंट' का उदाहरण देता तो वह पूछती—जो औरों के लिये ठीक है, वही मेरे लिए उचित है। यह कैसे मान लेते हो ?

एकाघ बार उसकी परेशानियों में खुद को रख कर सोचा तो वे उसे बाजिव लगीं थीं और यह भी कि पति होने के नाते उसकी तकलीफें नजर आंदोज करना गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी। वह कालेज के आस-पास एक या दो कमरे का अच्छा मकान ले सकता है और अनेजाने की लंबी भाग दौड़ से भी बच सकता है। मगर अम्मां से इन कारणों और सुविवाहों के

लिए अलग नहीं हो सकता। तब न अनी इतनी महत्वपूर्ण हुई थी न तकलीफों को फेहरिस्त। युनिवर्सिटी में पहुंचने की जदोजहद तो जारी है ही उस बक्त बाहर जाना उचित होगा।

वह आखिरी दिन था। जब न तो वह अम्मां से बोला। न अम्मां ने ही अपनी तरफ से कोई पहल की। हमेशा की तरह तन्त्वाह वाला दिन आया तो उसने वैसे अनी के हाथ से उन तक पहुंचाये थे। उन्होंने तिस पर भी हँगामा खड़ा कर दिया...मगर उसके बाद अपने और उसके बीच उन्होंने अनी को बतौर माध्यम स्वीकार लिया था। वे समझ गयी थीं और शायद खूब समझ गयी थीं कि वे चाहे जितना बोलने और बुलाने की कोशिश करें। वह हाँ-हूँ से न आगे बढ़ सकता है न ज़ाहिरी तौर पर उनके गैर ज़रूरी 'कृत्य' पर क्षमा ही कर सकता है। घर के माहौल से कन्नी काट उसने स्वयं को अटारी बाले कमरे में सीमित कर लिया था। शन्नो पैदा हुई थी...उसे पता भर चला, अम्मां अस्वस्थ हुई...डाक्टर सिन्हा देखने आये...अम्मां ठीक हो चलीं, वह 'थीसिस' के सिलसिले को लेकर अधिक व्यस्त बना रहा। अनी शन्नो को कभी-कभार कमरे में साधिकार ले आती बाबूद उसकी अरुचि के। क्लेश से बचने के लिये इस बावत भी चुप्पी साध ली। वैसे भी जब वह पढ़ रहा होता या लिखने-लिखाने में व्यस्त होता, अनी उसे ऊपर नहीं लाती। मगर वह अनी को शन्नो से कुछ अधिक जुड़ता महसूस कर रहा था, ऐसी तब्दीली के लिए वह अपनी व्यस्तता को ही कारण मानता।

एकाध बार उसके शन्नोपन की पराकाढ़ा ने उसे कचोटा भी। कालेज के लिये निकल रहा होता और वह फरमाइश कर देती—लौटते हुए जरा डेढ़ गज काली रिवन तो ले आना, साटन की नहीं, नायलोन की। या फिर—टीन की एक छोटी सलेट ला देना 'चाक' से कुछ खींचती-खांचती रहेगी।

—मेरे पास इन फालतु कामों के लिये कर्तव्य समय नहीं...दिन भर कोई न कोई बजार जाता रहता है...किसी से भी मंगवा सकती हो, समझी? वह गुस्से में भन्नाया था।

और फिर पूरे रास्ते आत्मग्लानि में घुलता रहा। अकारण अनी पर विगड़ने का तात्पर्य? ऐसा तो कुछ नहीं कहा था बैचारी ने, महज कुछ चीजें शन्नो के लिये मंगवायी थीं? वह एक अजीब सी मानसिक असंवद्धता में जकड़ा महसूस करता। जरा सी भी कोई बात उसे तोड़ देती। दुखी

कर देती और वह तनाव से खिचा-खिचा फटने लगता।

यद्य हो आती सहकर्मी शर्मा की शन्नो के जन्म पर दी गयी बधाई। कोशिश कर के भी वह अपने गुस्से पर काढ़ नहीं रख पाया था, उसका साधारण मजाक उसे भीतर तक बेंधता चला गया—यार, मान गये तेरे दददा को, हमें तो इस ऊपर में जड़ी-बूटी लेनी पड़ेगी.....पर सच्ची बताना यार। मजा आ जाता होगा न...ऊपर तुम लोग लगे हो—और नीचे बूढ़ी-बुढ़ऊ...

—यू बास्टर्ड...। उसने शर्मा का कालर दबोच लिया था—गर्दन अलग कर दूँगा...

शर्मा ने बुरा नहीं माना, हंसते हुए उसका हाथ अलग कर दिया—ऐंठ क्यों गया वे साले ? कैसी-कैसी बोते हुम कर लेते हैं। अपनी हुई तो बदहज़मी हो गयी ? वी सर्पोल्लियार...कल को मेरा वेटा जवान होगा तो सीना ठोक के कहूँगा—पुत्तर। एक गर्ल फैड अपने लिये खोजना तो एक अपने पापा के लिये भी पटाना, अबे गर्व की बात होती है...एक तू है...दिमाग सङ् गया है तेरा...ठीक से रहा कर।

उसी क्षण उसे आभास हुआ था कि वह वद्मिजाज और अशिष्ट हो गया है। वह अंदर्ली तौर पर बीमार है और ऊपरी तौर पर ठहरा, संयत। दोनों ही स्थितियां असहज थीं, खतरनाक भी, यह सही है कि निजी तौर पर वह बड़ा अनुशासनवद्ध दीखता है, चुप्पी के बक्त भीतर हो रहे बाद-विवाद में उलझा सोचता है, अपने ऐसा हो जाने के कारण और खोजता है उत्तरने के तरीके। सारी हलचल एक 'रियलाइजेशन' में खड़ा कर देती है, तब स्पष्ट हो जाता है कि अम्मां से कट जाना उसके उखड़े रहने का आखिरी कारण है। कट जाने के बावजूद भी वह निरतर उनकी उपस्थिति से आक्रांत रहता है, भले वे नीचे—आंगन, दहलीज़, खमसारों, कमरों...चौके में होती हैं और वह ऊपर अटारी बाले अपने बेहद छोटे कमरे में। जबकि वह नीचे भी नहीं उत्तरता। लगता है घृणाभाव का पिछला आवेग लगभग खत्म हो चुका है। कटे रहना आदत में समा गया है और वनी आदत के तहत वह उन्हें निभाते चला जा रहा है। फिर भी अनी से वह उनके विषय में जानना भी चाहता है। मगर सीधे-सीधे न पूछ कर कि वे कैसी हैं। पहले वह आजी की तवियत के बारे में पूछता है। फिर दूदा की फिर दड़े भैया... गुड़ी,

किल्नी, हरीश, काकी, भाभी और...इन्हीं नामों के बीच आहिस्ता से अम्मां को शामिल कर लेता।

अब भी जब कालेज से लौट कर सीधा ऊपर जाने लगता है तो यह ख्याल हर बार आता है—पहले वह नीचे ठहरता था। अम्मां से सिफ उन्हीं के हाथों की चाय पीता। वे कभी किसी काम में उलझी होतीं और किसी बहु या लड़की को आवाज़ दे देतीं कि चाय का पानी चढ़ा दे तो वह जोर द्वार से ऐलान कर देता कि वह उस चाय को हाथ भी नहीं लगायेगा। अनी अक्सर उस के अम्मांश के इन प्रसंगों पर तुनकती। और कहती कि उसके रहते वह उन्हें क्यों तंग करता है। घुमा-फिरा कर वह इसे उपेक्षा के रूप में लेती...

...वरसों हो गये झोल वाली उनकी खटिया में उनसे सट कर लेटे... चौके में खाना खाये...उनसे पैसे मांगे—झटक देती थीं—जा अपनी मेहरिया से ले।

दिल का कितना मजबूत हो गया है। मजबूत या ढीठ? ढीठ ही शायद। 'नहान' के भीतर अम्मां हाल वेहाल जिस तरह उकला रही थीं, पिछले दिन होते तो वह धूम कर पलट जाता? दौड़ कर उनके कंधे पकड़ लेता... पानी से लोटा भर कुल्ला करवाता...चेहरा धुलवाता....सिर का सरक गया पल्ला खींच देता...गोद में भर उठा लाता...खटिया पर लिटा देता....ऊपर से 'टेविल फैन' नीचे मंगवा कर ठीक उनके सामने रखवा देता...

ऐसी अस्वस्थता ने जिस कुशंका की खरोंच से उसे संशक्ति किया। वहां पिछले दिनों का मुक्त दुराग्रह जो धृणा भाव को तिलांजलि दे मात्र आदत भर बच रहा था, फिर से फन-फना कर जाग उठा, अम्मां...के प्रति भीतर की सारी सहजता एक ही झटके में भुरभुरा गयी...वह इस बावत इतना भावुक क्यों हो उठता है? अन्यों को अम्मां के इस पक्ष पर न आवेशपूर्ण पाया न कुंठाग्रस्त, सब उसे सामान्य और अपने दायरों में उलझे लगे। एक वही है जो समय, सिद्धांत, अच्छा-बुरा, वाजिव-गैरवाजिव की सडांध समेटे विसूरता रहता है और इसी चिंता में खोया कि लोग क्या कहेंगे? तिर मुकाये निकल जाता है।

प्यास महसूस हुई। उठा। सुराही के मुंह पर औंधे गिलास में पानी उड़ेलने लगा। पानी की कुल-कुल से अनी की नींद उचटी तो झट से उठ कर

वैठ गयी—अरे ।.....कव आये ? खुले वालों को हाथों से मरोड़ 'झड़े' में बांधते हुए उसने पूछा ।

—घंटा भर हो गया ।

—जगाया क्यों नहीं ? पलंग से नीचे उतर साढ़ी की प्लीट्स् ठीक करती हुई बुद्बुदायी—पता नहीं आजकल क्या हो गया है.....इतनी नींद आती है .....क्या लोगे ?

—चाय पिलवाओ तो तुम्हें एक बढ़िया न्यूज़ हूँगा ।

—पहले ही बता दो ? वह ठुमकी ।

—लंबी बात करेंगे ।

अनी सिर पर गल्ला लेती हुई नीचे उतर गयी ।

दिमाग में अम्मां वाला प्रसंग कौधा । अनी से पूछ शंका निवारण कर ले कि क्या सचमुच शन्तो बाली स्थिति की पुनरावृति .....फिर लगा पूछ कर क्या होगा ? जो होना होगा उसे वह बदल नहीं सकता । पहले ही कैन सा बदल पाया । आज मूँड कुछ हल्का है, प्रसन्न भी । हालांकि सुवह अनी ने जिस गड़बड़ का संकेत दिया था, उसे ले वह दोपहर तक चिंतित रहा । फिर इस निश्चय पर पहुँचा । गड़बड़ अगर हो ही गयी है तो 'क्यूरिटिंग' आदि के चक्कर में नहीं पड़ेगा । लेट्स बेलकम दिस गड़-बड़.....यह निर्णय महजता से जायद इस बजह से भी ले पाया कि डा. मजूमदार का पत्र उसे दोपहर से पहले कालेज में मिला था । उन्होंने सूचित किया था कि अगले सत्र में डी. ए. बी. कालेज में उसकी नियुक्ति निश्चित है । हालांकि यह उनका पिछले दो वर्षों से आश्वासन था । विभागाध्यक्ष होने के नाते चुनाव का दारोमदार उन पर बहुत कुछ निर्भर करता था । थीसिस भी उसने उन्हीं की गाइडेस में पूरी की है । अगले हफ्ते उन्होंने उसे कानपुर भी बुलाया है । मामूली औपचारिकताओं की खाना पूर्ति हेतु इस महीने के अंत तक वह अपनी थीसिस भी समिट कर देगा । टाईपिंग का काम लगभग पूरा हो रहा है । डा. साहब ने उसकी मेहनत के लिये उमे वधाई और शुभ कामनाएं भी दी हैं । और सचसुच.....यह पत्र पाकर वह वेहद खुग हुआ था ।

मन ही मन सोचता रहा है । यहां से निकल जाए तो अच्छा है । अब मौका स्वतः ही हाथ आ गया । मतीश से कह भी आयेगा । दो-तीन कमरों का एक अच्छा सा मकान निगाह मे रखे । अम्मां से दूर रहेगा तो ठीक जहर ठहरा हुआ

रहेगा । अनी सुन कर खुशी से चौंकेगी । इस सोच ने उसे रोमांचित किया ।

रात ही वह कानपुर से लौटा था । खुश और चुस्त-दुरुस्त । थकान के बावजूद विस्तार से भविष्य की सुखद योजनाओं पर अनी से परामर्श करता रहा । उस बक्त वह खासे मूड में था । ....उस के खास मूड में होने की नितांत अपनी अभिव्यक्ति होती है । अनी,.....वाहों में कसी हुई और वह बातें करते-मुनते आहिस्ता से उसके कानों से बालों को हटा उन पर अपने होंठ घर देता ।.....बदन से झरती सिहरन उसे गुनगुना कर देती ।

मकान तीन कमरों का तो कम से कम चाहिये ही । अनो को वह ज्यादा बड़ा लगा । दो कमरों का ठीक रहेगा । मगर लोकेलिटी अच्छी होनी चाहिये । बात दो कमरों पर ही तय हो गयी । घर के मामले में उसका कोई दखल नहीं होगा—यह भी ऐलान कर दिया ज़सने । मुश्किल से एक या दो लेक्चर हुआ करेंगे, तो छोटे से स्टडी रूम में लिखने पढ़ने का काम नियमित करेगा । डा. साहब ने एक विषय सुझाया है कि वह उस पर समीक्षात्मक क्रिताव लिखे.....और अभी से सोचना शुरू कर दे ।

गड़बड़ वाले सिलसिले में अनी की पढ़ाई गड़वड़ायेगी । तो तय हुआ कि उस लफड़े से निवृत हो कर ही वह प्राइवेट इम्तहान वाद में दे लेगी । सारा कुछ सहेज लेगी । वह आश्वस्त रहे । अनी ने पूर्ण समर्पित भाव से कहा तो वह सचमुच निश्चित हो आया ।

बीच में दबी जुबान से अनी ने शन्नो का प्रसंग उठाया तो उसने उसे फौरन घुड़क दिया —वे पैदा करते जायें और हम पालते जायें । यह नहीं होगा । यहां समझौते की गुंजाइश करती नहीं । शन्नो को वह अम्मां से अलग कर कभी महसूस नहीं कर पाता । उसने स्पष्ट कर दिया कि उसका शन्नो से लगाव भी वह अगर भेलता है तो महज इस बजह से कि वह उसकी व्यक्तिगत सीमा का न अतिक्रमण करना चाहता है, न उस पर अपनी इच्छाओं को थोपना । हालांकि शन्नो निर्दोष है, मगर अम्मां को निस्संदेह उसने शन्नो की बजह से नकारा है । वह अच्छी तरह जानती है कि वह अम्मां के बगैर रहने की सोच नहीं सकता था । अनी से कहा भी करता, अम्मां को वह हमेशा साथ रखेगा.....उनके लिये एक कमरा अलग ही लेगा ।

अनी को उसका तर्क कभी गले नहीं उतरा कि अम्मां और ददा के

अनिइच्छत संवंधों के परिणाम का दायित्व वह एक नहीं वच्ची पर क्यों थोप देता है। वह अक्सर लड़ी भी है—अम्मां और दद्दा पर तो वस चलता नहीं, वस चलता है तो इस वच्ची पर। उससे नहीं बोलते.....क्या यह निर्णय गलत नहीं?

और उसने अनी के सामने हथियार डाल दिये हैं। शन्नो के प्रति उसका व्यवहार उसकी भावनात्मक ठेस की प्रतिक्रिया है। उसे शन्नो से द्वेष न होकर भी है। और पता नहीं क्यों वह हरचंद कोशिश के बाद भी इस अनर्गल द्वेष से उबर नहीं पाया। उबर ही नहीं पाता। शन्नो हमेशा नाजायज् संतान की कुरेदन से भरती रहती है। और अपनी इस कुरेदन को वह नये घर तक ढो कर नहीं ले जा सकता—इस संवंध में तुम जिद्द न करो तो बेहतर है।

अनी उसके 'मूड' के ख्याल से चुप हो गयी।

एक तो वे सोये ही बड़ी देर से थे। मुँह अंधेरे ही रोने-पीटने से सारे घर में जगहट हो गयी।

अनी ने भक्भोर कर उसे उठाया—उठो .....उठो न। आजी....., वह समझ गया। आजी को आखिर मुक्ति अब मिली। अनी रुधे स्वर में अपनी वर्फ हुई हयेलियों को उसके दोनों गालों से छुआती हुई बोली—मैंने कभी किसी को मरे हुए नहीं देखा, डर लग रहा है मुझे। वह पूरी तरह नर्वस हो उठी थी।

—मेरे साथ ही नीचे चलो न। मुझे सीढ़ियों पर डर लगेगा अंधेरा...। उसने मिन्नत की।

—अरे। कमाल है। वह उसकी बदहवासी पर हंस पड़ा—इतना डरने की क्या जहरत है? फिर उसकी नर्वसनेस का ख्याल कर वह उठ बैठा।

सीढ़ियों के ऊपर खड़ा रहा तो वह नीचे उतरने को तैयार हुई। आधी सीढ़ियों पर से पलटी...—ऊपर ही मत बैठे रहना। सारा घर जुड़ गया है।

विना जवाब दिये वह कमरे में लौटा। आजी को देख-देख कर वह अक्सर सोचता। इस घिस्ट-घिस्ट के जीने से तो बेहतर है कि वे जल्दी पूरी हो जाएं। मगर अम्मां थी कि दिनभर गूँ-मूत उठाते-उठाते भी उनकी खैरियत के गंडे-तांबीज बंधवाती रहती। और आजी.....? उनकी

अभिलापाओं का अंत था कहीं ? छोटू का व्याह देख लें तो मरे (उनकी शादी इसी लिए जल्दी भी हो गयी).....नन्हे को बेटा हो जाये तो ..... सावित्री को इकलौता पोता हुआ है, मुँडन अपने महादेवन के चौर पर करवा ले तो मरे.....बुन्नु का 'जापा' देख ले.....अनी अभी छूँछ है। कुछ हो जाये तो.....और अब तो उन्हें शन्नो के व्याह की दुर्जिता धेरने लगी थी.....उसका व्याह अपने हाथों कर लेती तो.....पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषने के लिये वे हर बार मरना स्थगित करती रहतीं ।

उसे आजी का वह आक्रोश स्मरण हो आया, जब शन्नो के समय 'आपरेशन' की बात उसने भाभी से कहलायी थी । वे किस कदर शेरनी सी विफरी थीं—कौनो चोरी छिनारा कै आय का जों गिरवा ले ?

रोने-पीटने के सम्मिलित स्वर कुछ अधिक ऊँचे हो उठे । अनी की हिदायत याद हो आयी । उसे नीचे होना चाहिये और वह बदन पर कुर्ता डाल नीचे उत्तर आया ।

आंगन में जमघट किसी मज्जमेवाज के इर्द-गिर्द जुड़ी भीड़ सी घेरा डाले था । अदाजा हो गया । आजी को बीच में लिटा रखा होगा । उसे देख लोगों ने हट कर रास्ता दिया । सांत्वना के कतिपय शब्द उसे संसकेत संवोधित हुए ।

गठरी ढंकी सी आजी.....पांवों के करीब अम्मां थीं । उनका पच्छाड़े खाता रुदन उसे जड़ कर गया । औरतों ने उन्हें संभाला हुआ था । उस पर निगाह पड़ी तो रस्सा तुड़ाये गाय सी बेतहाशा लिपट गयीं ।

पहली बार भीड़ में अम्मां का नंगा चेहरा देख रहा था । हमेशा होठों तक खिंचे रहने वाले पल्ले में जब वे बहुओं के बीच बैठतीं तो लोग भरमा जाते कि सास कौन है, बहुएं कौन सी हैं ।

अम्मां उसके सीने पर दहाड़े मार कर रो रही थीं । उसे महमूस हुआ, भीतर तक कुछ पिघल रहा है जो अनायास कोरों से उगता हुआ कोयों में धुँध सा पसरता-फैलता जा रहा है ।

वे बोले जा रहीं थीं । हूटे-हूटे बावयों में—जिया नहीं रही रे छोटू ॥ ॥ ॥ ॥ छाँड़ि गयीं हमका.....अब हमका दुलहिन कहिके को पुकारी रे देइ ॥ ॥ ॥ ॥.... को हमारा तीज त्यौहार कर री.....को हमरे वरे 'नेग' न्यौछावर घर ॥ ॥

री.....आज हम बुढ़ा गईन रे छोदू, बुढ़ा गईन..... जब तक जिया जिदा रही.....हमका येहे लागत रहा कि हम वहुरिया हन.....रे हुं, हुं, हुं, हुं... दैईया.... ।

....सच ही तो कह रही थीं अम्मां। वह सोच रहा था। जब तक किसी बड़े का साया सिर पर होता है, आदमी बचपना जीता है, जवानी जीता है.....जिस दिन वह नहीं रहता, उम्र अपनी लंवाई ओढ़ लेती है..... व्यालीस साल की दुलहिन, आज अम्मां रह गयी थीं.....काकी, दादी, नानी, जेठानी.....मात्र..... ।

घर में तेरहवी के बाद का अतिरिक्त सन्नाटा था ।

उसने अम्मां को उड़ती-उड़ती दृष्टि से खोजा। कहीं दिखायी नहीं दीं। नियुक्ति पत्र की खुशी सबसे पहले उनसे बांटना चाहता था। और शायद..... वर्षोंपरांत वह कालेज से लौट कर सीधा अपने कमरे में न जाकर नीचे ठहरा था।

ऊपर पहुंचा तो छूटते ही अम्मां के विषय में पूछे विना न रह सका।

शन्नो की बिते भर की चुटिया पर रिबन का फूल बन रहा था— अम्मां तो कानपुर चली गयी दोपहर वाली 'वस' से ।

—कानपुर ? .....क्यों ? एकाएक..... । बात चौंकाने वाली थी। अम्मां कहीं निकलती जो नहीं थी ।

अनी ने शन्नो को— जा नीचे खेल आ, की हिदायत दे बाहर भेज दिया ।

अनी ने उसके जूते के फीते खोलते हुए बताया। सुन कर वह सकते में आ गया। अम्मां पुष्पा जिज्जी के घर गयी हैं। दूसरा या तीसरा महीना था। —अब नहीं चाहिये और आपरेशन भी करवा लेगीं, इसी इरादे से— आयेंगी भी तो कम से कम पंद्रह बीस दिन बाद ही ।

○

□ वीर राजा

## खिड़की

जब मैं बोलने की सोच रहा था। उसी समय अध्यक्ष ने अंतिम शब्द कह कर गोष्ठी खत्म कर दी। किसी ने वहाँ हमेशा की तरह इस बात की जरूरत ही महसूस नहीं की कि मैं भी बोलने लायक हूँ। मेरी उपस्थिति की अवहेलना करके वे हमेशा अपनी कार्यवाही जारी रखते।

अध्यक्ष की बाते सुनते-सुनते सभी ने अपने पाइप सिगार और सिगरेट मुँह में दबाये और अपने अपने नोट्स संभालने लगे, जो अद्वारा वे हर कहानी सुनते हुए लेते। बाद में उन्हीं पर लंबी लंबी वहसें करते हुए विश्व प्रसिद्ध आलोचकों और विचारकों के हवाले देते हुए अपनी अपनी बात सिद्ध करते।

अध्यक्ष ने भी कहानी की प्रशंसा करते हुए जब कहा कि इस कहानी की आत्मा उस वर्ग के अनुकूल है, जिसे लेकर यह कहानी बुनी गयी है। उन लोगों का दम इसी तरह घुटता होगा। उन्हें भी स्वयं से बदबू आती होगी जिस तरह लेखक को अपनी खिड़की से आती रही। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि सभी की तरह अध्यक्ष ने भी उस वर्ग का अपमान न कर मेरा ही तिरस्कार किया है। यह पहला अवसर था जब मैंने अनुभव किया कि अब मेरे और इनके बीच वह स्तिता नहीं रहा जो मैं हमेशा समझा करता था।

कहानी सशक्त थी। सभी को अपनी शैली और तीखी भाषा के बहाव में वहा ले गयी थी। प्रोफेसर राम पाल ने कहानी की भरपूर प्रशंसा की तो सभी उनकी लीक पर चल पड़े। सभी को महसूस होने लगा कि कहानी वास्तव में कोई अच्छी रचना है। जबकि इस कहानी से मैंने स्वयं को अत्यधिक अपमानित महसूस किया। मेरे भीतर अजीब सी व्यवराहृत थी कि इतने प्रतिष्ठित साहित्यकारों के बीच मैं अपनी बात कैसे समझा पाऊंगा। हूँ

भी तो अकेला ही । मेरे पास इतनी सशक्त भाषा भी तो नहीं जो इन्हें प्रभावित कर सके । लैकिन जैसे तैसे मैंने कह ही दिया ।

—अभी गोष्ठी खत्म नहीं होनी चाहिए थी ।

—अब वाकी रह ही क्या गया है ? जरूरत से अधिक चर्चा तो पहले ही हो चुकी है ।

—एक अच्छी सिटिंग वर्वाद न करो ।

—इसकी अनुमति मत दें । किसी ने शब्दों को चबा-चबा कर कहा ।

वहाँ खलवली मच गयी । कोई नहीं चाहता था कि मैं बोलूँ । बहुतों ने गोष्ठी वस्ति करने की जिद की । किन्तु मेरा बोलना जारी था । मुझे बोलते देख वे चकित थे तूंकि उनकी कल्पना में तो मैं बोल हो नहीं सकता था ।

—आप मुझे सुने विना नहीं जा सकते । मैं भी तो आपको कई वर्षों से सुनता आ रहा हूँ ।

—तुम कह भी क्या सकते हो ? किसी ने मेरी तीक्ष्णी आवाज की प्रतिक्रिया में कहा ।

—नान सेंस । अध्यअ के पीछे से किसी ने मुस्कराते हुए व्यंग्य कसा ।

—जिस वर्ग को लेकर यह कहानी लिखी गयी है मुझे उनके साथ लेवे समय तक रहने का मौका मिला है । उन्हें अच्छी तरह समझे विना और उनके संसार के अंदरकार से गुजरे विना आप उनका उपहास उड़ाते हुए ये नहीं कह सकते कि वे समाज पर बोझ हैं ।

—भाषण बंद करो ।

—चुप करो ।

—बोर मत करो । एक साथ कई आवाजें उठीं ।

उनका क्रोध सही भी था । उन्हें मैं चुपचाप सुनता रहा था विना किसी विरोध के । उनकी धाराप्रवाह अंग्रेजी ने मुझ में हीन भावना भर दी थी । मैं किसी तरह उनमें नहीं था । न तो मैं उनकी तरह उजला और धुला हुआ था और न ही किसी ऊंचे पद पर । मैं तो किताबों पर जिल्डें चढ़ाने वाला मामूली आदमी हूँ । यही कारण था कि उन्होंने कभी मुझे उस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहा जिस पर सभी साहित्यकार अपनी हाजिरी भरा करते थे ।

—आपने उन लोगों को सिफं ऊपर से देखा है। उनके चिथड़े देखे हैं। उनमें कभी दूबे नहीं। उन की पहचान अपनी पसंद और अपनी वृष्टि से करते हैं। आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते।

मेरी बात सुनते ही वे भड़के। सभी उत्तेजित हो गालियां बकने लगे। किसी ने गुस्से में कहा—ओ जिल्दसाज, तुझे कुछ अकल भी है? इडियट।

—भैसा। किसी ने फिर व्यंग बाण छोड़ा।

संकेत उस भैसे की तरफ था जिसने इन दिनों शहर में उधम मचा रखा था। वह सारा दिन बाजारों में घूमता रहता। जो चीज उसके सामने पड़ जाती उसे नष्ट कर देता। ठेले खोखे उखाड़ फेंकता। कितने ही लोग हड्डवड़ी में धायल हो जाते। संभवत मैं भी उन्हें ऐसा ही लगा था।

—मैंने यह कहानी अपने व्यक्तिगत अनुभवः के आधार पर ही लिखी है। लेखक ने शांत व गंभीर स्वर में कहा।

—लेकिन हर व्यक्तिगत अनुभव वास्तविक सच्चाई तो नहीं होता?

—मेरा बरसों का अनुभव है। आजाद मैदान तो विल्कुल मेरे घर के सामने है। अपनी खिड़की से जो देखता रहा हूँ और जो मैंने महसूस किया है, उसे ही अभिव्यक्त दी है।

—यही सच्चाई है। किसी ने हिकारत भरे स्वर में कहा।

—लेकिन इस कहानी में वह सच्चाई नहीं जिसकी वजह से ये लोग इस हालत में हैं।

—वह सच्चाई क्या है? लेखक ने जानकारी चाही।

—यही कि खिड़कियों से जिदगी की धड़कनें महसूस नहीं की जा सकतीं।

लेखक ने ‘आजाद मैदान की लाशें’ कहानी पढ़ी थी जिसमें मैदान की अंधेरी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को हीन तथा समाज पर अनावश्यक बोझ के तौर पर चित्रित किया था। उन्हें जुम्रारी, आवारा, अमली, जरायमपेशा और जाहिल बताते हुए उनके जीवन को व्यर्थ करार दे दिया था। कहानी डायरी शैली में थी। उन लोगों के बीमार जीवन, लड़ाई-झगड़ों, गंदे बच्चों, मौत की दहलीज पर खड़े बूढ़े लोगों के खांसने, गालियां बकने की जो प्रतिक्रिया लेखक पर हुई थी उसी का चित्रण था। उन लोगों के अश्लील मजाकों और गालियों का जो प्रभाव उसकी युवा लड़की पर हो रहा था उसका जिक्र कहीं ज्यादा था। वह

उन्हें खुले में संभोग करते हुए भी देख चुकी थी। यह रहस्य लेखक ने अपनी खुड़की की डायरी से जाना।

जब कहानी पर वहस हो रही थी तो मुझे वे दिन याद आने लगे जब मैं घर से भागकर इसी वस्ती में आया था। घर का बातावरण काटने को दौड़ता। लगता हुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता। सारी रात डरावने सपने आते जिनकी शुल्कात नदी पर नहाते हुए पकड़े जाने के बाद की मार-पीट से हुई थी। पिता ने इतना पीटा कि मुझे उनसे नफरत होने लगी। उन्हें देखते ही मैं खौल उठता। मेरी फिर पिटाई होती। मैं कोठरी बंद करके घंटों पड़ा रहता। पिता बोलते-बोलते थक जाते, तब भी दरवाजा न खोलता। सोचता, मर जाऊं।

चाचा जमीन का टुकड़ा हथियाने और मुझे रास्ते से साफ करने की कई साल से साजिश कर रहे थे। पिता को भी छूब भड़काते और खुद भी मुझे आवारा कहकर फटकारते। इन बातों का तीव्र एहसास तब हुआ जब न पिता थे और न ही वह जमीन का टुकड़ा। चाचा उस टुकड़े से अपनी आर्धिक सुरक्षा बना चुके थे और मैं कुछ प्रौढ़ हो चुका था।

—घर बालों की गुलामी से भागकर किसी कमीने की गुलामी से लाख बेहतर है मर जाना। जमूरे जिदा रहना सीख। ये शब्द गफूर उस्ताद ने तब कहे जब मैं घर से भागकर यहां एक हलवाई की दुकान पर बर्तन मांज रहा था।

—उठ, थप्पड़ मारते हुए उन्होंने मुझे गाली दी थी—मर्द की तरह जी। और उसी दिन गफूर उस्ताद मुझे आजाद मैदान ले आये।

मेरी छोटी छोटी जरूरतें उनकी हो गयीं। मुझे लगता कि लोग मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, इनके बीच रहते आत्महत्या की भावना से कब निजात मिली, मुझे याद नहीं। मदद के लिए इन्होंने कई बार स्वयं को खतरों में डाला, जिस जिदादिली से इन्होंने दोस्तियां निभाई उन्हीं से मैंने इच्छापूर्वक जीना सीखा।

मुझे उन दिनों की अनेक छोटी मोटी बातें याद आ रही थीं। कहाँ होंगे उस्ताद गफूर? क्या कर रहे होंगे? वे दंगल याद आने लगे जो हमेशा उन्होंने जीते थे। फूलों के हारों से लदा उनका चेहरा बार-बार सामने घूम जाता।

तब पूरी कसरत के बाद कभी पूरा दूध भी नहीं मिलता था चूंकि जो होता हम शांगिर्दों को पिला देते। अब तो उन्हें कोई पूछता भी नहीं होगा। मन ग्लानि से भर गया। काफी वर्षों से उधर नहीं गया था। वस उनके पास से गुजर जाता। अब तो मैदान चारों तरफ मकानों से घिर चुका है। तब शहर के बाहर था और अब शहर के बीचों बीच है।

गोष्ठी पुनः आरंभ हुई। मैंने सविस्तार अपने अनुभव बताये।

—आप अपने अनुभव के प्रति क्या सोचते हैं? लेखक ने पूछा।

—हम खुली आंखों से भी वह नहीं देख पाते जो हर रोज देखते हैं।

—ऐसा क्यों होता है? जानता है तू? प्रोफेसर राम पाल ने आंखें तरेरते हुए पूछा।

—क्योंकि हम उसे महसूस नहीं करते। रोज की बातों के जब अर्थ बदल जाते हैं तभी चौंकते हैं।

—क्यों? यह भी बता सकता है। आलोचक विश्वनाथ ने पूछा और खिल खिला कर हँस पड़े।

मैंने महसूस किया कि इन सारी बातों के बाद वहां दो धड़े बन चुके हैं। मैं खुश था कि लेखक मेरी बातों को समझने की पूरी कोशिश कर रहा है।

—लेकिन ये लोग हैं तो वो भी ही समाज पर। क्या योगदान है इनका सामाजिक निर्माण में, कुछ भी तो करते धरते नहीं।

—क्या है इस क्लास की स्वस्थ भूमिका?

—जो समाज के योग्य नहीं वह मृत ही है।

कई आवाजों ने मुझ पर हमला किया तो मैंने कहा कि जो भी ये हैं, जैसी भी जिंदगी ये लोग जो रहे हैं, उनके लिए हमारा समाज उत्तरदायी है। देहातों से उखाड़े गए लोग तो शहरी सम्मता में जैसे तैसे खपेंगे ही, इनमें उनका क्या दोष?

—लेकिन जो लोग कुछ न करें उन्हें वो भी ही कहा जाएगा।

—ये तो विभिन्न अपराध भी करते हैं जिसका कहानी में जिक्र भी है।

—इनका एक ही अपराध है कि इन्होंने दूसरों के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया। हर कीमत पर आजाद रहने के लिए इन्होंने कष्टों में रहना पसंद किया। इसी आजादी की उमंग ने वह सब कुछ करवाया जो समाज में अनुचित है। बुढ़ापे में कुछ गलत आदतों के शिकार हो चरस-अफीम की गोली के लिए

तड़पे भले ही, पर मांगते नहीं। यह बोझ कैसे हो सकते हैं? मैं अपनी झोंक में बोलता गया। तभी किसी ने फिर कहा—भैसे को कहो और किसी दूसरी तरफ मुड़े। गोष्ठी बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गयी।

गोष्ठी के बाद मेरे कदम आजाद मैदान की ओर उठ रहे थे। लेखक भी मेरे साथ था। वह उन लोगों से मिलने को अब उत्सुक था जिन्हें वह बरसों से अपनी खिड़की के माध्यम से देखता रहा था।

मैदान अब बैसा नहीं जैसा उन दिनों था जब मैं यहां रहा करता था। झोंपड़ियों के गिर्द कांटेदार तारों का घेरा या ताकि और झोंपड़ियों न बन पायें, पर लोगों ने जहां भी थोड़ी बहुत जगह थी बेंगी झोंपड़ियां और खोखे खड़े कर लिए थे। गंदगी पहले से अधिक है। वह खुलापन नहीं जो उन दिनों था। तारों के घेरे के बाहर मैदान खाली था सर्कंस के लिए और नगर पालिका की तर्ही लटकी थीं।

हमें देखते ही कुछ लोग हमारी ओर लपके। वे मुझे अपने बीच पा चकित थे। यहां हो रही भगदड़ के बारे में मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि थोड़ी देर पहले भैसा रमिया ताई को जख्मी कर के कई झोंपड़ियां बर्बाद कर गया था।

—कहां है ताई? कभी मैंने उसके हाथ की बनी रोटियां खायीं थीं। वे मुझे दुलार में निखटू कहा करती। जब भी बाहर जाता चुपके से लाल मिर्चों की चटनी के साथ दो रोटियां मेरे थैले में डाल दिया करतीं।

उन्होंने बताया कि रमजान उसे अस्पराल ले गए हैं। उस्ताद गफूर, नत्या, चाचा, विल्ला, नूपा, भुम्न और सभी भैसे के पीछे गए हैं।

—लाठियां लाओ, देख क्या रहे हो? सुनते ही लेखक ने घबराकर मेरी ओर देखा। एकवार्गी तो वह कांप गया। लेकिन तब तक मैं एक लाठी पकड़ कर उधर भाग चुका था जहां बरगद के पास शोर हो रहा था।

बरगद पर सैकड़ों कीओं का वसेरा था। फड़फड़ते कौऐ कांच-कांच करते ऊपर उड़ रहे थे और नीचे बच्चे, दूढ़े, जवान सभी भैसे को घेरे चिल्ला रहे थे। भैसा उत्तेजित और खूंखार था। उसे अपने सामने कोई रुक्कावट सहन नहीं हो रही थी। कई लोग भगदड़ में गिर पड़े। वे उठे और फिर उस पर हमला करने लगे। सभी उसे घेरकर नगर की गंदगी से भरे जा रहे गड्ढे में

गिराना चाहते थे ।

उस्ताद गफूर किसी युवा लड़ाकू की तरह हाथों में रस्सा पकड़े और—ओ—आ, हू—हू—हू करते भैसे की ओर लपक रहे थे । जवानी के दिनों सा नशा था । मानों अभी बढ़कर सामने खड़े पहलवान को पटखनी देंगे और ढोल ढमाके के बीच लोग उनकी जय-जयकार कर उठेंगे ।

—इन्हें कुछ हो-हवा गया तो ? मैं आँखें कित हुए । उनके हाथों से रस्सा छीना और उन्हें धकेलते हुए भैसे की ओर दौड़ा ।

—क्या कर रहे हैं आप ? लेखक ने ऊंचे स्वर में कहा ।

—अमां कौन है ये ? उस्ताद गफूर क्षणांश के लिए मुझे पहचान नहीं पाये ।

मैं भैसे के सामने था । कई चीखें सुनायी दीं । दांये-बांये से काकू पहलवान और दादा मुनि चीखते-चिल्लाते आ रहे थे । भैसे ने अपना सिर मिट्टी में मारा । फिर दहाड़ा । हम तीनों पर लपका और तीनों को एक साथ उठा कर नीचे पटक दिया । काकू पहलवान की टांग टूट गयी और हम दोनों के सिर से खून बहने लगा ।

हम तीनों के खून से लथपथ होने की खबर सुनते ही अनसूइया वाई दहाड़े मारने लगी—अरे मार डाला मेरे बच्चों को । सत्यनास हो इस मुए भैसे का । पोपले मुँह से निकलते हूटते शब्दों, भुकी कमर, रुंआसी आवाज, ज्योतिहीन आंखे टटोलती चाल के बावजूद भी लगा कि अब भी उसकी हड्डियों में दमखम है । किसी ने मेरे जख्मी होने के बारे में बताया तो वह दोनों हाथ फैलाती हुई हमारी ओर बढ़ी—कहां है वह । अरे मुझे उसके पास ले जाओ ।

तीन चार आदमी काकू पहलवान को उठाए हुए थे । किसी ने सलाह दी—इसे जल्दी से कमेटी के अस्पताल ले जाओ ।

बूढ़े लोगों को इतना निडर और उत्तेजित देखना आश्चर्यजनक था । कल्पना भी न थी कि इस उम्र में भी ये यूं भिड़ सकते हैं । गिरने से पहले हम तीनों के रस्से भैसे की गर्दन में थे । सब उसे बांध कर तालियां बजाते, हो—हल्ला करते उसे खींचते हुए ले जा रहे थे । जिनके हाथ में जो चीज थी उछल रही थी । हर तरफ जीत और राहत का नशा था ।

—कावू में आया बच्चू ।

—यहां नहीं चलेगी तेरी ।

—एक ही बार में हुआ मक्कू ठप्प ।

—रास्ता देख ले...इधर न आना वेटा इव....इस के चूतड़ दाग दो ।

इस तरह की आवाजों के साथ-साथ गालियां और अश्लील मज़ाक भी सुनायी पड़ रहे थे ।

कुछ ही देर पहले मैदान के किनारे नगर महापालिका का ट्रक और कर्दिंदे पहुंच चुके थे । क्षेत्रीय नेता तमाशाइयों की भीड़ में घिरे कर्दिंदों को बता रहे थे कि भैंसे को पकड़वाने के लिए उन्हें कितनी दौड़ धूप करनी पड़ी—भय्या, मैंने फायर विग्रेड, पुलिस, शासन तक को हिलाकर रख दिया ।

ट्रक के पास पहुंचते ही भैंसा विफर उठा । फुंकार के साथ उछला । नेता के साथ-साथ तमाशाइयों की भीड़ भी पीछे दौड़ी ।

—कमवल्तो, एक भैंसे को भी कावू में नहीं कर सकते । नेता कर्दिंदों को डांट रहे थे ।

—तू तो नहीं ही कर सकता वेटा, पर हमने कर लिया कावू । हिकारत से भरा स्वर किसी और का नहीं, अपने उस्ताद गफूर का ही था । सभी फटकार भरी हंसी हंसे । अनुसूझा वाई की फटकार के फलस्वरूप नेता ने कहा—मैं अभी अस्पताल वालों को फोन करता हूँ कि धायलों की देख भाल अच्छी तरह करें वह और फट पड़ी । लगी उसकी सात पुरतों को गालियां देने । बोली—वैईमान, अब की आना कागज डलवाने, दौड़ यहां से..... ।

जब भैंसे को ट्रक में लादकर ले जाया जा चुका तब सभी को एक दूसरे की चिंता सताने लगी । सभी पूछ रहे थे कि मैं क्या आया ? किसने मुझे खबर की । वे अपनी चोटें भूलकर मेरे ज़ख्मों की फिक्र कर रहे थे । उस्ताद गफूर चकित थे कि इतने बर्बं उनके साथ रहने पर भी मैंने इतनी मूर्खता कैसे कर दी । अपनी वहांदुरी का प्रदर्शन क्यों किया ?

—वेटे भैंसे को चालाकी से फांसा जाता है । आमने-सामने होकर नहीं । ताकतवर दुश्मन को हराने की तरकीब ढूसरी होती है, समझा । उन्होंने अपनत्व से डांटते हुए कहा ।

अचानक मुझे ध्यान आया कि काकू पहलवान और दादा सिर्फ मुझे बचाने में ही धायल हुए हैं । अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ ।

—इसे देखो खुद लहूलुहान है पर मर हमारे लिए रहा है । चल फूट, कहीं

औरतों की तरह रोया जाता है, रे ? मेरी गीली आँखें देखते हुए दादा मुनि ने सिर पर हाथ फिराते हुए कहा ।

सब मुझे घेरे पूछ रहे थे । पिछले बर्षों में कहाँ रहा ? क्या किया ? मेरी पत्नी और वच्चों का हाल पूछ रहे थे । उन्हें मेरे चाचा और जमीन के टुकड़े की पूरी कहानी याद थी । इतने बर्षों बाद उनके बीच होने की खुशी अद्भुत थी । उनके छोटे-छोटे वच्चों को जवान देख कर अनुमान लगाना पड़ रहा था कि यह किसका बेटा है ।

जब मुझे पता चला कि मेरा बचपन का साथी निसार कानपुर को जिसी मिल में काम करता हुआ मारा गया तो मैं उन दिनों में खो गया जिन्हें हम दौड़ में कभी मुड़कर नहीं देखते ।

लेखक ठगा सा भीड़ में खड़ा था । उसकी उदास आँखों में चमक थी । उसने एकाएक मुझे बाहों में भर लिया । उसके कपड़े, हाथ में पकड़ी रखना खून से सनी थी और माथे पर ज़रूर था—इस भैंसे ने मेरी आँखे खोल दीं ।

मन में आया कि इससे पूछ—किस भैंसे ने । पर उसकी आवाज में सच्चाई थी और मेरी बात अंदर ही धुटी रह गयी ।

—तुम्हारी आँखें तो पहले भी खुली थीं । पहली ही बार में यह सब कैसे हुआ ? इनके लिए जरूरी भी हुए । मैंने मजाक किया । पर वह किसी दूसरी दुनिया में लीन था ।

—आँखे खुलीं तो जरूर थीं.....पर नहीं भी । ये बोझ कैसे हो सकते हैं ? उसने मुझे जकड़ लिया । वह भर उठा—मैं इस भैंसे को भी रोज देखा करता । सोचता कि क्या लाभ है इसका नगर को ? कितनी हानि पहुंचा रहा है ? शासन को कोसता, लोगों की उदासीनता पर क्रोध आता कि लोग ये सब कैसे भेल लेते हैं ? लेकिन यह बात एक बार भी मन में नहीं आई कि इससे निजात कैसे पायी जा सकती है ?

उसने रुककर घर की ओर देखा जहाँ छत के परनाले के साथ एक छोटा सा पीपल का पौधा खड़ा था । उसने हाथ के इशारे से कहा—वह रही मेरी खिड़की, वहीं से मैं रोज इन लोगों को देखा करता था ।

मैंने उस तरफ देखा—खिड़की पर नीले रंग का पर्दा लटक रहा था ।

—कितना अंतर हैं वहाँ के अनुभव और यहाँ के अनुभव में ।

मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा—तुम एक अंतर तो भूले ही जा रहे हो ।

—अब तुम उस गोष्ठी का पीछा नहीं छोड़ोगे । उसने प्यार से झिङ्की दी ।

वहाँ कोई हमारी बातें नहीं समझ पा रहा था । वे सभी उससे पूछ रहे थे—आप वहाँ सामने रहते हैं ? आप कितावें लिखते हैं ? आप मदरसे में पढ़ते हैं ? वह उनकी बातों का जवाब सिर हिला-हिलाकर दे रहा था ।

उन्हें अस्पताल की ओर जाता देखकर लेखक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हँसते हुए कहा कि अब यहाँ क्या कर रहे हो ? चलो, अस्पताल चलें । क्या धायलों की खबर नहीं लोगे ?

मैं सोचने लगा आदमी नए रिश्तों में कितनी जल्दी बंध जाता है ।



□ विष्णु नागर

## रामजी दास

मेरे दोस्त हैं रामजी दास। पहले उदास और गमगीन आदमी के रूप में प्रसिद्ध थे। अब खिलखिलाते रहते हैं। जब से मिला हूँ, बेरोजगार हैं।

जिन लोगों की प्रेमिकाएँ हैं वे तो शाम के समय नज़र नहीं आते। हम ही लोग हैं जो शाम के समय यूनिवर्सिटी कैके में बैठे रहते हैं। रामजी दास का वैसे यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं मगर संयोग है कि वे हमारे मित्र हैं और हम उन्हें कैके में बैठे-बैठे छेड़ते रहते हैं।

हुआ यह है कि हमारे ग्रुप के तभाम लोग लड़कियों को छेड़ने के 'अपराध' में उनके तथाकथित भाइयों के हाथों पिट चुके हैं। तब से हम लोग पंचर हां गये हैं। और एक रामजी दास हैं जिन्हें छेड़-चाड़कर हम अपनी अतृप्त इच्छाएँ पूरी करते हैं। वैसे आप किसी गलतफहमी का शिकार न हों, वे कोई नाजुक चीज नहीं हैं वल्कि उनका चेहरा भुलसा हुआ है। वे अपने कुर्ते-पायजामे में अच्छे खासे कार्डन नज़र आते हैं। उनके इस व्यक्तित्व ने ही साहस दिया कि हम इस किस्म की हरकत कर सकें।

अक्सर ही होता है कि हमारे ग्रुप के छहों लोगों के पास शाम के समय कोई करने लायक बात नहीं होती। रामजी को छोड़ सभी लगभग अलग-अलग विषयों के विद्यार्थी हैं, और ईमानदारी से पढ़ते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में अपने-अपने विषय की ही बातें मंडराती रहती हैं। तब हम अपनी बोरियत से बचने के लिए रामजी दास को गुदगुदाते हैं। हम उनके पेट पर जरा सी उंगली फेरते हैं कि उनकी हँसी का एक अटूट सिलसिला शुरू हो जाता है। हम एक दूसरे को देखकर मुस्करा देते हैं और जब यह मुस्कुराहट लंबी नहीं खिचती तो हमें से हरेक टेविल पर उंगलियों से अपनी प्रेमिका का

नाम लिखने लगता है। वे प्रेमिकाएं ऐसी हैं जिनसे हमारा एक पक्षीय प्रेम व्यापार चलता है और वे प्रेमिकाएं नहीं जानती कि हम उनके प्रेमी हैं।

कल की ही बात है कि कैफे के अंदरे में हम रामजी दास को गुद-गुदा रहे थे और अभ्यासवश ही वे खिलखिला रहे थे। उस समय हम थोड़ा 'आनंदित' अनुभव कर रहे थे कि अचानक उनके दांत गिरने लगे। वे काफी आगे मुँके हुए थे इसलिए उनके दांत हट हट कर देविल की कांच पर गिरने लगे। इस प्रकार की आशंका तो हमें यो ही नहीं, इसलिए कांच पर कुछ गिरने की आवाज आर्या तो हम कुछ समझ नहीं पाये कि यह क्या हो रहा है। उन दांतों पर नजर पढ़ी तो यकायक रामजी दास के चेहरे की तरफ देखा क्योंकि अगर अकस्मात् किसी के साथ कुछ हो सकता था, तो उन्हीं के साथ। अब तक उनके अधिकांश दांत गिर चुके थे। अब भी उनका एकाव दांत टप्प से गिर जाता था। सारे ग्रूप की आंखें फटी की फटी रह गयीं। न कोई शब्द, न कोई हरकत। मेरी परेगानी यह है कि जब तक कोई दूसरा ऐसी आकस्मिकता से झूमने को पहले तैयार नहीं होता, तब तक मैं भी अपने को तैयार नहीं कर पाता। मुझे कुछ सूझता ही नहीं। मैंने फिर रामजी दास के चेहरे की ओर देखा, उनके मुंह से खून वह रहा था। अब भी ग्रूप निश्चल बैठा था। आज्ञिर मुझे पहल करनी ही पड़ी। मैंने कहा—रामजी दास यह क्या हुआ? मगर वे कुछ बोल नहीं पाये। उन्होंने शायद सुना ही नहीं। रात के कोई नौ बज रहे थे। ठंड के दिन थे। कैफे में हमारे सिवाय कोई नहीं था। शायद कुछ लोग अंदर हों। देयरे अंदर ही थे। उन्हें पता था कि हम एक बार चाय पीने के बाद दूसरी बार कुछ लेते नहीं।

दूर तक अंदेरा और सन्नाटा था। मुझे लग रहा था कि जैसे सारे ग्रूप के प्राण पखेह डड़ गये हैं। अब ग्रूप दोबारा जिदा नहीं हो सकेगा। और इन सारी आकस्मिक मौतों का दोषी मैं हूँ क्योंकि मैं जिदा हूँ। मैं चीखा—सारे ग्रूप को यह क्या हो गया है? रामजी दास मरा जा रहा है मगर लगता है कमीनो, तुम उसके पहले ही मर चुके हो। लेकिन सन्नाटा हूदा नहीं।

रामजी दास के मुंह से खून लगानार गिरता जा रहा था। मैं उनके विल्कुल पास बैठा था इसलिए मेरी सफेद घट पर भी कुछ दूँदें गिर गयीं। पहले मैंने सोचा इन्हें घो लूँ बरना फिर दाग नहीं निकलेंगे। मगर मुझे तुरंत याद आया कि यह इतना जल्दी काम नहीं।

मैं उठा और अपना एक हाथ उनकी दोनों बगलों में और दूसरा उनकी रामजी दास

टांगों के जोड़ों में डाला और उन्हें वहाँ से उठाने की कोशिश की । मगर वे मुझे पत्थर की तरह भारी और कड़े लगे । वे शरीर से भारी हैं । एक बार मैंने खुशी से पागल होकर उन्हें उठाने की कोशिश की थी । और चूंकि वे भी चाहते थे कि मैं उन्हें इस मौके पर उठा कर खुब हो जाऊँ इसलिए उन्होंने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया था । मगर मुदिकल से ही मैं उन्हें एक मिनट उठा पाया था कि वे घड़ाम से जमीन पर गिर पड़े थे । मगर वे दर्द से कराहे बिना ऐसे उठे थे जैसे गलती से किमल गये हों और अब लजा रहे हों । मैं उनकी इस महानता से प्रभावित था और उनमे छेड़खानी के बाबजूद सारा ग्रुप कहीं उनका सम्मान भी करता था । ग्रुप के सभी साफ बुले महंगे कपड़े पहनने वालों को रामजी दास के फटे पुराने मैले कपड़ों से कोई शिकायत नहीं थी और न ही वे कभी ऐसी दया उपजाते थे कि अपने कपड़े उन्हें पहनने देने का प्रस्ताव मुँह से निकले ।

इस कदर पत्थर शरीर उनका पहले नहीं था, यह मुझे याद है । मुझे लगा कि इतने सीधे-सादे साफदिल-दिमाग वाले आदमी का शरीर पत्थर जैसा कैसे हो सकता है ? मगर इतना सब सोचने का बहुत नहीं था । सारा ग्रुप अभी भी मुर्दा था । मैंने ग्रुप के एक-एक आदमी को बहन की गाली दी । संयोग से उनमें से एक भी 'सगी' बहन नहीं थी । किर मैंने मां की गाली देकर ग्रुप को उत्तेजित करने का प्रयत्न किया लेकिन ग्रुप किसी कीमत पर 'बहकने' को तैयार नहीं था ।

मैं तेजी से अंदर कैफे में भागा । वहाँ भी कोई टंटा खड़ा हो गया था । दो ग्राहक बेयरों से लड़ रहे थे । उनके मुँह में उत्तरी हुड़े गालियाँ थीं । मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की किन्तु किसी का ध्यान मेरी ओर नहीं बंटा तब तक एक बेयरा, गालियाँ मुन कर उत्तेजित हो गया था । मेरी घवराहट बढ़ती जा रही थी । मैंने एक बार किर कुछ कहने की कोशिश की मगर व्यर्थ । मैंने अबकी बार कहा 'तुम सबों की माँ की.....' और बाहर लपका ।

मैं चौंका । ग्रुप भाग गया था । रामजी दास का चेहरा टेविल के कांच पर गिरा पड़ा था—खून और दांत के टुकड़ों के बीच ।

मुझे कुछ नहीं सूझा । मैं और घवरा गया । मैंने उनका पेट दवाया—हँसेंगे यह सोचकर । उनका हँसना ही सारी स्थिति का जवाब हो सकता थ



□ नरेन्द्र वाजवा

## टिकके की वापसी

सरदार की पहली आवाज पर ही टिकका उठ खड़ा हुआ । रात भर वह करवटें बदलता रहा था । पूरे शरीर में अजीब सी कुलबुलाहट थी । उठने की इच्छा नहीं हो रही थी पर सरदार की आदत से वह भली भाँति परिचित था । वर्षा हो या अंधी, ठंड हो या गर्मी, तवियत ठीक हो या नहीं, सरदार किसी को यूँ ही लेटे नहीं देख सकता ।

हल्की काली रात का अंधेरा कम होने लगा था । थोड़ी ही देर में प्रभात होने को थी । रोज यह खामोशी सरदार की आवाज से ही दूर्घटी है और इसी आवाज से दिन शुरू होता है । मुंह अंधेरे से शुरू हो रात के आखिरी कुछ घंटों तक हलचल रहती है और फिर वातावरण शांत हो जाता है । यह शांति अगली अलमुवह तक रहती है ।

रोजाना की तरह आज भी सरदार अपनी दवंग आवाज में सभी नौकरों के नाम ले-लेकर उन्हें उठने के लिए कह रहा था । चार कनाली डेरी में काम करते सभी नौकर अपनी अपनी जगह लेटे हुए थे । जीते और भजने की खाट सड़क किनारे थी । मिट्टू, टिकका और बहादुर आंगन में थे । टिकके के साथ साथ मिट्टू और बहादुर भी उठ खड़े हुए पर भजना और जीता मन मारे लेटे रहे । कुछ देर बाद सरदार ने उन्हें झिझोड़ा । दोनों उठकर खाट पर बैठ गए । सरदार दोबारा ग्रदर चला गया । थोड़ी ही देर बाद सरदार की कसैली आवाज सुनाई दी—ओए, उठो भी । अब तो गाहक भी आने लगे ।

—आये सरदार जी । कह, जीता भजने की ओर मुखातिव हुआ—साले गाहक रात को सोते भी हैं या नहीं—दिन निकलता नहीं कि हरामी खाट खड़ी कर देते हैं ।

भजना आंखें बंद किए बैठा रहा । हाथों की उंगलियां चटखाते हुए उवासी टिकके की वापसी

पशु धास चरता हुआ फार्म की हरियाली की ओर बढ़ने लगता तो टिक्का दूर से ही.....च.....च.....करता उसे रोकने लगता । पर पशु ही तो है, हरियाली की तरफ जाएगा ही । टिक्के को वार-वार उठना पड़ा । वह पशुओं को हाँक लाइन के इस तरफ ला फिर पेड़ के नीचे आ बैठता । पसीने से तरबतर उसकी कमीज पीठ से चिपक गयी थी और उसमें से अजीब बूँ आ रही थी, गोबर जैसी । सोचा यह भी क्या जिंदगी है, रात दिन गोबर में सने रहो । रात सोते समय भी यूँ लगता है जैसे ढेर पर सोया हो या कूड़े का एक हिस्सा हो । जब भी वह अपने साथियों के साथ बैठता है, वे भजाक करते हैं—दूर बैठ ओ गंदू । खासकर जब उसके साथ गोबर उठाने वाला मिंदू भी यही कहता है तो उसे स्वयं पर और भी कोप्त होती है ।

छाया में लेटे-लेटे टिक्के की आंख लग गयी । डेढ़ बजे की गाड़ी गुजरने के बाद ही पशुओं को डेरी की तरफ हाँकना था । सोते में उसे लगा कि काले इंजन वाली तेज रफ्तार गाड़ी किसी दैत्य सी दहाड़ती लाइनों पर से गुजर रही है । अचानक देखता है—भैंस, लाइनों में 'बां-बां' करती, जी जान से फलांगती भाग रही है लेकिन गाड़ी और उसके बीच का फासला निरंतर कम हो रहा है और भैंस की आवाज गाड़ी की चीखों में दब रही है । कानों में गाड़ी की खटाक-खटाक ही सुनाई पड़ रही है । वह हड्डबड़ाकर उठा । पसीने से तर कमीज कंधे पर से चिर गयी । कुछ देर वह कमीज को देखता रहा । इधर-उधर नज़र दौड़ाई । गाड़ी कहीं नहीं थी पर कान अभी भी सां-सां कर रहे थे । पशु धीरे-धीरे धास को मुंह मार रहे थे । उसने उंगलियों से कमीज के फटे हिस्से को नापा । चार अंगुल कमीज फट गयी थी । उसका मन खट्टा हो गया । और कोई कमीज भी तो नहीं जो वह पहन ले, उसने सोचा । एक कमीज और एक पाजामा जब तक पूरी तरह नहीं फटते, और सिलवाने की हिम्मत ही नहीं होती । तनख्वाह भी कौन सी इतनी है कि रोज कपड़े ही सिलवाता रहे । सरदार तो एक रुपया देकर भी खाते में चढ़ा लेता है, खुद भले ही रोज बीस-पचास की शराब पी छोड़े ।

बेहद गर्मी थी । कोई-कोई राही ही गांव शहर से आ जा रहा था । पेड़ की छाया भी धनी नहीं । बुजुर्ग कहते हैं—ऐसी धूप में तो भूत-प्रेत भी छांह ढूँढ़ते फिरते हैं । टिक्के को प्यास महसूस हुई पर दूर-दूर तक पानी नहीं था । उधर मिलटरी फार्म में पंप से पानी गिर रहा था । उसने दौड़कर

वहां पानी पी आने की सोची । यदि कोई पशु फार्म की हस्तियाली की ओर चला गया तो.....इस ख्याल से वह सहम गया पर प्यास और बढ़ गयी । घर होता तो सरदारनी से लस्सी-पानी पी लेता किंतु यहां.....। कोई चरवाहा भी तो नहीं दिखाई दे रहा जिसके हवाले पशु छोड़ भट से पानी पी आए । पानी पीना तो दूर रहा जो थोड़ा बहुत शरीर में था वह भी पसीने के रूप में बाहर आ रहा था ।

पसीने से तर-ब-तर एक साईकल सवार उसके पास से गुजरा तो उसने पूछा.....छोटे के बजे हैं ।

—वयों ? गाड़ी तले सिर देना है क्या ? कह वह आदमी, पैडल मारता लाईनों के पार बनी पगड़ंडी के आसपास ब्रिखरी झाड़ियों में खो गया । टिक्का उसकी पीठ देखता रहा.....साला.....वह बुझ बुझाया.....हरामी । जिसे बुलाओ वही काटने को दीड़ता है.....भला कोई पूछे कि मैंने कौन सी उसे गोली मार दी.....टेम ही तो पूछा है.....मेरे पास घड़ी होती तो क्यों पूछता उस लफंडर से.....पर घड़ी मेरे पास होती कैसे ? वह हंस पड़ा.....यह तो किस्मत वालों के पास होती है । अपनी पूंजी तो है एक कमीज और एक पाजामा । उसका ध्यान फिर कमीज पर चला गया और उंगली अपने आप फटी कमीज के सुराख में जा घुमी । उसे फिक्र हुआ । सरदार ने तो पहले ही दो सौ के ऊपर पैतीस कर दिये हैं और अपनी तनख्वाह है, एक सौ पच्चीस । हो न हो वह सरदार की मिन्नत-खुगामद कर इस बार एक जोड़ी कपड़े तो ज़रूर ही बनवा लेगा ।

उसकी आत्मा सरदार पर केंद्रित हो गयी । सरदार ने अच्छे करम किये हैं । घर मे फिज, स्कूटर, टैलोविजन, सोफा आदि सब सुविधाएँ मौजूद हैं । जब टिक्का डेरी में नया-नया आया था तो कुल बीस भैसे थी पर अब तो साठ से कम क्या होंगी ? और सरदार अब कौन सा खुद काम करता है । वैठा हुक्म चलाता है या फिर दाढ़ी पी छोड़ता है ।

गाड़ी की चीख सुनी तो उसका ध्यान फिर लाईनों पर जा पहुंचा । दूर जहां दोनों लाइनें एक होती लग रही थीं, एक काला सा धव्वा उसे अपनी ओर बढ़ते हुए बड़ा होता दिखाई दे रहा था । बुंआ आसमान में फैल रहा था । उसने दूसरी तरफ दृष्टि दौड़ाई कहीं कोई पंशु गाड़ी की लाईन पर ही न हो, पर सब ठीक था । छक-छक करती गाड़ी पास से गुजरी तो उसने हसरत

भरी निगाहों से गाड़ी नें बैठे मुक्तरफिरों को देखा। उसका मन हुआ कह सी उनकी तरह कभी गाड़ी में सफर करे.....बहुत दूर तक.....कई दिन.....लगावार।

गाड़ी चुकर गयी तो उसने पशुओं को डेरी की तरफ मोड़ा। डेरी पहुंचा तो पाया मिहू अभी भाङ्गू दे रहा था। वह घोड़ा स्त्रा दुश हुआ। जब टिक्का उसके साथ लगता तो दो छंटों में ही सब निकट जाता था। पर अब.....पता पड़ेगा बच्चू को.....मुझे तो 'गँड़' कहता था। पचु खुरलियों की ओर हो लिए तो उनके पीछे चल रहा टिक्का, मिंहू के पास ते गुजरना हुआ बोला—क्यों मिहू कैसा है गँड़ ? और हँस दिया। मिंहू कुछ न बोला और कूड़े से भरा टोकरा ढेर पर फैक्ने चल दिया।

आँगन में भजना हाथ बांधे बैठा था। मालूम हुआ चार कुतरती मशीन में उसका हाय आ गया था और आँगूठा कट गया। उसे लगा जैने उसका ही आँगूठा कटा हो। भजने का दुख उसे अपना दुख लगा। वह कितना भी किसी से लड़े-भड़े पर दूसरे का दुख उससे बर्दाशत नहीं होता।

पशुओं को खुरलियों से बांध, सभी इकट्ठे दोपहर का खाना खा रहे थे तो भजने को बांधे हाथ से बमुश्किल रोटी खाना देख टिक्का बोला—बुरा हुआ भजने.....सरदार तो धूं ही बैठने नहीं देता।

कोई नहीं टिक्के.....जब तक जाट पूरे का पुरा न कट जाए ताप सा पुकारता रहता है। बैसे दृहने में घोड़ी दिक्कत होगी। भजने ने कौर मूँह में डालते हुए कहा।

—सरदार को कह, दो चार दिन आराम कर ले .....और फिर तुम्हारा कसूर भी क्या है ?

—कसूर.....कसूर कौन पूछता है। तनखाह के बकर तो काम के दिनों की ही बात होगी। बाली दिनों के पैसे तो कट ही जाने हैं।

—यार कोई लूट है। पैसे काट लेने हैं.....किसकी इच्छा करती है अपना अंग कटवाने को.....जीता पानों के धूंट से कौर को गले नीचे उतारता हुआ बोला। टिक्के ने सिर हिला कर हाथी भरी।

—घरवाली भरी का तो तुम्हें पता है ही। जितने दिन गांव में काटे, उन दिनों का सरदार ने एक पैसा नहीं दिया.....भजने ने बुझे मन से जहा।

मुझ से पहले की बात होगी.....मैं तुम्हारी जगह होता तभी सरदार

टिक्के की बापती

से कहता हिसाब-किताब कर .....। जीता गुस्से से भर गया । वह कुछ और भी बोलता पर सरदार के स्कूटर की आवाज सुन सभी चुप हो गए ।

—तू भी टिकके ढीला-ढाला दिखाई दे रहा है । जीते ने बात पलटी ।

—मालूम नहीं कौन सा बुखार चढ़ा है । सुबह से शरीर टूट रहा है । टिकके को जैसे अपनी याद आ गयी हो बोला——मैं तो सरदार को कहने लगा था कि पल दो पल आराम कर लेने दे । फिर सोचा कौन करने देगा हमें आराम ?

—देवकूफा, जिदरी से बढ़कर क्या अच्छा है.....सारा दिन हड्डियाँ तुड़वाओं किसलिए.....खुद ही किसी काम के न रहे तो क्या करोगे ?

टिकका चुप रहा । जीते की बात उसे ठीक लगी । लेकिन सरदार का ख्याल आते ही उसे घबराहट महसूस होने लगी ।

रोटी खाने के बाद सभी अपने अपने ठिकानों पर जा पहुंचे । जूठे वर्तन उसने खाट के नीचे रख दिए और लेट गया । नींद से उसकी पलकें बोझिल हो गयीं ।

शाम को सरदार ने दूध दुहने के लिए टिकके को उठाया तो उसका पूरा शरीर भट्ठी-सा तप रहा था । अब आराम कर लेता तो जुबह तक उठ जाता, पर सरदार ने एक न मानी और उसे काम पर लगा दिया । भजने का जरूर ताजा होने से सरदार ने उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया । दूध दुहते हुए सरदार घुटा-घुटा रहा चूंकि उसे खुद दूध दुहना पड़ा था । ग्राहकों से भी वह कुछ कुछ खिचा रहा । जैसे-तैसे टिकके ने काम खत्म किया और फिर भजने के पास खाट पर आ बैठा । पूरे शरीर में जैसे जान ही न हो । जी मितलाने लगा । कई बार मुँह नीचे कर करने को होता पर पेट में से कुछ न निकलता ।

—उठ ओ टिकके, जा दबाई ले आ.....सुबह तक ठीक हो जाएगा । भजने ने टिकके की विगड़ती हालत देखते हुए कहा ।

तवियत ठीक हो जायेगी । बुखार है । अगला असर तो दिलायेगा ही । टिकके ने कुछ सोचने हुए कहा—— डाक्टर तो सूई लगा कर पूरे दस झाड़ लेगा.....हम तो पहले ही कर्जों में डूबे हुए हैं, बुरी तरह । ठीक कहता है बैचारा, भजने ने दिल में सोचा ।

कुछ ही दिनों में टिकके की हालत खस्ता हो गई । शरीर सूख कर कांटा हो गया । रोशनी से उसे डर सा लगने लगा । कमरे में अंधेरा किये, लेटा रहता । बल्कि जलता देखता तो मन घबराने लगता । कभी कभी पीड़ जान लेवा दर्द से चर्पा उठती । शरीर सूखता जा रहा था और खर्च बढ़ता जाता ।

सरदार को खर्च की फिक्र हुई तो उसने टिकके को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इस तरह से बीमारी भी निकल गयी और खर्च भी घट गया। नाम मात्र के लिए थोड़ा खर्च दो-चार दिनों में सरदार टिकके को दे देता।

टिकके को अस्पताल के एक अंधेरे कमरे में रखा गया। उस कमरे में उस जैसा ही एक मरीज था। उसके पास सुबह शाम कोई न कोई हितैषी मिलने आ जाता। पर टिकके के पास किसने बैठना था? डेरी में रहते जब कोई नौकर उसके पास आ बैठता तो सरदार किसी न किसी वहाने उसे वहां से उठा देता या किसी काम में लगा देता। कभी कभी तो सरदार बूरते हुए कह भी देना——इस बीमारी के पास न बैठे रहा करो, ऐसा न हो कि तुम में से भी कोई खाट पकड़ ले।

हर समय की नोक-झोंक से तंग आकर ही टिकके ने सरदार से उसे अस्पताल में भर्ती करवा देने को कहा था। समय निकाल कोई न कोई नौकर उसकी रोज खवर ले जाता। टिकका सोचता यदि कोई पूरी हमदर्दी से उसकी सेवा करे तो शायद वह जल्दी ठीक हो जाए। बीमारी भी कौन सी छोटी मोटी थी। टैटनस थी टैटनैस। लेकिन सरदार डेरी में से किसी को न आने देता। कभी कभार सभी नौकर इकट्ठे हो रात को पल दो पल के लिए उसके पास आ बैठते। सरदार भी चक्कर लगा जाता नाम मात्र के लिए।

ज्यादा देर न लगी। एक दिन टिकके की पीठ में ऐसा दर्द उठा कि बस ... सिर और पांव खाट से लगे रह गए और पीठ अकड़ कर ऊपर को उठ गई जो फिर सीधी न हुई। सरदार तब टिकके के पास ही था। टिकके के दम निकल जाने से मानो सरदार का अपना भी दम निकल गया हो। वह मुँह में कुछ बुड़वुड़ाया और घर आ पहुंचा।

—सरदार जी, टिकका कैसा है? सरदार को देखते ही जीते ने पूछा।

कुछ देर चुप रहने के बाद सरदार बोला——ले इब्बा मुझे और खुद जा पहुंचा जन्नत में।

यह सुनते ही सारे नौकर दूध की धारें बीच में ही छोड़ सरदार के पास आ खड़े हुए। अजीव चुप्पी छा गई। उनके दिल मानो जकड़े गए हों। एक-एक बूंद खून निचुड़ गया हो। वह गंदू सा टिकका अब गंदू न रहकर उनका बुझ चुका जिस्म हो गया था। एक दो ग्राहक भी खड़े थे। जिनकी पूरी हमदर्दी उनके साथ थी। काम रुका देख सरदार ने नौकरों को धूरा पर

उनके हाथ जैसे कट चुके थे । पांच उंगलियों में से एक उंगल गायब हो गई थी । भरे मन से उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया ।

धार निकालते समय जीते के हाथ कांप रहे थे । कई धारें बाल्टी की बजाए जमीन पर गिर रही थीं । टिक्के का लंबूतरा सा चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम रहा था । अचानक किसी ख्याल ने उसे आ घेरा, वह बोला— जल्दी कर लो भई, अस्पताल जाना है । वह फुर्ती से हाथ चलाने लगा ।

—अस्पताल क्या करोगे जाकर ? सरदार ग्राहकों को दूध देता हुआ बोला ।

—और तो कुछ नहीं कर सके दार जी, टिक्के के साथ शमशान तक तो हो आयें ।

—कोई जश्न नहीं.....मैं कह आया हूँ कमेटी वालों को..... खुद ही जला देगें, सरदार ने खीभ भरा उत्तर दिया ।

जीते ने काम बीच में ही छोड़ दिया । पता नहीं क्या हुआ, उसका पूरा जरीर कांपने लगा——सरदार जी, टिक्का कोई कुत्ता था, जिसे जलाने के लिए कमेटी वालों को कह आए हो ।

—जुवान न लड़ा जीते.....समझा, सरदार ने जीते को आंखे तरेरते हुए कहा——तेरा मतलब है मैं मुद्दे उठाए फिरूं कंधों पे.....और फिर उस आदमी को जिसने पूरे पन्द्रह सौ रुपये कुएं में फेंक दिए ।

—काम भी तो दार जी आपका ही करता था.....कौन सवा सौ में सारा दिन मल-मूत्र में छुसा रहता है । भजना बोल उठा ।

—तुम्हरा मतलब है अपना काम छोड़ नौकरों की सेवा टहल में ही खो जाऊँ ?

—मतलब तो इतना है दार जी, कि नौकरों को भी आदमी समझो... जानवर नहीं ।

—जानवर तो तुम हो ही.....मेरे समझने न समझने से क्या फर्क पड़ता है । सरदार ने रुखे स्वर में कहा—सुसरे मालूम नहीं कौन सी हवाओं में उड़ते हैं ।

यह बात सुननी थी कि झगड़ा खड़ा हो गया । सरदार भजना और जीता टिक्के की वापसी

वहस रहे थे । पास खड़े ग्राहकों ने वात रफा दफा करनी चाही ।

—ठीक कहा आपने दार जी । अचानक अब तक चुप खड़ा मिठू जो सरदार को लगातार बूर रहा था, उंची आवाज में बोला——अच्छा किया जो हमें हमारी ओकात बता दी । हम तो और ही चक्कर में थे.....आंखें तो आज खुलीं ।

सरदार चुप्प हो गया । माहील विगड़ता देख उसे लगा कि वह जल्दवाजी कर रहा है ।

—चल ओए जीते तैयारी कर, मिठू कह रहा था——भजने, बहादुर चलो सभी ।

—मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं । चुप करके काम करो ज्यादा चीं-चीं न करो.....यदि नहीं तो रखो मेरे पैसे इधर और अपना रास्ता नापो.....पक्की छुट्टी करो । सरदार ने दांव फैका । प्रत्येक सरदार का देनदार था । समय-समय पर सभी ने पैसे लिए हुए थे ।

—छुट्टी तो दार जी यूँ नहीं करेंगे । मिठू जाता जाता रुक गया——और हिसाब किताब भी पूरा करेंगे, चिंता न करो.....काम करते हैं तो पैसे लेते हैं, हमारा हक है वह । पर पैसे को देखने वाली तुम्हारी और हमारी नजर में अंतर है.....ये न भूलो कि टिक्का भी हममें से एक था ।

—तू चुप होता है कि नहीं । सरदार के लिए पानी सिर से गुजर गया था । गुस्से से उसकी मूँछें भी फरकने लगी थीं ।

—दार जी हम तो चुप ही थे । हाँ, टिक्के ने अब यह चुप्पी तोड़ दी है ।

चारो नौकर बाहर को चल दिए । बौखलाया सरदार उन्हें जाते देखता रहा । उनके आठ कधे दिखाई दे रहे थे । उसे लगा कि चारों टिक्के की लाश को कभी इस कंधे से सहारा दे रहे थे तो कभी उस कंधे से । अचानक सरदार को लगा कि तस्ते पर सफेद चादर में लिपटा टिक्का उठकर बैठ गया है ।

(पंजाबी मूल का रूपांतरण न० नि०)



□ नमिता सिंह

## नतीजा

बस से उतर कर लगभग दो फैलाई को रास्ता था। इटरव्यू इसी ग्रामीशान इमारत के भीतर आफिस से होता था। कलंशाम-इधर से गुजरते हुए उसने देखा था कि बिल्डिंग की चोटी पर “सीको” के अंग्रेजी में बड़े-बड़े अक्षर नियान लाइट में जगमगा रहे थे।

बड़ा सा फाटक, उसके पास की दीवार पर अंग्रेजी में “इन” खुदा हुआ था। कुछेक लोग वाहर भीतर आ जा रहे थे। अंदर घुसने पर चौड़ी सड़क आगे जाकर दो हिस्सों में हो गई थी। एक लंबा सीधा रास्ता जो मुख्य बिल्डिंग के पीछे के हिस्से को तथा दूसरा गोल धूमता हुआ दूसरे सिरे पर। धूमे हुऐ रास्ते के बीच में फैला हरा मखमली लान जो चारों ओर रंग विरंगे फूलों की दो-नीन कतारों से घिरा हुआ था। अंदर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कुछ हिस्से गुलाबों से भरे थे। पोर्टिको के अन्दर तथा वाहर गाड़ियां खड़ी थीं।

इस भव्यता को देव कर मन ही मन कुछ सकुचा सा गया वह। भीतर जाने के लिये बड़ा सा शीशे का दरवाजा जो एक बड़े हाल में खुल रहा था, खामोशी के साथ खुल गया। अंदर घुसने पर पहला कदम रख कर ज्यों ही दूसरा कदम आगे बढ़ाया कि अचानक वह लड़खड़ा गया, लेकिन फौरन ही संभल गया। फर्श काली-सफेद बुंदियों वाले मुजैक सा-वेहद साफ और चमकीला। चिकना तो इतना ज्यादा कि जरा सी वेख्याली में आदमी चारों खाने चित्त हो जाए। सावधानी से जमा-जमा कर पैर रखता हुआ वह उस ओर गया जहाँ संके पर दो नौजवान लड़के बैठे थे। एक दूसरे की उपस्थिति से बेखबर।

—एकसक्यूज मी, सीको के.....

उस नवयुवक ने विना कुछ बोले बाई और कोरीडोर के पास बैठे

आदमी की ओर इशारा किया। वह अधेड़ सा आदमी सूट-बूट पहने, चश्मा लगाये कागजों की जांच पड़ताल कर रहा था। गिरन पड़ने की सावधानी की बजह से वह अब तक उस ओर देख ही नहीं पाया था। धीमे-धीमे पैर रखता वह उसके पास गया।

### —गुड मार्निंग सर।

और अपना इंटरव्यू लेटर निकाल कर मेज पर रख दिया। उसने लेटर लेकर एक भरपूर नज़र उस पर डाली और सामने पड़े कागज पर कुछ लिख कर सर हिला दिया। वापिस वहीं, उन लड़कों के पास एक दूसरे सोफे पर वह भी बैठ गया।

अब तक वह काफी सहज हो गया था। इंटरव्यू लेटर देखने वालों के पीछे ही कोरीडोर के सिरे पर एक आफिसनुमा कमरा था, जिसमें अभी-प्रभी वह आदमी गया था। जिसके कमरे के बाहर तख्ती लगी थी।

### आफिस सुपरिटेंडेंट—सीको सिथेटिक्स।

सफेद-तख्ती पर काले चमकते अक्षर। हाल के विन्कुल दूसरे सिरे पर, कोरीडोर के ही सामांतर ऊपर को सीढ़ियां थीं। इस बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यालय तथा अधिकारियों के कमरे ऊपर की मंजिलों पर ही थे।

उसने घड़ी पर नज़र डाली। सबा दस हो रहे थे। इस बीच तीन-चार और इंटरव्यू देने वाले आ गये थे। सभी नौजवान लड़के। उसने देखा लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत लड़खड़ाते जरूर थे अंदर आते हुए। और फिर दुष्ट फर्श को धूरते हए संभल-संभल कर चलते। इतने लोगों में सिर्फ़ एक ही नया आने वाला गिरा था हाथ-पैर फैला कर लेकिन उसे देख कर कोई हंसा नहीं। सब इधर-उधर नज़रें धुमाते निविकार थे। वैसे वहां रोज काम करने वाले, आने-जाने वाले लोग खूब अभ्यस्त थे। एक जमादार उसी समय आकर एक बार फिर फर्श पौँछ गया था।

एक गाड़ी तभी बाहर आई। चुस्त, बर्दी में लैस ड्राईवर ने फौरन दरवाजा खोला और साहब ने अंदर प्रवेश किया। वह अधेड़ आफिस सुपरिटेंडेंट भी खड़ा हो गया था।

### —गुड मार्निंग सर, कह उसने चश्मा संभालते हुए सिर झुकाया।

साहब ने संभवतः धीरे से सर हिलाया था जो किसी ने नहीं देखा और मंथर गति से बिना किसी ओर देखे कोरीडोर की ओर चले गये। सभी लोग

भी अधेड़ बाबू का अनुसरण करते हुए अनायास ही खड़े हो गये थे । जांच-पड़ताल बाबू और चुस्ती के साथ बैठ गया था ।

पांच-सात मिनट के अंतराल में एक के बाद एक, दो और साहब आये । एक बहुत गोरे रंग के, लाल धारीदारी शर्ट के साथ लाल टाई में अपनी खासी उम्र के बावजूद आकर्षक लग रहे थे । दूसरे बाले तो मुँह में सिगार दवाये तेज-तेज निकल रहे ।

—अभी कितनी देर है ।

अभी बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन साहब, नहीं आये हैं—जांच पड़ताल बाबू ने बताया ।

इस बीच एक नवयुवक और आ गया था । आकर्षक वेशभूषा—खासा स्मार्ट ।

वह कुछ खलवली सी महसूस करने लगा । कही उसका सलैक्शन न हुआ तो ? हालांकि लिखित परीक्षा में पहला नंबर है उसका । फिर भी कोई भरोसा नहीं इन लोगों का । उसे सिगरेट की तलव महसूम हो रही थी । कभी-कभार ऐसे ही सौंकों पर वह एकाध पी लेता है । जेवे टटोली एक सिगरेट थी जेव में । यहां पीना ठीक है कि नहीं । नहीं । वह बुद्बुदाया और हाल से बाहर निकल आया । वह सिगरेट मुलगा धीरे-धीरे टहलता हुआ गेट के बाहर आ गया ।

पांच-दस मिनट चहलकदमी कर, वह फिर अदर आ गया । तभी एक लंबी गाढ़ी अदर को जाती दिखाई दी । वह भी तेज-तेज कदमों से हाल की ओर चल दिया । एक भारी भरकम शरीर अदर जा रहा था । पीछे से उसका गंजा सिर खूब चमक रहा था । वह अदर जांकर फिर सोफे पर बैठ गया ।

पास वाला लड़का अंदर की ओर इशारा करता हुआ बोला—यही चेयरमैन है ।

वह चुप रहा । उसने अपना सिर सोफे पर टिका लिया । वक्त गुजर रहा था और अभी इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ था ; उसने घड़ी देखी । साढ़े चारह बजने को थे । इस हिसाब से तो कही शाम न हो जाय खत्म होते-होते । नगभग दस-बारह लोग थे इंटरव्यू के लिए । शाम उसे हर हालत में हास्पीटल पहुंचना था । और बहुत से काम करने थे । वह उठ कर फिर चहलकदमी करने लगा ।

—मिस्टर अर्विंद कुमार—अधेड़ बाबू ने उनसे मुखातिब हो पुकागा ।

—येस । वह स्मार्ट सा लड़का खड़ा हो गया ।

—प्लीज गो अप-स्टेयर्स ।

उसने आफिस सुपरिटेंडेंट के पास आकर अपना नवर देखा । उसका नंबर दसवां था । उसने अब इंटरव्यू के बारे में सोचना बंद कर दिया । सोच-सोच बिना बात दिल धड़कने लगता है । यह उसका पहला इंटरव्यू तो नहीं था, तीसरा था शायद, लेकिन इन्हीं बड़ी जगह पर वह पहली बार आया था । इससे पहले स्थानीय कालिजों में लेक्चररशिप के लिये गया था । यहाँ इस इंटरव्यू में हिंदी में तो क्या बात करेगे ये साहब लोग । उसने सोचा दो एक वाक्य अंग्रेजी के वह सोच ले ताकि शुरूआत ठीक से हो जाय । शुरू में अगर कभी वह हड्डबड़ा जाता है तो वस, पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाता है । वैसे अब ज्यादा न सोचा जाए तो ठीक है । कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ से पूछ लें—क्या पूछा लें ।

अर्विंद कुमार लगभग पंद्रह मिनट बाद वापिस आये ।

—क्या-क्या पूछा आपसे उन लोगों ने ।

—आल जनरल—लापरवाही के से अंदाज में अर्विंद कुमार ने कंधे उच्चका दिये और सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया ।

वह फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया । कुछ समझ नहीं आया तो कंधे से लटका अपना थैला गोद में रख लिया और उसमें से अपने स्टिफिकेट निकाल कर उन्हें जांचने लगा । फिर अच्छी तरह एक-एक सहेज कर वापिस थैले के अंदर ही रख दिये । अचानक उसे लगा वह अपनी उंगलियाँ चटखा रहा है । वह भेंपेसा गया और हाथ नीचे कर सीधा होकर बैठ गया ।

ब्लड बैंक तो वह अब कल सवेरे ही जा पायेगा । रात चाचा के पास जाना भी जरूरी है । इन बड़ी जगहों में तो आने-जाने में ही इतना वक्त निकल जाता है । चाचा कुछ मदद कर दें तो अच्छा हो वर्ना फिर कम-से-कम सात आठ सौ का इंतजाम तो उसे कहीं न कहीं से तुरत ही करना पड़ेगा । पिछले दो सालों से मां-वेटा दोनों का काम उसी के स्कालरशिप से चल रहा है । क्या मुसीबत है । अब जब समय आ रहा था कि वह इस लायक बनता कि कुछ कर सकता माँ के लिये तो वह विस्तर से लग कर मरने को हो गयी है । उसे तो हर हालत में बचाना है । कुछ दिन तो माँ सुख

और आराम मे जिये..... ।

— —मिस्टर मधुकर..... ।

— —ओह——यस सर । वह किंचित हड्डबड़ाता-सा उठ खड़ा हुआ और तेजी से ऊपर की ओर चल दिया । तभी चिकने फर्श का स्थाल आया और वह सावधानी से कदम रखने लगा ।

ऊपर दरवाजे पर बैठे चपरासी ने उसे देख कर दरवाजा खोल दिया । एक क्षण वह ठिठका आज्ञा लेने के से अंदाज में और फिर अपनी चाल को भरमक स्वाभाविक बनाता हुआ वह अंदर चला गया ।

ठंडा वातानुकूलित कमरा । सिहरन हुई । आठ जोड़ी आंखें उसकी ओर मुखातिब थीं । गंजे सिर वाले चैयरमैन साहब ने एक नज़र उस पर ढाली और फिर पास रखे कागजों में व्यस्त हो गये । टाई वाले साहब ने उसे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया ।

—थेंक्यू सर ।

—हूं— ५५५५—चैयरमैन साहब ने हुंकारी-सी भरी ।

— मिस्टर मधुकर——दूसरे साहब ने मुँह से सिगार निकाल लिया था ।

—यू टाप्ड द लिस्ट इन रिटिन टैच्ट ।

— येस सर वह उल्लासित हुआ ।

उन लोगों ने उससे प्रश्न पूछने शुरू किये । सिगार वाने तथा लाल टाई वाले शायद प्रतिष्ठान के तकनीकी विशेषज्ञ थे । वे ही लोग प्रश्न पूछ रहे थे । उन्होंने उमके ही विषय पर पूछना शुरू किया । अपना विषय । उममें वह कही भी कम नहीं था ।

उसने दो साल पहले एम० एस० सी० किया । बी० एस० सी० तक कभी ट्रूयूशन, कभी छोटे-मोटे बजीफो के सहारे ही पढ़ता रहा । थोड़ा बहुत इधर-उधर के छोटे-मोटे काम करके, कभी कपड़ों की सिलाई, तो कभी जाड़ों में स्वेटर बुन कर उसकी मां भी कुछ न कुछ पैसे कमाती रही । पर पिछले तीन साल से लगातार मां की सेहत गिरती जा रही थी और अब तो पूरी तरह से उसने खाट पकड़ ली है । इन्हीं चक्करों में वह एम० एस० सी० में बहुत मुश्किलों से अपनी डिवीजन बचा पाया । कुछ लोगों की मेहरबानी से उसे रिसर्च में दाखिले के साथ-जाथ एक स्कीम के तहत स्कानरशिप भी मिल गया । लेकिन इस बजीके ने भी उसको मिट्टी कर दिया । सारा दिन लैंब

मेरे गुजारने के बाद सबेरे शाम उनके घर पर हाजिरी दो और घर की, दाहर की सारी वेगार करो। कितनी बार सोचा कि एक आध ट्यूबन और पड़ङ्ग ले लेकिन फिर इस लायक नहीं रह जाता कि कुछ और बर सके। इसीलिये उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी कोई नौकरी मिले तो भझट कटे। सीढ़ों के एकजीक्यूटिय आफीसर के लिये जब जगहें निकली तो उसने रात्रिदिन कर दिये और जुट कर इम्तहान दिया। नतीजन लिस्ट मे उसका पहला नाम था। कगीब पाच सौ लोगों में पहला। जब इंटरव्यू मे भी उन लोगों ने उन्हीं विषयों मे सवाल पूछने शुरू किये तो फिर वह पीछे कैमे रहना। उसका आत्मविश्वास जम रहा था और बहुत सहज रूप से उनके सामने बैठा जबाब दे रहा था। काफी देर बाद कुछ इधर-उधर सामान्य ज्ञान के सवाल तीसरे आदमी ने पूछे। इन दौरान चेयरमैन कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ उनका गंजा सिर अक्षर हिल जाता था, मानो वह इस पूरी गुफनगू ने सहमत हो।

लगभग आधे घटे बाद उसकी छुट्टी हुई। उसके बाद दो लोग प्रौर थे। वह वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया।

—दे टुक अ बैरी लाग टाइम विद यू। उदासीन सा लगने वाला लड़का उससे कह रहा था।

—ये ११११ स। और वह अनायास कधे उंचका कर हम दिया था।

वह आखिरी लड़का नीचे उतर कर आ चुका था। उसके पीछे कागज जांचने वाला बाबू भी।

—आल यू मे गो नाउ, प्लीज। मिन्टर मधुकर एण्ड मिस्टर अनुपम, प्लीज स्टे।

मिस्टर मधुकर—उसका दिल जोर-जोर से घड़कने लगा। अनुपम वही पहला वाला लड़का था, स्मार्ट-सा। तब तो पक्की है यह नौकरी। उसका मन गहरी खुशी के साथ-प्राथ एक तेज उत्तेजना से भर गया। लिखित परीक्षा मे सबसे ज्यादा नंबर पाने पर भी उसे वास्तव मे पक्का विश्वास नहीं था कि इस बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान मे वह नौकरी पा लेगा। विना सिफारिश भला आजकल कही नौकरी मिलती है। श्रीराम डिगी कालिज मे इंटरव्यू के लिये गया था। मैनेजमेट की अपनी ही जाति का एक उम्मीदवार लगभग तय था जिसे वहां लेना था। उसको काटने के लिये ऐसी बात ढूँढ कर निकाली कि बस—मधुकर साहब, आपको पर्सनलिटी बहुत

अच्छी नहीं। आप तो कर्तव्य लेकर जैसे नहीं लगेंगे। उन उल्लू के पट्ठों से पूछो कि चार सौ रुपयों में परिवार पले, उसी में उसकी माँ का इलाज, दबावार हो, और फिर वह पर्सनलिटी भी बना ले। वह समझ गया कि उसे यहां नहीं लेना है। फिर वह क्यों रहे—सर, जिस दिन अपने बजीके से नहीं, आप लोगों की तरह किसी विजनेस से अपना परिवार पलेगा, उस दिन से पर्सनलिटी भी दृष्टे लगेगी—— और चिक उठा कर बाहर निकल आया था। लेकिन अब, इतनी बड़ी जगह। पूरे हिंदुस्तान में फैला है सीको का व्यागर। विदेशों में कितने ही एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के केंद्र हैं। सिस्टेटिक धारा, करड़ा मिलें, इजिनियरिंग का सामान, धी, तेल, साबुन—— क्या नहीं बनाते हैं ये लोग। लेकिन मान गये साहब। योग्यता भी कभी-कभी कोई चीज होती है। भला बताओ कितने मामूली घर का लड़का न आकर्षक पर्सनलिटी और न कान्वेन्ट के लड़कों की तरह धड़ाधड़ लटकेदार अंग्रेजी। खैर, वह तो जगह और काम सब सिखा देता है।

इस व्यापारिक प्रतिष्ठान के प्रति उसे अद्वा सी होने लगी। पिछले दिनों दूसरे राज्य में इसी की एक शाखा के मजदूरों पर गोली चली थी। तब से उसे तो इंटरव्यू होने की भी उम्मीद नहीं रही थी। लेकिन बताओ इंटरव्यू भी हुआ और उस जैसे मामूली, बिना सिफारिश बाले को उन्होंने चुना। योग्यता ही तो देखी। इन बड़े प्राइवेट विजनेस प्रतिष्ठानों में नीकरी की इच्छा आज ज्यदातर रहे-लिखे नौजवान लड़कों की होती है। इस पोस्ट में तो ज्यादा काम देखभाल, एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। पी० एच० डी० करके ही क्या कर लेगा। एक से एन डाक्टरेटधारी मारे-मारे फिरते हैं। एक साल की ट्रेनिंग में छः सी रुपया माहवार और फिर सीधे बारह सौ से चुहूग्रात। मन खुशी में फूवा न जाने कहां-कहां घूमने लगा।

—मिस्टर मधुकर। जांच पड़ताल बाला अधेड़ बाबू नसे फिर ऊपर जाने को कह रहा था, काफी आत्मीयता और इज्जत के साथ या पता नहीं उसे ही ऐसा लग रहा था। कभी-कभी किस तैजी से चारों ओर की चीजें बदल जाती हैं।

अब को वह प्रसन्नचित अंदर घुसा। सर भुका कर अभिवादन करना भी नहीं भूला। यह उसका भ्रम नहीं था। वे लोग सचमुच काफी आत्मीयता औड़े हुए थे। बात गंजे सिर बाले ने ही चुरू को।

—मिस्टर मधुकर, आई कांग्रेचुलेट यू फार योर परफारमेंस।

—थैंक्यू सर ।

वे उसे काम के बारे समझाने लगे । काफी कुछ तो सिर के ऊपर से ही निकल रहा था । कमबख्त खुशी के मारे दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा था । वे कड़े एडमिनिस्ट्रेशन वरतने के लिये और पूरी लगन और मेहनत से काम करते के लिये वह रहे थे । खैर, मेहनत से कौन घबराता है । उसने हमेशा ही बड़ी मेहनत की है । उसी की बदौलत यहाँ है । फिर उन लोगों ने मजदूरों और उनकी हड्डतालों पर बात शुरू की ।

—वैल, मिस्टर मधुकर, व्हाट्स योर ओपीनियन अवाउट लेवर अनरेस्ट ।

—सर, इट सटेनली अफक्टस प्रोडक्शन एण्ड दस, वेरी हार्मफ्युल फार नेशनल प्रोग्रेस.....वह चार पांच बाक्य घड़ाघड़ लेवर अनरेस्ट पर बोल गया मानो किसी कालिज डिवेट में बोल रहा हो । सभी ने उसके साथ सिर हिलाया । सिगार बाले साहब ने अपना सिगार निकाल कर अलग रख दिया था । वे अपना सिर उसकी ओर झुका कर उसे अब धीरे-धीरे समझा रहे थे ।

—लेवर ट्रूल बहुत बढ़ रहा है । इन चीजों को टैक्टफ्ली डील करने में आसानी होती है । देखने में लगता है कि उनकी मांगें ठीक हैं पर उद्योग तो ऐसे नहीं चल सकते । उसे रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी.....ठीक है करेगा सब । मेहनत करेगा, टैक्ट से काम लेगा.....लेवर प्राव्लम से भी निपटेगा.....सब करेगा..... ।

—आल राइट, मिस्टर मधुकर । आप कल या परसों आइए और रिपोर्ट कीजिये इसी आफिस में । देयर विल बी ए मीटिंग आफ बोर्ड आफ डायरेक्टर्स आफ दिस ब्रांच फार हू डेज । हम आपको वहाँ इन्ट्रूड्यूस करना चाहेंगे । तभी आपका फाइनल सलेक्शन होगा । वेटर यू कम आन टुमारो ।

—यस, टुमारो । ओ. के.। गजे ने की सहमति जताई और अपनी डायरी निकाल कर उसमें कुछ लिखने लगा ।

—टुमारो यानी कल, स्प्रिंग सा कौंधा उसके दिमाग में ।

उसने सोचा, कोई हर्ज नहीं है कहने में । वेचारे सब आत्मीय ही तो हैं । यह गंजा चैयरमैन तो सचमुच बहुत भला है । ...सर, फिक्स इट फार डे आफ्टर टुमारो । परसों हाजिर हो जाऊंगा, सर । तभी चैयरमैन के माथे पर बल पड़ते देख वह कुछ घबरा सा गया । कल, कल मेरी माँ का आपरेशन है सर, वेरी

सीरियस आपरेशन। —, वहा ५५ ट गंजे चेयरमैन का चेहरा अब तक सचमुच फैल चुका था।

—मां का आपरेशन है——सिगार वाले साहब ने सिगार मुँह में दबा कर किंचित हास्य के साथ दुहराया मानो मतलब समझा रहे हों। अन्य दो के चेहरों पर भी कुछ विम्मयता थी। नया लड़का, जिसको अभी अपाइंटमेंट लेटर मिलना है। उसका इस तरह बात काटना शायद उनके गले नहीं उतरा।

अगले कुछ क्षण गहरे सन्नाटे में छूवे रहे।

गंजे चेयरमैन ने एक उड़ती सी नजर सब के चेहरों पर डाली। फिर अपने बगलवाले की ओर देखा। उन साहब ने धीरे से आंख मूँद कर मानो अपना निर्णय दता दिया था।

गंजे चेयरमैन अब तनावरहित था। उसके होंठ धीरे-धीरे वेहद स्थिर और ठड़े स्वर में खुले।

—आय एम सारी मिस्टर मधुकर। योर अपाइंटमेंट इज कॉसिल्ड। अब आप आने की तकलीफ न करें।

बगल वाले साहब शायद कुछ उत्तेजित लग रहे थे। वे तेजी से बोले—  
यू नो, माई मदर वाज आन डेथ बैड वट ड्यू टू लेवर ट्रूबल आई कुड नाट डेयर द्व  
आस्क इवन फार दू आर्ज लीव। वी डोंट वांट सच इमोशनल आफीसर्स।  
आप कैसे पूरी-पूरी फैक्ट्री का, मिल का, इंतजाम चलायेंगे——इस तरह जज्बाती होकर।

' सिगार वाले साहब ने धीरे से सर हिलाया। ओरों के चेहरों पर भी सहमति का भाव था। बगल वाले साहब ने तेज नजरों से देखते हुए कहा।

—फिर सोच लीजिए। कल या फिर कभी नहीं।

—“सर-सर” वह हकला गया। उसका दिल चाहा वह चीख-चीख कर कहे——मैं परसों, कल जब कहो आ सकता हूं, जैसे बुलाओ, जब बुलाओ आने को तैयार हूं.....लेकिन उसके मुँह से एक भी शब्द नहीं फूटा। वह फटी-फटी नजरों से देवकूफ बना उन लोगों को देखता रहा।

—सर.....। उसने एक बार फिर कोशिश की। वह कैसे समझाये उन्हें कि उस अकेली जान ने किस तरह उसे इतना बड़ा किया कि वह यहां बैठने लायक हुआ है। वह मरने को है—वह कल सारा दिन

यहाँ कैसे गुजारे.....

—नो मिस्टर मधुकर। गंजे ने अंतिम रूप से सिर हिला दिया।

—आपके नीचे एक-एक यूनिट में हजार-हजार आदमी काम करेगा। रोज उनकी हड्डताल, उनके धरने। फैक्ट्री में कभी किसी का हाथ ढूटा तो किसी का पैर। कोई गिरा——कोई मरा——रोज नेता लोगों के धरने। आप तो लगता है खुद भी बैठ कर रायेंगे उनके साथ। यू मे गो नाऊ प्लीज।

और फौरन मेज के नीचे से घंटी बजा दी। बुराक वर्दी में लेस चपरासी अंदर आ गया था।

भन्नाता हुआ भिर लिए वह खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब लोगों के चेहरे से वह आत्मीयता कहाँ गायब हो गयी। दरवाजे तक पहुंचते-पहुंचते उसके भीतर का मुर्दा सन्नाटा अब गुस्से की गर्मी से मानो पेघलने लगा था और उसके दिमाग की नसें लगातार तन रहीं थीं। जानवर कहीं के,.....बुद्बुदाते हुए जोर से उसने दरवाजा ठेला। और एक बार पीछे मुड़ कर देखा। स्प्रिंगदार दरवाजा बंद हो चुका था। उसके मुंह का रवाद न जाने कैसे कसैला हो गया था। उसे लगा कि कहीं उसे उल्टी न हो जाय। पिच्च से हंडे सारा थूका और तेज-तेज धड़धड़ाता हुआ नीचे उतर आया।

○

□ नरेन्द्र निर्मोही

## कवड्डी

गांव में अचानक घमाका हुआ। ध्याना गांव का सरपंच चुन लिया गया। खानदानी लोगों के लिये यह घमाका नहीं तो क्या था कि एक कामगर इतने भारी बहुमत से जीत गया विशेषकर उस गांव में जहाँ के बच्चे गांव में आई कारों और स्कूटरों को हज़रत भरी निगाहों से देखते रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कार स्कूटर नहीं देखे, कई बार उनका अग-अंग छुआ है, मुंह जे टी-टी भी की है परंतु फिर भी न जाने किस प्रैग्गण्य से वे इनकी आवाज सुनते ही वरखस चिंचे चले आते हैं। कठपुतली की माफिक कोई एहसास उन्हें न चाये रखता है। यह एहमान उन्हें विरासत में मिला है। घर, खेत, खलिहान जहाँ कहीं वे होते हैं, बड़े-बड़ों के मुंह से अक्सर इन्हें कारों स्कूटरों के बारे में सुना है। कल जो कार आई थी न, वह डिप्टी के बेटे की है, अपने विक्रम का पक्का धार। परसों जो स्कूटर आया या न वह धानेदार के बड़े लड़के राजकुंवर मिह का है। मुख्तसर सी बात तो यह है कि कारों स्कूटरों की बातों को ले कर गांव बिल उठना है चूंकि दिन भर की गुड़ाई-निराई की मेहनत के बाद आराम के इन धरणों में बतियाने के लिये उन्हें कोई न कोई मसाला मिल जाता है। गांव के एक-एक घर की खदर, किसके यहाँ जंवाई आया, किसकी बिटिया गौता लेकर गई, कौन जहर गया और कौन वह लिवा कर लाया, बां-बरोले सी गांव की चौहदारी में घूमती रहती है और जब तक कोई नई बात या खदर गांव तक नहीं पहुंचती, पुरानी बात ही चटनी की तरह चटखारे लेकर सुनाई जाती है। इस लिहाज से गांव काफी तरक्की कर गया है कि हर रोज यहाँ कुछ घटता बढ़ता रहता है। जिन दिनों खदरों का अकाल रहता है वडे वुजुर्ग कवड्डी मैच की बात सोचते हैं और उस बैठक में ददि ध्याना हो तो कवड्डी मैच निश्चित है क्योंकि उसे मैच खेलने-खिलाने का पांगलपन की हृद तक शौक है। उसे जीने का सहारा मिल जाता है। सोचों के घोड़े

दौड़ाने को मिलते हैं, एकरसता चटखने लगती। है उसे न तो बेटी के विवाह की चिंता, न बेटे को व्याहने का शौक, न बीवी की बक-बक, न वहन के घर आने की प्रतीक्षा और न भाई से मिलने की उमंग। उसका कोई नहीं है, उसे लेकर वह कई बार परेशान हुआ था, रोया सुवका और ऐसे ही भावुक क्षणों में उसने कितने ही धर्म भाई, वहनें, माँएं, बेटियां बनाई पर सभी सबध मुश्क कपूर से हवा में उड़ते चले गये। इस टीस को भुलाने के ख्याल से वह कभी बांसुरी बजाना सीखता तो कभी ढोलक, कभी तबलची बनता तो कभी तानसेन। पर कुछ ही दिनों में उसे महसूस होता कि जीवन के प्रति उसकी उदासी और भी बढ़ गई है। बांसुरी की धुन दिमाग में खलबली मचाने नगती तो वह उसे पत्थर पर दे मारता और जब तक उसे चिदी-चिदी न कर देता चैन ही न पड़ता। तिनकों को हाथों में ले फूंके मार-मार हवा में उड़ा, बड़बड़ाता—साली हरामजादी जिदगी..... कुछ देर बाद यह उन्माद उत्तरता तो कंकड़ उठा तालाब में फैकने लगता। ककड़ फैकते-फैकते थक जाता तो गुलेल उठा शिकार पर निकल पड़ता। शाम को दूर्टी खाट पर लेट, पांवों में से चुभे 'सूल' निकालते-निकलते खून वहने लगता तो वह मुस्कराता। गाँव में रहता भर ही था किसी तरह का कोई रिश्ता गाँव से नहीं रह नया था। कोई भी अपने बच्चों को उसके सग न रहने देता उन्हें अंदेशा रहता कि वह उनके बच्चों को भी अपनी तरह बुमकड़ बना देगा। हां गुड़ाई-निराई के दिनों में उसको खूब खोज-खबर ली जाती। गाँव में उसे जैसा सस्ता कामगार कोई न था। रक्खु, गतना मुरक्कू, लंबड़ उसके ठिये के चक्कर काटते रहते। उसके बारे में मशहूर था कि ध्याने का तो एक ही उसूल है जहां देखी तवा-परात वहीं गायी सारी रात।

ये तो ठीक से नहीं मालूम कवि किस दिन और कहां कबड्डी खेलने का शौक चर्चिया। एक दिन उसकी टीम ने प्रांत की सभी टीमों को हरा कर ट्राकी जीत ली तो वह गाँव भर में चर्चा का विषय बन गया। इसी दिन नरे से उसका परिचय हुआ था जो धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गया। वह नूरे के माध्यम से बहुत कुछ जान गया। सबसे पहली बात जो उसने जानी वह थी काम की पूरी मजदूरी लेना। नूरा जब उसे समझाता कि काम की पूरी मजदूरी न ले, वह अपने भाई बंद लोगों का ही बुरा करता है तो वह हैरान हो पूछता कि मजदूरी वह नहीं लेता तो नुकसान दूसरों का कैसे होता है? नूरे ने जब उसे समझाया कि उसके ऐसा करने से जमींदार उसका उदाहरण

दे और मजदूरों की मजबूरी भी कम कर देते हैं तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कहीं कुछ गलत करता रहा है।

अब वह प्रांत, जिला गहर के किया कलापों का विस्तृत विवरण गांव वालों को सुनाने लगा था, आवाज में बला का सोज था। जो उसे सुनने लगता। पूरी सुने बिना न उठता। वह ऐसे-ऐसे मजेदार किस्से सुनाता कि सुनने वाले हैरान हो उठते। उन्हें यकीन न होता कि दर-ब-दर भटकने वाला ध्याना इतनी अक्ल का भाषिक भी हो सकता है। बच्चों ने तो उसका नाम चलता फिरता रेडियो रख छोड़ा।

फार्म भरने की आखिरी तारीख तक, ध्याने का चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। उसके लिये यह तिरदर्दी से ब्रह्मिन कुछ न था। कौन प्रत्येक के उत्ताहने सुने और उसे तो न काहू का लेना न काहू का देना। पर उसी दिन हुई घटना ने उसे भिखोड़ दिया था और वह फार्म भर आया था।

'यूं तो बात कोई नहीं थी। कमीन कितनी ही बार ठाकुरों, बाह्यनों के हाथो पिट चुके थे किन्तु उस दिन विनोद महर ने फत्तू को, उसके जंवाईं के सामसे बुरी तरह पीट दिया जिसे उसका जवाई सहन न कर सका। उसने विनोद महर को गरेवां से पकड़ तड़ातड़ तीन चार घूंसे जड़ दिये। देखते देखते वह जगह दगल का अखाड़ा बन गई। किसने किसे पीटा, किसकी हड्डी चटखी, किसके नाक से खून बहा, किसकी नाक टूटी पता न लग सका। लाठियां-टक्कुए निकलते निकलते पुलिस पहुंच गई। तीन-चार जमीदारों और तेतीस कामगरों को हिरासत में ले लिया गया। विनोद महर को छोड़ बाकी दोनों जमीदार उसी शाम छूट आये थे। सापों से फुफकारते वे इधर-उधर धूमते रहे मानो शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला हो। उस समय चुनाव रूपी बेड़ियां थीं वरना एकाध कल्प तो हो ही जाता।'

उसी शाम सगय में पंचायत जुड़ी। वहस मुवाहसो के बाद यह निराय लिया गया कि राजीनामा कर निया जाए नहीं तो सारे गांव की बेइज्जती होगी अन्ततः राजीनामा हुआ।

ध्याना कामगरों के बीच बैठा फत्तू को सुन रहा था, 'ध्याने, तूं ही हमारी मां, वाप, भाई, वहन है। तेरा तो कोई है नहीं जिसकी मजबूरी तुम्हें जमीदारों के तलुए चाटने पे मजबूर करेगी। तूं सरपच बने तो हमारी जून सुधरे। करमू ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 'तूं तो संत आदमी है। कौन है

जो तुझ पर उंगली उठाए !' अभी कुछ देर पहले छुप कर सुनी हुई बान पेट में अपच की जिकायत बनी हुई थी । अपने आप फूट निकली—अभी अभी महरों के पिछवाड़े सुन कर आया हूं, धर्म से । किशोरी इलैक्सन के बाद हमें बुरी तरह जलील करेगा । कह रहा था —विनोद महर, आखिर तुम समझते क्यों नहीं । इस समय झगड़े को बढ़ाना अपने ही पांच काटना है । किसी तरह चुनाव तक इस अपमान को पिये रहो । उसके बाद तू जो कहे मैं न कहूं तो किसी बाघणी का नहीं, चमारी का जाया समझता । लोभी नाय पटवारी भी उनकी तरफ है, गलती में न रहना । यह सनसनीवेज ब्वर सुन वे और भी पास में खिसक आये ।

किशोरी ने हर सभव तरीके से ध्याने को सर्वंन का चुनाव न लड़ने की सलाहें दी । अपने कामगरों के माध्यम से धमकिया भी कि यदि वह नहीं माना तो हथ बुरा होगा । पर वह नहीं ही माना । उसने किशोरी की तरह न तो जगराता ही करवाया और न कठपुतली का नाच ही । उसने एक बात ही कही कि तुम जानते हो मुझे किसी के लिये कुछ भी नहीं जोड़ना । तुमने खड़ा किया है तो तुम ही जानो । और वह भारी वहुमत से जीत गया । तीन टोलों के खानदानी पंच, जो आजतक कभी इकट्ठे मिलकर नहीं बैठ सके थे अब विनोद महर की हवेली पर इकट्ठे हुए हैं । आज उनकी नाक कट गई है, इसी लिये ।

ध्याने के सर्वपंच बनने के बाद भी गांव का नक्शा पलटा तो भले ही नहीं, कुछ-कुछ बदला जरूर । अब जमींदारों का पहले सा दबदवा नहीं । उन्होंने दो तीन बार कामगरों को पीटा तो जरूर पर थाने जाकर ऐड़ियां भी रगड़नी पड़ी ।

गांव तक पक्की सड़क की मांग को लेकर पिछले काफी दिनों से ध्याना, पंचू, मैनू आदि जिला, कचहरी, विधानसभा हाल के चक्कर काट रहे हैं । पक्की सड़क की मंजूरी मिल जाए तो उन्हें काम भी मिल जाएगा और गांव की भलाई भी ।

इन दिनों विनोद महर के घर कारों स्कूटरों का काफी आना जाना है । कभी डिप्टी का लड़का आता है तो कभी मजिस्ट्रेट की लड़की । उन्हें हाथों में हाथ लिये चुहल-वाजियां करते हुए राह आती जाती गांव की लड़कियां और बहुएं टुकर-टुकर देख एक दूसरे को चिकोटियां काटती हैं—मोओ बेहया है ।

विनोद महर का लड़का विक्रम शहर के एक होस्टल में कई बर्घों से पढ़ रहा है एक-एक कक्षास में दो-दो साल लगा कर और उसी की बजह से ये लोग इधर आते हैं।

विक्रम कभी-कभार पुआल में इकट्ठे हुए लोगों के सानने जाकर अपने बारे में डेर सारी बातें बताता रहता है। वह हमेशा ध्यान रखता है कि सिर्फ वह ही बातें की जाएं जो उम्रों वेहनर और ध्याने को कुछ धटिया किस्म का आदमी सिद्ध कर सके चूकि नामनरों का ध्याने के प्रति जो नमर्यण भाव है, उससे वह भलीभांति परिचित है। तभी तो ध्याने का विरोध भी नहीं तुली बातों से करता है। वह निर्वित है कि गांव का कोई लड़का उसके सम्मुख नहीं पढ़ता जो उसकी लपट जिन्दगी के बारे में बता नके। क्रैक्स-ऐस-डिकॉन, सा काम उसने नहीं किया। जुआ, दाढ़, गांजा से ले राहजनी, डैक्टी, रैडीवांजी तक का चस्का उसने पाल रखा है।

पुआल पर बैठा रख्खू लुहार, ठंडा हो, चुका लोहा आग में दूब बीड़ी फूंकने लगा है। उधर बतना खुरपा चंडू लगा। फूल को ले-पुआल, पर लोगों में बातचीत जारी है। किसने नेतृत्व सौ भरीयां बांधुओं और दिसने ने दो सौ। विक्रम को पुआल की तरफ आते देख, कर्मजे-तमस्तम बुला अपना स्थान छोड़ दिया।

विक्रम की बातें लोग बड़े ध्यान से सुनते। आखिर शहर से आया है, उनकी तरह उजड़ तो नहीं कि खाई-पकाई और सो लिये। विक्रम द्वारा सुनाये गये शहरी किस्से वे बड़ी तन्मयता से सुनते हैं। पात में भले ही बम फट जाये उन्हें कोई चिता नहीं। उन्हें इत्र-फुलेल की चुबूतू और चंपावाई के गजरों का बर्णन रोमांचक लगता और ये भ्रम पाल लेना कि एक दिन शायद उन्हें भी ये सब नसीब हो, सुखद लगता। हर बार यहीं आकर बात नया मोड़ लेती है।

—काका है किसी को गांव की तरक्की का व्याल। ध्यानु काके से कित्ती बेर कहा कि और नहीं तो कम से कम मिडिल-स्कूल को हाई तो बनवा दे। पर उसके कान पर तो जूँ तक नहीं रेंगती। विक्रम ने इधर-उधर देखा यह जानने के लिये कि कहीं परमेसरी तो आस-पास नहीं। वही तो कल उसे बता गया था कि अब कुछ ही दिनों में हाई स्कूल बनने वाला है। ही० सी० कल परसों तक मंजूरी दे देगा।

—पर महर जी कुछ भी कहो, ध्याना है बड़ा ईमानदार। करमू ने हाथ जोड़ते हुए कहा।

—रहे न भोले के भोले ही, ईमानदारी कोई शहद है जिसे चाटते फिरें। भई लीडरी में तो पल्ले से भी कुछ लगाना पड़ता है कभी-कभी। गांव की तरक्की यूं थोड़े हो जायेगी।

—सो तो ठीक है, महर जी। पर गांव सरपंच की वपौती थोड़े ही है, जिसका वही ध्यान रखे। गांव तो सांझा है। फत्तू ने सहज भाव से कहा।

फत्तू को गहरी नजरों से भाँपते हुए विक्रम ने बात जारी रखी——काका यही तो मैं कहता हूं गांव सभी का है। गांव की भलाई सबकी भलाई। तुम तो जानते ही हो कि अपनी ऊपर तक पहुंच है, कल तहसीले गया था, डिप्टी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने हाई स्कूल के बारे में कहा। बोले——ये तो हुआ ही समझो और बताओ।

—ये तो बड़ा पुण कमाया है, महर जी।

—अरे भई खानदानी आदमी खानदानी होता है। प्रेमू ने धौंकनी चलाते हुए कहा।

—इसमें क्या शक है? देसू ने टेक लगाई।

विक्रम ये बताना भी नहीं भूला कि उसकी पहुंच चपड़ासी से ले मुख्य-मन्त्री तक है। वह चाहे तो गांव तक पक्की सड़क भी बनवा दे।

ध्याना हाई स्कूल व पक्की सड़क के लिये पंचू, मैनू पचमी आदि पंचों को साथ ले कभी एक आधिकारी से उलझा तो कभी दूसरे से। हाई स्कूल की मंजूरी आखिर उसने हासिल कर ही ली। उसने मंजूरी के कागज को बहुत गोर से देखते हुए, जेव में ढाला। मन ही मन प्रसन्न हो कि अब वह विक्रम के नहोरो से मुक्त हो गया है, गांव बाज़ो की संभावित खुशी की प्रतिक्रिया से रोमांचित हो, तेज-तेज कदमों से गांव की तरफ बढ़ने लगा। गांव में हाई स्कूल की मंजूरी का अपेक्षित गर्मजोशी से स्वागत न हुआ तो वह मन मसोस कर रह गया। सहसा ख्याल आया कि हो सकता है इन्हें खबर पर यकीं न हो। उसने कागज के पुर्जे को जमीन पर विछाते हुए कहा——यह देखो, मंजूरी। तभी बतनू ने बताया कि यह खबर तो विक्रम महर ने तीन घटे पहले ही दे दी थी, उसकी दौड़-धूप से ही तो मंजूरी मिली। पूरा गांव दो दलो में बंट गया। एक का विचार था कि हाई स्कूल विक्रम महर की बजह

से खुला है तो दूसरों का दावा था कि वह सब ध्याने, पंच, मैनू जैसे लोगों की हिम्मत से हुआ है। जब दो दल बन जाएं तो यह निश्चित प्राप्त हो जाता है कि उनमें आपसी झगड़े हों। झगड़े हुए पर छोटे मोटे। पक्की सड़क की बात को ले दोनों दलों ने कोशिशें शुरू की। पर दोनों की कोशिशों में अंतर था। विक्रम के लोगों को करना- करवाना कुछ नहीं होता था क्योंकि विक्रम ने उन्हें वेफिक्स रहने के लिये कह दिया था। वह सभी कुछ खुद देख लेगा। जबकि ध्याना, मैनू, पंचमी आदि अक्सर तहमील के चक्कर काट तपती दोपहर में लौटते और कभी कभी तो वहाँ किसी सराय में रात बिताते।

ध्याने के सरपञ्च बनने से और भी कुछ गांवों में उत्साह की लहर दौड़ गयी जिसके फलस्वरूप जमींदारों का प्रभुत्व दूसरे गांवों में भी कम होने लगा। उन्हें यह चिन्ता सताने लगी कि यदि एक एक कर सभी गांवों की सरपंचियाँ कामगरों के हाथों में चली गई तो वे ठूंठ बन कर रह जायेंगे। छोटी-छोटी सी बात पर कामगर तिड़कने लगे हैं। यह उनसे सहन नहीं होता कि टके-टके के आदमी उनकी पगड़ियों के रंग पहचानें। ठाकुर राम रत्न जैसा घाघ जमींदार इस पूरे इलाके में नहीं। किसमें हिम्मत है जो ठाकुर राम रत्न को कही बात को नकारे लेकिन कल भरी महफिल में उनकी पगड़ी को उछाला ही नहीं वल्कि पांवों तले रौदा गया। वे मारे अपमान के सुध बुध खो बैठे, हैं और सारा रोप विनोद महर के यहाँ प्रकट कर आये—लाहनत है तुमनर और तुम्हारी जमींदारी पर। हाथों में चूड़ियाँ पहन लो। बिना इज्जत के पैसे को चाटना है क्या? तुम्हारे रहते ध्याने, पंचमीं जैसे टट्पू जिये पंचायते कर हमें जलील करें। यदि अब की भी नहीं चेते तो तुम लोग इन कमीनों द्वारा सड़कों पर घसीटे जाओगे। खैर इसी में है कि इस बार सरपंचीं कामगर के हाय न जाने पाये।

विक्रम ने बाहवाही लूटने के विचार से कुएं पर दो पानी की टोटियाँ लगवा दीं। और कुएं की मुंडेर जो खस्ता हालत में थी, की लीपा-गोती करवा दी। चौगान के पीपल तले लकड़ी का छोटा सा मन्दिर बनवा दिया जहाँ बिना नागा शाम को कीर्तन और प्रवचन होने लगा। जबरू, बिनोद का पृथतीनी नौकर, पीलिये से पीड़ित हो शहर के हस्ताल में भरती हुआ तो हवेली से रोज उसके लिये आधा किलो दूध जाने लगा। जमींदारों की दरियादिली के पुराने पोथे खुल गये।

—राम सरन के बाप हरचरन जैसा दरियादिल जमींदार इलाके में

पैदा नहीं हुम्रा जनाव । किसी की बेटी की शादी हो खुद पहुंच इक्कीस रुपये सगन ढालता । पुआल में बैठे लोग किसे सुनाते ।

पक्की सड़क के बारे में फैसला अभी हुआ नहीं था कि सरपंची के चुनाव आ गये । ध्याना और विक्रम सरपंच के चुनाव में जूझ पड़े । काफी तनाव के बीच चुनाव हुए । सामने की विल्डिंग में गिनती हुई । विक्रम कुछ बोटों से जीत गया । उस रात गांव में शराब की छब्बील लगी ।

ठाकुर रामरत्न दनदनाते हुए धूम रहे थे मूँछों पर ताव देते हुए—  
अब गिन-गिनके बदले न लिये तो कहना । कितने ही कारें स्कूटर आये, गोया यह सरपंच का चुनाव न होकर संसद सदस्य का चुनाव हो । विक्रम के हिमायती कामगारों ने छक कर पी । इस दरियादिली के चर्चे भी काफी अरसा लोगों की जुबां पर रहे । चौगान में अक्षर चर्चा होती ।

—गरीबू, क्या लुत्फ आया था उस रोज ।

— अरे विकरम महर जैसा शहनगाह कौन होगा ? कहने लगा, पैसू पी जितनी चाहे ।

—दरियादिली तो और भी जमीदारों की देखी, पर यह तो बाप को भी मात कर गया ।

—क्या बढ़िया पूरी-छोले बने थे ।

—सरपंची-वरवंची करना कोई खाला जी का वाड़ा है, कलेजा चाहिये । ये कोई गाजर, शक्करकंदी थोड़े ही है कि मारो खुरपा और बाहर निकाल लो । इसमें देमाग, पैसा, बक्त खर्च होता है ।

—बई, खर्च तो वही करेगा जिसके पल्ले होगा । हमारे जैसे टट्पूँजिये क्या खाकर चुनाव लड़ेगे ?

—अरे चुनाव-चुनाव हमारे लिये थोड़े हैं । पैसू ने गरीबू की तान में तान मिलाई ।

इस गांव में पहले दंगल होते थे वरावर के पहलवानों में किंतु अब वो जमाना नहीं रहा कि दंगल तो पहलवानों में हों और अखाड़ा वहां के कामगर बनाएं । दगलों की जगह कबड्डी ने ले ली है । टीमें उत्साह के साथ मैदान में उतरती हैं । एक का कोच ध्याना है तो दूसरे का विक्रम । आज शाम दोनों टीमों के बीच मुकाबला है । आजकल थोड़ी फुरसत के दिन हैं । कई दिनों से टीमों में खूब तैयारी हो रही है । लोगों की नजरे इसी मैच पर हैं । यहां वहां

उसी को ले वातें हो रही हैं। सुवह से रक्खू लौहार के चौंतड़े पर काफी गर्म-गर्म बहसें हो चुकी हैं। वात कवड्डी से शुरू हो गाली-गलौज तक आ रुकती है। रक्खू बीच-बचाव कर देता है वरना तो कवड्डी से पहले ही वाकिसंग हो जाए।

सारा गांव चौगान में इकट्ठा हो चुका है। कवड्डी शुरू होने वाली है। ध्याने के समर्थक एक और हैं तो विक्रम के दूसरी ओर। कुछ लोग पाड़े के आस-पास भी खड़े हैं जो एक बार ध्याने को तो दूसरी बार विक्रम को देख लेते हैं। विक्रम अन्य जर्मीदारों के संग कुर्सी पर विराजमान है और उसने घूप का चश्मा पहन रखा है। ध्याना अपने संगी साथियों के पास चौकड़ी मार कर मैदान पर बैठा है और उसके कंधे पर लाल परना है।

बिलाड़ी अपने अपने उस्तादों के पांव छू मैदान पर आ जुटे हैं। रंगु अपने व्यंग्य व बटाक के लिये गांव भर मे मशहूर है, उस जैसा तीखा व चुभने वाला व्यंग्य कोई नहीं बस सकता। साधारण सी वात को व्यंग्य की चाशनी छढ़ाना उसे खूब आता है। खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ कि उसने व्यंग्य के तीर छोड़ने शुरू कर दिये हैं।

—क्यों भई कवड्डी फीस्टाइल होंगी या नेशनल। सारी भीड़ खिलखिलाकर हँस पड़ी। ध्याने के चुनाव को वह फीस्टाइल मानता है तो दिक्रम के चुनाव को नेशनल। फीस्टाइल से उसका अभिप्राय ताकत से है और नेशनल का अर्थ है दांव चूंकि उसके विचार में विक्रम दांव से ही चुनाव जीत गया है।

—नेशनल। कोई भीड़ में से बोला।

—हाँ भई, फीस्टाइल के लिये तो कलेजा चाहिये और यहाँ तो कलेजी भी नहीं। रंगु की आवाज विक्रम ने पहचान ली।

मैच शुरू हो चुका है। जीता कवड्डी कवड्डी करते हुए पाड़ा पार कर दूसरी ओर जा चुका है। उसे एक बदम आगे बढ़, दो कदम पीछे हटते देख किसी ने फट्टी कसी——हवेली नहीं मैदान है प्यारे।

कवड्डी.....कवड्डी.....गरीबू का दम दूटते देख, फिर कटाक चा पूरी, खा हलवा, दम बना दम। भीड़ जोर से हँसी तो विक्रम ने कटाक करने वाले की तरफ देखा।

जमींदार के समर्थकों को एक भी ग्रवसर नहीं मिल रहा व्यंग्य का जवाब देने का, पर वे इस ताक में हैं कि मौका हाथ लगे तो वे भी हिसाब चुकता करें। ध्याने की टीम के आगे उनकी एक नहीं चल रही।

क.....व.....ड.....डी। मेले हकीम का हाथ लाइन के विल्कुल पास पड़ा और प्वांइट विक्रम की टीम को मिला तो आवाज आई—शिलाजीत खाईए-वेद जी। फिर हंसी का ठहाका।

मैच काफी तेज हो चुका है। कव किसी ने कवड्डी कवड्डी की, कव दम दूटा, पता नहीं चल रहा।

क.....व.....ड.....डी।

ये बनी पक्की सड़क।

क.....व.....ड.....डी।

ये बनी पक्की गली।

क.....व.....ड.....डी।

ये लगा टयूव-वेल।

क.....व.....ड.....डी।

ये खुला दबाखाना।

क.....व.....ड.....डी।

ये खुल गया बैंक।

क.....व.....ड.....डी।

वाह भइ रस-मलाई।

क.....व.....ड.....डी।

भोड़ ठहाके पे ठहाके लगा रही है। विक्रम बुरी तरह तिलमिलाया और उसने आंखों पर से चश्मा उतार लिया। कटाक्ष उसके अंदर गहरे तक धंसते चले गये। पहले तो किसी तरह वह यह सब वद्वित करता रहा किंतु अब तो हृद थी। सारे गांव के सामने उसे यूँ जलील किया जाए, वह कसमसाया। सारी भीड़ की नजरें उस पर थीं। मुट्ठियां अपने आप तन गई—यह बकवासवाजी नहीं चलेगी।

एक दम सन्नाटा छा गया है। भीड़ में कोई फुसफुसाया——भई छिकले वाँध लो छिकले। आसपास के लोग दबी सी हंसी हंसे। विक्रम दनदनाता हुआ रंगू तक आया उसे गरेवां से पकड़कर तीन-चार घूंसे रसीद करते

हुए कहा—मजाक की भी कोई हृद होती है। किसी ने विक्रम को सुनते हुए कहा—गांव के साथ मजाक की भी तो कोई हृद होगी। विक्रम ने पलट कर बोलने वाले को देखना चाहा पर वह कहीं भीड़ में खो गया था।

ध्याने की टीम लगभग जीत ही चुकी थी कि खेल रुक गया। बीच बचाव से भगड़ा तो रफा दफा हो गया पर रस-मलाई व विक्रम के सब्जवारों की चर्चा खूब रही।

रसमलाई से संबंधित घटना काफी अर्से तक तितली सी इधर उधर भंडराती रही। रक्तू लोहार की पुआल पर तो उसके कई संशोधित तथा नये संस्करण निकले। विक्रम के सरपंच बनने के बाद कामगारों का जमीदारों ने पिटना रोज का नियम बन गया और उस पर तुर्दा ये कि कोई हवेली की बुराई भी नहीं कर सकता था। कारें स्कूटर जो कभी गांव वालों के लिये गर्व का विषय थे, अब उन्हें फूटी आंख भी न मुहाते। वे जब जी चाहता किसी के भी खेत से कुछ भी तोड़ लेते और बोये खेतों में से कारें स्कूटर निकाल देते। वे जरा सा मना करते तो विक्रम दोनाली ले कर आ घमकता और वे किसी से कैसा भी भहा मजाक कर देते। विक्रम के धार-दोस्त राह जाती भीलू की लड़की को कार में डाल शहर में ले उड़े थे और जो आज तक नहीं लौटी। ध्याने, पंचू मैनू आदि ने भीलू को बहुतेरा समझाया कि इस संबंध में ध्याने में रिपोर्ट दर्ज कर दी जानी चाहिए। पर उस पर तो दहशत सबार थी कि महर के पास तो डिप्टी, मैजिस्ट्रेट, धानेदार के लड़के आते हैं, वे हल्की सी आंख भी दबा दें तो उसकी टें बुला दी जाएगी। गांव वालों ने इस बात को ले काफी संघर्ष किया। भले ही वे विक्रम को जेल भिजवाने में कामयाव नहीं हुए चूंकि भीलू ने गलत-सलत ध्यान दे दिया था, फिर भी कड़ी चेतावनी के साथ उसकी दोनाली जब्त कर ली गई थी। एक दिन ध्याना, पंचू, मैनू और रंगू हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर बैठा भीलू रसमलाई खा रहा था। वे बुरी तरह कट गए। पंचू के मन में आया कि साले को वहीं जमीन में सीधा गाढ़ दे और रंगू ने तो उसका नाम ही रसमलाई रख दिया।

संतु और रत्नू कंघों पर पल्लियाँ लटकाये और हाथों में दरांतियाँ लिए हाल ही में होने वाले पचु मेले के बारे में बातें करते हुए चौगान की तरफ जा रहे हैं। एकाएक रत्नू की नजर सामने बद पड़ी टोटियों पर जा अटकी

तो वह पूछ बैठा ।

—क्यों वे संतू, अब चुनाव कब होंगे ?

—क्या पता, हर बार सुनते हैं कि दो महीनों बाद होंगे, पर होते-हवाते तो हैं नहीं । इतना कह संतू, ने कुएं की दूटी मुँडेर देखी तो मन वितृप्णा से भर उठा——ये हैं जमींदारों की सरपंची, कितनी बार कहा कि इसकी मुरम्मत करवा दो । पर उन्हें शराबनोगी से फुरसत मिले तब न । फिर सहसा वह रतनू से मुखातिव हुआ——कल ध्याना घर-घर फिर रहा था अठन्नी-अठन्नी चढ़ा इकदृढ़ा करने । चुनू की अम्मा के पास गया तो चुनू की अम्मा बोली, वे ध्याने जब इन हरामियों ने तुम्हें हराया है तो तू इनकी परवाह क्यों करता है ? चखने दे मजा महरों की सरपंची का, तो जानते हो उसने क्या कहा ?

——क्या कहा । रतनू ने कंधे पर से खिसकती पल्ली को ठीक करते हुए पूछा ।

——बोना, चाची जिंदगी में हार जीत तो रहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है । सांझी तकलीफ तो सांझे से ही हल होगी ।

——संतू, एक बात गांठ बांध ले । ध्याने, पंचू, मैनू चाहे हारें चाहे जीतें, लड़ेंगे तो हमारे लिये ही ।

——हाँ, यार, बात तो सही है तुम्हारी । फुलिया जो महरों की आगती उतारती नहीं थकती थी, की लड़की का विक्रम के आदमी उठा कर ले गये तो लभी ध्याने के घर या स्थापा करने । मैं होता या तुम होते तो नहोरे देते, पर उसने उसे तमल्ली देते हुए कहा——घबरा मत, अभी थाने में रिपोट दजं करवा आयेंगे ।

——वर्ड, मजूर के मजूर काम नहीं आयेगा तो और कौन आयेगा ।

——यही तो कहता हूं संतू, कि चाहे सिरहाने सोबो चाहे पैंताने कमर तो दीच ही आयेगा ।

बातें करते करते वे खुले चौगान तक आ गये हैं । रवधू लोहार, अपने चींतडे पर बैठा लोहा पीट रहा है । धौंकनी की हवा से शोले और भड़क रहे हैं । खुरपे, दरातियां, फाले तैयार हो रहे हैं । कटाई जोरों पर है । आजार जितने तेज होंगे उतनी ही तेजी से फसल कटेगी, बंधेगी, गहाई जाएगी और तभी नसीब हो सकेंगे गेहूं के दाने ।

